



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23—अगस्त 29, 2003 (भाद्रपद 1, 1925)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23—AUGUST 29, 2003 (BHADRA 1, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग III—खण्ड 4]

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 2 अगस्त 2003

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण जून 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है :--

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

-कुछ नहीं-

पृ. १० "ख"

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	वक़्ता ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के पुस्तान के लिए आवेदन का नाम	प्रतिभूति और शि तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भायखला, मुंबई, सकल					
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी.सी. 8960	रु. 1,00,000/-	वमसेतजी जिजीभय आणसा जे. जिजीभय	27.2.1998	वमसेतजी जिजीभय आणसा जे. जिजीभय	06.25.70 12.2.2003
बी.सी. 9905	रु. 50,000/-	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	12.4.1998	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	06.25.61 18.6.2002
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएम)					
बी.सी. 2912 और 2913	रु. 50,000/- हर एक	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	12.4.1998	सी. एस. कृष्णा अय्यर कमला कृष्णन	06.25.61 18.6.2002
10% राहत पत्र 1995 (जीपीएच)					
बी.सी. 16710	रु. 3,00,000/-	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह सरला भानू शाह	21.11.1998	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह सरला भानू शाह	06.25.68 24.1.2003
बी.सी. 16088	रु. 4,00,000/-	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह सरला भानू शाह	17.11.1998	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह सरला भानू शाह	06.25.68 24.1.2003
बी.सी. 16714	रु. 4,00,000/-	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह	21.11.1998	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह	06.25.67 24.1.2003
9% राहत पत्र 1999 (जीपीएच)					
बी.सी. 2252	रु. 3,00,000/-	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह	25.02.1999	अमीत भानू शाह भनू कांतिलाल शाह	06.25.67 24.1.2003
मुंबई (फोर्ट) सकल					
5 1/2 % राहत सरकार ऋण 1991					
बी.वाई 011723 एवं बी.वाई 011724	रु. 1000/- (कुल)	प्रमोद अरदेशिर बड़े, नाशिर फिरोजशा मेहता, अरदेशिर नसरवानजी विनोय, इराह अरदेशिर नादिरशाह, जाल हेरपुरजी, अरदेशिर कबील और हेमंग धूमजीशा बतरवाला या आदेशानुसार	18/01/1989	रत्नमाई मदनयासान सभा	मामला सं 20/04/2241/42 महाप्रबन्धक के दि. 21/4/2003 के आदेश तथा केन्द्रीय कर्णालय डबरी से 671 दि. 2/5/2003 के अनुसार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2003

शुद्धिपत्र

सं. यू-16/53/2001 (चि. 2) केरल--दिनांक 29.5.2003 की अधिसूचना संख्या यू-16/53/2001-चिकि. 2/केरल दिनांक 28.6.2003 के भारतीय राजपत्र के भाग-3 के पृष्ठ 7616 तथा 7639 के भाग 4 में जो डाक्टर एस. एल. नवीन को अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में नियुक्त किया गया था, उसकी सेवाएं रद्द की जाती हैं।

(डाक्टर) श्रीमती सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2003

सं. वी-33(13)8/2000-स्था. 4--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-25 के अनुसरण में अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10(1) (च) के अंतर्गत श्री एच. के. जावेरे गौड़ा, सांसद (राज्य सभा) को क्षेत्रीय बोर्ड कर्नाटक में पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं।

अतः दिनांक 5.4.2003 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड-3 में प्रकाशित निगम की अधिसूचना सं. वी-33 (13)8/2000-स्था. 4 दिनांक 13.2.2003 में क्रम संख्या 13(क) में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए :--

क्रम संख्या	प्रस्तावित प्रविष्टि	
13. क	श्री एच. के. जावेरे गौड़ा, सांसद (राज्य सभा) 'श्री रंगा' उत्तरी विस्तार हसन-573201 कर्नाटक	पदेन सदस्य [क.रा.बी. (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 10(1) (च) के अंतर्गत]

डॉ. अजय दुआ
महानिदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्ट लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 जुलाई 2003

नं०13-सी.ए./परीक्षा/आई.एस.ए./स./2003 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1-सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के अनुसार दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम ऑडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 20.09.2003 को सत्र 8 बजे से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र:-

1. आगरा	2. अहमदाबाद	3. इलाहाबाद	4. एलैण्डी	5. अलवर
6. आम्बाला	7. ओरंगाबाद	8. बैंगलोर	9. बरेली	10. भोपाल
11. केलीकट	12. चंडीगढ़	13. चेन्नई	14. कोयम्बटूर	15. देहरादून
16. धनबाद	17. दुर्ग	18. इरनाकुलम	19. फरीदाबाद	20. गाजियाबाद
21. गोवा	22. गुन्डूर	23. गुवाहाटी	24. ग्वालियर	25. हुबली
26. हैदराबाद	27. इंदौर	28. जबलपुर	29. जयपुर	30. जालन्धर
31. जलगाँव	32. जम्मू	33. जमशेदपुर	34. जोधपुर	35. कानपुर
36. कोल्हापुर	37. कोलकाता	38. कोटा	39. लखनऊ	40. लुधियाना
41. मद्राई	42. मैंगलोर	43. मथुरा	44. मेरठ	45. मुरादाबाद
46. मुम्बई	47. मुजफ्फरनगर	48. मैसूर	49. नागपुर	50. नासिक
51. नईदिल्ली	52. नोएडा	53. पटियाला	54. पटना	55. पूना
56. रायपुर	57. राजकोट	58. रांची	59. सेलम	60. सांगली
61. सिलिगुड़ी	62. शोलापुर	63. त्रिवेन्द्रम	64. उदयपुर	65. उडुपी
66. बड़ोदरा	67. वाराणसी	68. वेलोर	69. विजयवाड़ा	70. विशाखापटनम
71. यमुना नगर				

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए है।

इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 02.09.2003 तक पहुँच जाए। दिनांक 02.09.2003 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/-रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 12 अगस्त 2003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाईट www.icai.org से भी प्रिंट किये जा सकते हैं तथा आवेदन पत्र के मूल्य 25/- को जोड़कर डिमांड ड्राफ्ट 1025/- रुपये का भेजा जाना चाहिए।

(वी० रोषाद्री)
संयुक्त सचिव(परीक्षा)

मुंबई-400 005, दिनांक 28 जुलाई 2003.

(चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स)

3 डब्ल्यूसीए (5)/3/2002-2003 इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 ईसीए (4)/6/1988-89 दिनांक 24 फरवरी 1989, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2000-2001 दिनांक 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए (4)/3/1999-2000 दिनांक 31 मार्च 2000, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/1998-1999, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	012150	श्री मोरजारिया भारत कल्याणदास एसीए 91/ए, हीरा पन्ना, भूलाभाई देसाई रोड, मुम्बई - 400026	25/07/2002
2	014084	श्री पंचापकेसन अनंतनारायण एसीए सी/ओ एस.आर.ए. अय्यर, 21/ए, वनपृष्ठ, सीनियर सिटिजन कोम्प्लेक्स, कस्तूरनैकनपलयम, पोस्ट : वडावली, कोयम्बटूर-641041	10/03/2003
3	015256	श्री तुषार मगनलाल देधिया एफसीए 64 सिओन (पश्चिम), मुम्बई-400022	31/05/2001
4	019591	श्री दुर्गाप्रसाद देवभक्तिनी 307 पेन्कोम बिजनेस सेन्टर, अमीरपीट एक्स रोड, हैदराबाद-500073	06/01/2003
5	022774	श्री सुन्दरम आर., एसीए दि केनिन्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स 44372, नैराबी-0, केन्या	04/03/2003
6	023111	श्री श्रीनिवासन के., एसीए सी/ओ श्री के. कृष्णमूर्ति, प्लेट नं. 9, "सरोवर" सेक्टर 9ए, वशी, नवी मुम्बई-400703	26/03/2003

7	027758	श्री आर. अरविन्दन, एसीए सी/ओ रिषब कोरपोरेट सर्विसेज, 25 पद्मश्री मेन्शन, तीसरी मंजिल, फर्स्ट क्रोस, सेम्पोज रोड, मलेश्वरम, बंगलौर-560003	06/03/2003
8	030693	श्री शाह किरण जमनादास एसीए सी/ओ वादीलाल बी. मेहता, दाना पीठ, भावनगर-364001	14/08/2002
9	031660	श्री अजित महादेव आगरकर एफसीए जी/101, लोकमान्य सोसायटी, कयारिया मार्ग, माटुंगा (पश्चिम), मुम्बई-415605	20/11/2002
10	033202	श्री अभंकर सुरेश नारायण एसीए हेराम्ब सदन, मारकण्डी, चिपलून-415605	15/07/2002
11	033943	श्री परटनी सुरेश भगवानदास रूम नं. 4, फ्रेन्ड्स पार्क, एस. न. 106, ए/2बी, सेनापति बापत रोड, पूने-411053	29/04/2002
12	034297	श्री. पटेल दयाभाई बालूभाई एफसीए 1-105 गुजराजी सोसायटी, नेहरू रोड, विले पारले (पूर्व), मुम्बई-400057	02/07/2002
13	034443	श्री सेन्डेसारा नितिनकुमार जयन्तीलाल, एसीए सेन्डेसारा हाउस टोप फ्लोर, 239 जवाहर नगर, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-400062	28/01/2003
14	034496	श्री बहेटी कैलाश चन्द्र, एफसीए कैलाश चन्द्र बहेटी एण्ड कंपनी, 65 एम. जी. रोड, दूसरी मंजिल, फोर्ट, मुम्बई-400023	13/03/2003
15	035782	श्री ठाकर निलेश सुरेन्द्र 11, ग्लामिस एवेन्यू, सिरथ मोरे पार्क, विलिंग्टन-6003, न्यूजीलैण्ड	28/03/2003
16	036206	श्री अय्यर एन. ए. सभापति रेफी ज्वेलर्स, पी. बॉक्स 2376, मनाना-440018, किंगडम ऑफ बाहरेन	06/01/2003
17	036623	श्री श्रीवास्तवा अमरेन्द्र कुमार एसीए सी/ओ लक्की फाइबर्स (एनआईजी) लिमि., 56 अवोलोवो रोड, आइकोई, लागोस -0, नाइजीरिया	17/12/2002
18	036856	श्री सोनी मुकुंद रामछोदलाल एसीए 20/बी तीन मूर्ति बंगला, बी/एच जय अम्बे नगर, डाइव-इन-रोड, थाल तेज, अहमदाबाद-380054	01/08/2002

19	037268	श्री देसाई सुनिल मनवन्तरे, 21/02/2003 एसीए 10-बी जनतानगर सोसायटी, सियाद वसाना रोड, वडोदरा-390015	32	043244	श्री सेठ विक्रम, एसीए 26/12/2002 601 शैलजा अपार्टमेन्ट, पाली हिल, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
20	037338	श्री पुराओ संदीप रमाकान्त 25/11/2002 एसीए 10 वाईट लिली बाबरेकर मार्ग, दादर, मुम्बई-400028	33	044158	श्री सेठ दिनेश कान्तीलाल 10/02/2003 एसीए 18/ए डुंगरशी नगर सोसायटी, भाटा, सारखेज रोड, अहमदाबाद-380007
21	037354	श्री टेकचन्दानी गुल मेघराज 18/02/2003 एसीए 501 गुलमोहर, ओक्जीलियम कोन्वेन्ट रो, पाली हिल, बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050	34	044630	श्री शामल विश्वनाथ परब 26/02/2003 एसीए 608, बी विंग, मृदंग चेम्बर्स, लोकपुरम, थाने (पश्चिम), थाने-400601
22	038798	श्री श्रीराम चन्द्रशेखर, एसीए 13/02/2003 604-4470, टुकाना सीटी, मिसीसोगा, ऑनप एल 5 आर 3 के 8, मिसीसोगा-0, कनाडा	35	044755	मिस अग्रवाल प्रीतिबाला 06/08/2002 एसीए सी/ओ राजकुमार भंडारी, 78, ए-1 अपार्टमेन्ट्स, 270 बालकोश्वर रोड, मुम्बई-400006
23	040147	श्री जगेदिया सतिश, एफसीए 07/10/2002 सतिश जगेदिया एण्ड कंपनी, 501 स्टर्लिंग चेम्बर, 57/59 पूना स्ट्रीट, मुम्बई-400009	36	044882	श्री अतुल गोपाल देओल 14/02/2003 एसीए ए/107 विरोश्वर चेम्बर्स, एम. जी. रोड, विले पारले (पूर्व), मुम्बई-400057
24	040335	श्री चक्रवर्ती अरिन्दम, एसीए 26/12/2002 सी/ओ पी. टी. परफेटी वनमेली, जकार्ता, इण्डोनेशिया	37	045220	श्री संदीप क्वात्रा, एसीए 25/11/2002 फ्लेट नं. 1, के. एच. किशोर दर्शन, 4 बंगला, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058
25	040829	श्री सांघवी सैलेश इन्दुलाल 06/03/2003 एसीए 40/12 उपेन्द्र, सिवरी वडाला रोड, किंग सर्कल, मुम्बई-400019	38	045385	श्री जगवानी महेश वल्लभदास 27/01/2003 3620 कनिफ क्रैस, अपार्टमेन्ट 613, मिसीसोगा, ऑन एल5ए 3एक्स1 ओन्टेरियो, मिसीसोगा-0, कनाडा
26	040877	श्री राठी वृजमोहन, एफसीए 20/03/2003 95 लिंक प्लाजा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, महादा कॉम्प्लेक्स, ओशीवाडा, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400053	39	045395	श्री नेगी देवेन्द्र सिंह, एसीए 12/12/2002 पी. ओ. बॉक्स 38194, डार ईस सलाम, डार ईस सलाम-0, तन्जानिया
27	041086	श्री कवर सुरेश, एसीए 20/05/2002 3 बी तला महल अपार्टमेन्ट्स, घोड़ दौड़ रोड, निकट गोकुलम डेयरी, सुरत-0	40	047213	श्री वरके जोन, एसीए 16/10/2002 एम. एच. अल्शाया को. डब्ल्यू एल.एल., पी. ओ. बॉक्स 181, 13002 सफत, सफत-0, कुवैत
28	041521	श्री जब्बर एच. अब्दुल, एसीए 01/08/2002 एकाउंट्स ऑफिस, आर. बल्लरपुर एरिया बल्लरपुर पी. ओ. जिला चन्द्रपुर, बल्लरपुर-442701	41	047238	श्री अजय विजय जैन, एफसीए 21/01/2003 303-ए दत्तानी नगर 3, एस. वी. रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092
29	041773	श्री सेठ भूपेन्द्र बाबूलाल, एसीए 29/06/2001 भूपेन्द्र सेठ एण्ड कंपनी, 204 आस्था अपार्टमेन्ट, के. डी. गायकवाड़ मार्ग, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080	42	060041	श्री पंकज कुमार प्रीमा, एसीए 12/12/2002 प्लॉट नं. 18 बी, गोदरेज एण्ड बोएस एमएफजी लिमिटेड, विखरोली, मुम्बई-400083
30	042357	श्री हरिया सतीश कुमार 26/03/2003 मोहनलाल, एसीए 11/12 गंगा बिल्डिंग त्रिवेणी, राजाजी रोड, डोम्बोवली-421201	43	083582	श्री महेन्द्र मनोज, एसीए 14/02/2003 फ्लेट 262, डब्ल्यू 2 क्लोवर सिटाडेल, वनोरी, पूने-411040
31	043034	श्री वैजयन्ती परशुराम ववल 16/01/2003 एफसीए 163, शनिवार पीठ, तीसरी मंजिल, पूने-411030	44	102865	श्री चोरा अपूर्वा नवनीत, एसीए 11/02/2003 एनसीआर. पी. ओ. बाक्स 1185, दुबई-0, यूनाइटेड अरब अमिरात

अशोक हल्लिया

डा० अशोक हल्लिया
(सचिव)

मुंबई-400 005, दिनांक 5 अगस्त 2003

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 डब्ल्यूसीए (5)/4/2002-2003 इस संस्थान की अधिसूचना नं. 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2000-2001 दिनांक 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2002-2003 दिनांक 10 फरवरी 2003, 3 डब्ल्यूसीए (4)/3/1999-2000 दिनांक 31 मार्च 2000, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2000-2001 दिनांक 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2001-2002 दिनांक 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए (4)/1/2002-2003 दिनांक 10 फरवरी 2003, और 3 डब्ल्यूसीए (4)/3/1999-2000 दिनांक 31 मार्च 2000, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
----------	----------------	-------------	--------

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	003770	श्री कासिम एसुफ इब्राहिम एफसीए 194 जूपीटर, 41, कैफी पेरड, कोलाबा, मुम्बई - 400005	01/10/1999
2	005047	श्री पटवर्धन पद्माकर प्रभाकर एसीए 11 उमा निवास कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, राम मारुति रोड, लेन नं. 1, नौपदा, थाने-400602	01/10/2002
3	005831	श्री टी. वी. रामा मूर्ति, एसीए फ्लेट नं. 44, बिल्डिंग नं. 314-ए1, सेक्टर 3, श्रृष्टि हाउसिंग कोम्पलेक्स, पेनकर पाडा, मीरा रोड (पूर्व), जिला थाने, मीरा रोड-401104	01/10/2002
4	007592	श्री चन्द्रशेखरन एस. एफसीए एग्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, रेलिस इंडिया लि., 21, डी. एस. मार्ग, मुम्बई-400001	01/10/2002
5	008307	श्री वर्मा वरेन्द्र लालचन्द एफसीए 6 चेतना अपार्टमेन्ट्स, 134 फार्मलेण्ड, न्यू रामदास पीठ, नागपुर-440010	01/10/2002

6	009578	श्री गुजराती जतिन हरिलाल एफसीए सी/ओ जतिन एण्ड रेखा गुजराती, 27 बालडोर ड्राइव, एजिनकोर्ट, ओन्टेरियो, कनाडा, एमआईवी. आईएल 2, कनाडा	01/10/2002
7	010768	श्री टवेडिया केकी मानिकशाह एसीए वाटचा बिल्डिंग, केप्टन कालोनी, टारतेव, मुम्बई-400034	01/10/2002
8	011872	मिस वीरा उवशी गोरधनदास एसीए सी/ओ एम/एस जी. एम. कपाडिया एण्ड कंपनी, 36/बी, टेमेरिण्ड हाउस, दूसरी मंजिल, टेमेरिण्ड लेन, फोर्ट, मुम्बई-400001	08/12/2000
9	011916	श्री रमन कुमार सेठ, एफसीए 3/125, एल. नवजीवन सोसायटी, लेमिंग्टन रोड, मुम्बई-400008	01/10/2002
10	012467	श्री तलसानिया प्रमोदकुमार कंचनलाल, एफसीए बी 302 विशाल सुशील, ऑफ नारीमन रोड, विले पारले (पूर्व), मुम्बई-400057	08/12/2000
11	015404	श्री पोपट निरंजन वसनजी एसीए 32, हन्टर्स ग्राव, हेरो, मिडलसेक्स, एचए 3, 9 एए, मिडलसेक्स-0, यू.के.	01/10/2002
12	015815	श्री दिव्यकान्त रमनिकलाल झवेरी, एसीए 9, तरंग सोसायटी, अकोटा स्टेडियम के सामने, अकोटा, वडोदरा-390020	08/12/2000
13	016329	भण्डारी रघुवरी, एसीए 701, मेरिडियन अपार्टमेन्ट्स नं. 5, वीर देसाई रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/2002
14	019657	श्री प्रभाकर बी. ए., एसीए बैंक ऑफ बडोदा, 16 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001	01/10/2002
15	020588	श्री वी. श्रीनिवासन, एसीए एम डी एण्ड सीईओ, आईसीआईसीआई इन्फोटेक लिमिटेड, इन्टरनेशनल इन्फोटेक पार्क, टावर्स-5, लेवल-4, वशी स्टेशन कोमलेक्स, वशी, नवी मुम्बई-400705	01/10/2002
16	021641	मालीवाल जी. एल, एफसीए सी-2-1सी, टेरेस व्यू, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103	01/10/2002

17	022371	श्री गनपति सुब्रमन्यम, एसीए 01/10/1999 स्टार इण्डिया लिमिटेड, दि मास्टरपीस, अन्धेरी कुर्ला रोड, मारोल नाका, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400059	29	033085	श्री बुटाला राजेश वंशीलाल 01/10/1993 एफसीए 8/10 कालकोट हाउस, पहली मंजिल, टेमरिण्ड स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001
18	029812	शिरवाडकर सुरेश पी., एसीए 01/10/2002 जेड 204 प्रजापति गार्डन, सेक्टर 5, न्यू पनवेल, पनवेल-410206	30	033227	श्री देसाई दर्शन शांतनू, एफसीए 01/10/2002 63, सतनाम अपार्टमेंट्स, छठी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर के सामने, केफे परेड, मुम्बई-400005
19	030261	श्री भण्डारकर नारायण अनन्तराय 01/10/2002 11-सी 'अश्विन' प्लोट नं., 27/1, मारवे रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064	31	033925	श्री गांधी अमूल महेशचन्द्र 01/10/2002 एफसीए 5, मल्हार हाउस, रत्नम के पीछे, सी. जी. रोड, अहमदाबाद-380006
20	030754	श्री अग्रवाल गिरधारीलाल 01/10/2002 गोविन्दराम, एफसीए 22, बाबाराशि मेन्शन, पहली मंजिल, शिवम शोपिंग सेन्टर के अन्दर, न्यू इरा थिएटर के सामने, एस. बी. रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064	32	033975	श्री नायर वेणुगोपाल बलान 01/10/2002 एसीए एफको सोसायटी फ्लैट नं. 2, बिल्डिंग ए 2/2, निकट शान्ति आश्रम, जीवन बीमा नगर, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400103
21	031095	श्री बेरडे दीपक विश्वनाथ 01/08/1982 एसीए 21, मानिक दीप, तुलशीकागवाले कालोनी, सहकार नगर नं. 2, पूने-411009	33	033984	श्री पटेल जाई महेन्द्रभाई 01/10/1992 एफसीए 1849, आरबर लेन, यूनिन न्यू जर्सी-09083, न्यू जर्सी-0 यूएसए
22	031301	श्री पारिख सुशील कान्तिनलाल 01/10/2002 एसीए 603-बी, स्टोक एक्सचेंज टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400021	34	034048	श्री शिकन्दर निजामसाहब काजी 01/10/2002 एफसीए 1505-सी, लक्ष्मीपुरी, कोल्हापुर-416002
23	031792	श्री माल्या यशवन्त श्रीनिवास 01/10/2001 ए/101, सुमेर केसल, केसल मिल्स कम्पाउण्ड, एल. बी. एस. मार्ग, थाने (पश्चिम), थाने-400601	35	034398	श्री शाह दिक्षित कान्तिनलाल 01/10/1996 एसीए 202, चर्चगेट चेम्बर्स, न्यू मेरिन लाईन्स, मुम्बई-400020
24	032033	श्री दीपक रतिलाल शाह, एसीए 01/08/1982 दीपक 1, ओपेरा सोसायटी नं. 1, सुखीपुरा के पास, न्यू शारदा मंदिर रोड, पालदी, अहमदाबाद-380007	36	034638	श्री नगदा मूलचन्द मन्शी 01/10/2002 एफसीए 215/216, कामेर बिल्डिंग, 38 कवसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400023
25	032233	श्री ठक्कर शंकरलाल प्रगजिभाई 01/10/2002 एफसीए दूसरी मंजिल, आशा कॉम्प्लेक्स, नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	37	034813	श्री नेरूरकर शान्तराम गोविन्द 01/10/2002 एसीए 22 'सी' शिवप्रभा, विट्रो फार्मा के सामने, सेक्टर 1, चारकोप विलेज रोड, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
26	032417	मिस शाहवर्षा जी., एसीए 01/10/1996 19, पिकोला कोर्ट, नोर्थ योर्क, ओन्टेरियो एम2एच 2एन2, कनाडा	38	035109	श्री माटे प्रकाश तुकाराम 08/12/2000 एफसीए 191 शनिवार पीठ, पूने-411030
27	032859	श्रीधरन राजागोपालन, एसीए 01/10/2002 फ्लैट नं. 4, गीता कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, रामबाग, लेन नं. 4, कल्याण-641009	39	035622	श्री शाह ललित बाबूलाल 01/10/2002 एफसीए 4/52, शान्ति भुवन, 47, ओल्ड हनुमान लेन, मुम्बई-400002
28	032915	श्री रजनीकान्त करूणाशंकर 01/08/1983 जोशी, एसीए बी/11, त्रीवेणी सोसायटी, अरूणाचल सोसायटी के पीछे, अरूणाचल, सुभनपुरा, वडोदरा-390023	40	035884	श्री लूथरिया सुनिल कुमार 01/10/1999 बोदाराम, एफसीए 16 वसन्त ब्रिजी चेम्बर्स, 467 डॉ. अम्बेडकर रोड, किंग्स सर्कल, मुम्बई-400019

- 41 035915 श्री महेशकुमार सुबोधचन्द्र शाह 01/10/1988
एसीए
फ्लेट नं. डी/303, स्काईहाई, निकट शंकरलेन,
मलाड़ (पश्चिम), मुम्बई-400064
- 42 036706 श्री दिक्षित अनिल अरविन्द 01/10/2002
एफसीए
15-ए/11, वृन्दावन, थाने (पश्चिम),
थाने-400601
- 43 036764 श्री मेहता जितेन्द्र एस. 01/10/2002
एफसीए
फ्लेट नं. 602; बिल्डिंग नं. 6, सी ब्रिस टावर्स,
सेक्टर -16, पाम बीच रोड, नेरूल (पश्चिम),
नवी मुम्बई-400706
- 44 037475 श्री सेठ अनिल कुमार, एफसीए 01/10/2002
706, साकार-5, नटराज सिनेमा के पीछे, आश्रम
रोड, अहमदाबाद-380009
- 45 037537 श्री मनी शिवशंकरन अय्यर 01/10/1996
एसीए
ए-6 मीरा प्लोट नं. 88, 21 रोड, चेम्बूर,
मुम्बई-400071
- 46 037584 श्री लेड राजेश प्रभाकर 01/10/1999
एसीए
बी 46/182 सिद्धार्थ नगर, रोड नं. 8, गोरेगांव
(पश्चिम), मुम्बई-400400103
- 47 037700 सरवया हेमन्त कुमार नवनीतलाल 01/10/2002
एसीए
702, रघुनाथ टावर, देवीदास लेन, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400103
- 48 037786 मिस त्यागराजन विजयलक्ष्मी 01/10/2002
एसीए
103, आशियाणा, ऑफ जे. पी. रोड, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400054
- 49 038137 श्री दिलीप गनपतराव खोसे 01/10/2001
एफसीए
20, अमर कुंज, जे. बी. नगर, अन्धेरी (पूर्व),
मुम्बई-400059
- 50 038589 मिस स्मीता मनुभाई देसाई 08/12/1997
एसीए
देसाई बिल्डिंग, शिवा बाग, बोरडी फलिया,
वडोदरा-313001
- 51 038630 श्री हिरन योगेश, एफसीए 01/10/1999
44-डी पंचवटी, आलोक स्कूल के सामने,
उदयपुर-313001
- 52 038722 श्री दिनेश कुमार पाण्डे, एसीए 01/10/1996
703/31, बारह कोठी, नगरा, अजमेर-305008
- 53 038830 श्री राजेश रमेश जोशी, एसीए 01/10/1998
दामोदर स्मृति, फ्लेट नं. 5, दूसरी मंजिल, 14
रोड, खार, मुम्बई-400052
- 54 039499 श्री पवाने मोहम्मद इस्माइल 01/10/2002
इब्राहिम, एसीए
स्विफ्ट फ्रेट इन्टरनेशनल, पोस्ट बॉक्स 50177,
दुबई, यूएई-0
- 55 039843 श्री केन्दूरकर राम प्रभाकर 01/10/2002
एफसीए
एफ-27, अमर ज्योति पेलेस, वारधा रोड,
नागपुर-440012
- 56 040265 श्री सुरेन्द्र यशवन्त रानाडे, एसीए 01/10/2002
14 बी विंग अनुबन्ध सोसायटी, तिलक हाई स्कूल
रोड, तिलक नगर, डोम्बीवली (पूर्व)-421201
- 57 040422 श्री मेहल यदुनन्दन देसाई 01/10/1999
एसीए
2, शुभम बजाज रोड, विले पारले (पश्चिम),
मुम्बई-400056
- 58 040477 श्री आर. हिरूदया कान्त 01/10/1999
एफसीए
82, विलेज सर्कल, ब्रिज वाटर, न्यू जर्सी,
एन. जे.-08807, यूएसए-0
- 59 040894 श्री चौहान किरीत निहालचन्द 01/10/2002
एसीए
स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, पीओ. बॉक्स -99,
दुबई-यूएई-0
- 60 040917 श्री कन्मन एस., एसीए 01/10/1996
बी-3, लक्ष्मी निवास, 39 प्रतापगंज,
वडोदरा-390002
- 61 041356 श्री चौहान रमेशभाई लाखाभाई 01/10/2001
एसीए
एफ/57 गणेश बाग, प्लोट नं. 208, डॉ. बी. ए.
रोड, माटूंगा (पूर्व), मुम्बई-400068
- 62 041457 श्री अग्रवाल सुबोध आनन्द 08/12/2000
एसीए
7201 वेली बेण्ड वे, प्लेनो, टीएक्स-75024,
यूएसए
- 63 041508 मिस पण्डित मुग्धा, एफसीए 01/10/2002
बलराज मार्ग, धानटोली, नागपुर-440012
- 64 041542 मिस देसाई संगीता ईश्वरलाल 01/10/2002
एफसीए
94 आरामनगर 2, वरसोवा रोड, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400061
- 65 041858 श्री तेलंग महेश यशवन्त 08/12/2000
एसीए
27/ए, पीठनगर, कैदारमल रोड, मलाड़ (पूर्व),
मुम्बई-400097

- 66 041942 श्री मेहता अजित प्रनजीवन 01/10/2001
एफसीए
फ्लेट नं. 6021, बिल्डिंग नं. 229, औरो विला,
बी विंग, पहली मंजिल, ऑफ आर. एन. नरकर
रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077
- 67 041987 मिस नन्दकरनी प्रणती प्रदीप 01/10/2002
एसीए
48, प्रोक्टर रोड, ग्रान्ट रोड (पूर्व), मुम्बई-400007
- 68 042125 मिस हरजाई लीना राकेश 01/10/2002
एसीए
सी/ओ राकेश कुमार हरजाई, नरोसिया सर्विसेज
(एचकेजी) लिमिटेड, 22/एफ, 9-डीईएस ब्रॉक्स
रोड (पश्चिम), शिर्गोण वेन, होंगकॉंग-400069
- 69 042267 श्री पटेल हिमांशु योगेश, एसीए 01/10/2002
सी/7 गंगा जमुना एल टी रोड, बोरीवली
(पश्चिम), मुम्बई-400092
- 70 042280 शाह विपीनचन्द बंसीलाल 01/10/2002
एसीए
16 गिरीकन्दरा पंचअमृत सोसायटी, विहाग-2,
निकट टी. बी. होस्पिटल, गोतरी रोड,
वडोदरा-390021
- 71 042314 श्री छाबड़ा गुरुचरन सिंह, एसीए 01/10/2002
पी. ओ. बॉक्स 27275, दुबई-0, यूएई
- 72 042339 श्री शाह मनोज नब्जी, एफसीए 01/10/2002
5वीं मंजिल, सावला चेम्बर्स, 40 कवासजी पटेल
सेन्टर, फोर्ट, मुम्बई-400001
- 73 042350 श्री सदरुद्दीन अब्दुलकरीम 01/10/2002
खेतानी एफसीए
7 बेगश्री, कल्याणीनगर, पूने-411006
- 74 042573 श्री डी. कृज वेरनन एजर 01/10/2002
एसीए
4-बी, विलिंगडन कालोनी, सान्ताक्रूज (पश्चिम),
मुम्बई-400005
- 75 043273 ठाडानी रमेश अरजन, एसीए 01/10/2002
फ्लेट नं. 3, दौलत बिल्डिंग, 31 डी. कोलाबा
रोड, कोलाबा, मुम्बई-400005
- 76 043518 श्रीमति सीमा प्रकाश पोटदार 01/10/2002
एफसीए
402/1, 402/2, 402 ए, गुरुवार पीठ, पवार टावर्स
के सामने, पेलेस स्ट्रीट, सतारा-400009
- 77 043697 श्री चौधरी महावीर चन्द, एसीए 01/10/2002
402 फैंज-ए-कुतबी, 375 नरसी नाथ स्ट्रीट, कथा
बाजार, मुम्बई-400009
- 78 043702 श्री त्रिपाठी विजयकुमार 08/12/1997
राम भरोस, एसीए
17/99 अनुभव धाम, गरोडिया नगर, घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400077
- 79 043941 श्री गोखले प्रदीप श्रीपद, एसीए 01/10/2002
सी-80, शतदेल कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
आजाद स्ट्रीट, ऑफ एस. बी. रोड, अन्धेरी
(पश्चिम), मुम्बई-400058
- 80 044037 श्री राजे सचिन रमेश, एसीए 01/10/2002
175/4886, पन्तनगर, घाटकोपर (पूर्व),
मुम्बई-400075
- 81 044084 श्री वर्मा राजेन्द्र कुमार, एफसीए 01/10/2002
686 प्लेस लेन, लन्दन, ओनटेरियो एन6जी 3बी2,
कनाडा
- 82 044349 श्री अयनार श्रीराम गोपालन 01/10/2002
एम/एस डेयटा किरलोस्कर मोटर लिमिटेड, प्लोट
नं. 1, बिदादी इन्डस्ट्रियल एरिया, रामानगर तालुक,
गैंगलोर (रूरल), बंगलौर-562109
- 83 044364 श्री पाटील दयाराम खुशलराव 01/10/2002
एसीए
सेक्शन नं. 20, कृष्ण नगर, चिंचवाड,
पूने-411019
- 84 044538 श्री जैन गोकुल सुवालालजी 01/10/2002
एसीए
पी. ओ. बॉक्स नं. 2047, काड-112, रूवी मस्कट,
सल्तनत ऑफ ओमान
- 85 044639 मिस अय्यर मुरलीप्रिया, एसीए 01/10/2002
प्लोट नं. 44, फ्लेट नं. 6, अमृतवानी कोपरेटिव
सोसायटी, 15 रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
- 86 045208 श्री अनूप मोहन जोहरी, एसीए 01/10/2002
201 बी, हेलिक्स, राज ट्रेड सेन्टर, सायाजीगंज,
वडोदरा-390005
- 87 045227 श्री जयन गोविन्दन मेनन, एसीए 01/10/2002
ए-501 आर्कृति अटरिया, साईवाड़ी टेली गली,
अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069
- 88 045229 श्री ओम प्रकाश इनानी, एफसीए 01/10/2002
महिन्द्रा गुजरात ट्रेक्टर लिमिटेड, निकट विश्वामित्र
रेलवे ओवरब्रिज, विश्वामित्री, वडोदरा-390011
- 89 045284 मिस संगति गनेश, एसीए 01/10/2002
901 हाफा हाउस, पी. ओ. बॉक्स नं. 2609, सलालाह
पी. सी. 211, सल्तनत ऑफ ओमान
- 90 045298 श्री डंगरवाला उमेशकुमार 01/10/2002
रंजनीकांत, एफसीए
मंसीधाम निकट अरविन्द आश्रम, डांडिया बाजार,
वडोदरा-390001
- 91 045320 श्री संगीतानी कमल गोविन्दराम 01/10/2002
एफसीए
रूम नं. 13, वेलानी भवन, एस. एल. रोड, मुलुंद
(पश्चिम), मुम्बई-400080

92	045419	श्री दासगुप्ता प्रताप, एसीए 01/10/2002 301 जून अपार्टमेंट, गौथान लेन नं. 1, ऑफ एस. बी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	105	047781	मिस दिप्ती मेहल पाठक, एसीए 01/10/2002 डी 2 सेक्रेड हार्ट टाउन सोसायटी, वनवाडी, पूने-411040
93	045519	श्री शेटी जगन्नाथ, एसीए 01/10/2002 ओ 305 ग्रीनफील्ड, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कान्दीधली (पूर्व), मुम्बई-400101	106	047893	श्री मुनिल कुमार रिपलवा 01/10/2002 एसीए सी/ओ बी के एन एसोसिएट्स, ए17/8 गंगाप्रताप बाग, न्यू दिल्ली-110002
94	045619	श्री राजेश कुमार प्रहलाद 01/10/2002 राय व्यास, एफसीए 419-ई तीसरी मंजिल, जोशी वाडी, कलबादेवी रोड, मुम्बई-400002	107	047926	श्री नारायण स्वामी कर्मा 01/10/2002 एसीए सी/ओ सिटी बैंक एन. ए. सिटी बिजनेस, 41 कनक बिल्डिंग चौक लेन, कोलकाता-0
95	046196	शर्मा राजेश ओमदत्त, एसीए 01/10/2002 सी-4 विभा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 31 रामचन्द्र लेन, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064	108	048131	मिस माहेर एदल कसद, एसीए 01/10/2002 1-बी/14 टाय मिल्स कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, एलिफिन्स्टन रोड, पारेल, मुम्बई-400012
96	046464	श्री देवांग जशवंतलाल शाह 01/10/1999 एफसीए 14 कल्याण नगर सोसायटी, आउट साईड शाहपुर गेट, अहमदाबाद-380004	109	048196	श्री जेन रजनीश इन्दरचन्द 01/10/2002 एसीए एल-94 मेकर टावर्स, कफी रोड, मुम्बई-400005
97	046702	श्री वारागुर कृष्णमूर्ति स्वामीनाथ 01/10/2002 सिनियर मैनेजर (एकाउन्ट), कृषक भारती कोपरेटिव लिमिटेड, ए-810 सेक्टर 1, नौएडा-201301	110	048197	मिस पाटकर श्यामल कमलाकर 01/10/2002 एसीए रेमन हाउस, तीसरी मंजिल, चर्चगेट, मुम्बई-400020
98	046912	श्री जैन राजेन्द्र कुमार, एसीए 01/10/2002 पी. ओ. बॉक्स 737, दार ईस सलाम, तन्जानिया, पूर्वी अफ्रीका-0	111	048461	श्री वीरराघवन पी. आर, एसीए 01/10/2002 नं. 11, कृष्ण कुंज, 14 रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
99	047182	अर्जुन वैद्यनाथन, एफसीए 01/10/2001 सी-48 श्रीनगर चेम्बर्स, पी. एल. लोखण्डे मार्ग, चेम्बूर, मुम्बई-400089	112	048520	श्री वजन परवेज दिनियर, एसीए 08/12/2002 22 पाटेल अपार्टमेंट्स, अगियारी लेन, जाम्बली नाका, थाने (पश्चिम), थाने-400601
100	047223	श्री जैन सन्तोष कुमार, एसीए 01/10/2002 फ्लैट नं. 9, सविता, 16 रोड, चेम्बूर (पूर्व), मुम्बई-400071	113	048759	अग्रवाल नटवर लाल, एफसीए 01/10/2002 30 गोपाल भवन, 199 प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुम्बई-400002
101	047308	मिस अय्यर लता बी., एसीए 01/10/2002 एंकटेश्वरन, 280 ट्रॉमवे ड्राइव मिलपिटस, केलिफोर्निया, सी. ए. 95035	114	048966	श्री आहुजा गोविन्द पिताम्बर 01/10/2002 एसीए एस. आर. बाअलीबोई एण्ड एसोसिएट्स, 18वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नारीमन पोईंट, मुम्बई-400021
102	047354	श्री नरकर आशिष बालकिशन 08/12/2000 एसीए 10/86 मोरेश्वर कृपा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सोसायटी दातर कालोनी, भंदूप (पूर्व), मुम्बई-400072	115	048999	श्री जैन गणेश ब्रिजलाल, एसीए 01/10/2002 ए-10, अलकनन्दा, सेक्टर 14, वशी, नवी मुम्बई-400705
103	047370	श्री माइकल जोर्ज वैगस, एसीए 01/10/2002 सी-205, श्रीनाथ नगर, शिव वल्लभ रोड, दहीसर (पूर्व), मुम्बई-400068	116	049234	मिस शिवांगिनी शर्मा, एसीए 01/10/2002 सी/ओ एन. एस. मेडोरा, डी-3 स्टर्लिंग कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, ड्राइव इन सिनेमा के पोडे, मेमनगर, अहमदाबाद-380052
104	047487	श्री बंगलौरवाला चेतन रतिलाल 08/12/2000 एसीए सी/ओ निलेश बंगलौरवाला, पी. ओ. बॉक्स 999, यू. ए. ई.	117	049549	श्री शाह यतिन चंपकलाल 01/10/2002 एफसीए 102 दर्शन अपार्टमेंट, सोनी नी वाडी के सामने, सिम्पोली, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092

118	049612	श्री प्रजापति हेमन्तकुमार करसनदास, एसीए 14, तपोवन सोसायटी-1, अनिल रोड, सरसपुर, अहमदाबाद-380018	01/10/2001	131	054631	श्री गोयल बिरेन्द्र कुमार एफसीए पी-51, विवेकानन्द नगर, लिलुह, हावड़ा, हावड़ा-711204	01/10/2002
119	049635	श्री प्रसाद नरहारी लेंक, एसीए लेंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, धुसवाड़ी, ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002	01/10/2002	132	056538	श्री अमिताव सुर, एसीए कोमसेट मेक्स लिमिटेड, डी 222/24 टीटीसी इन्डस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी नेरूल, विलेह शिरवाने, नवी मुम्बई-400706	01/10/2002
120	049670	श्रीमती लेंक मृन्मयी प्रसाद एसीए लेंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल धुसवाड़ी ठाकुरद्वार, मुम्बई-400002	01/10/2002	133	057188	मिस जोसफ मारिया, एसीए 104-60 क्वीस बीएलवीडी, अपार्टमेन्ट 7 पी फोरेस्ट हिल्स, न्यू योर्क, न्यूयॉर्क-11375, यूएसए	01/10/2002
121	049711	श्री डिसूजा डेरिक, एसीए पी. ओ. 3168र, पी. सी. 112, रूवी, ओमान	01/10/1999	134	057478	श्री बन्दोपाध्याय अर्जित, एसीए वीएसएनएल, एल. बी. एस. बी. काशीनाथ घूरू मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400028	01/10/2002
122	049717	श्री संघवी सुकेती भानूराय एसीए पंकज अपार्टमेन्ट्स (वसन्त मेनर), देवूड बाग लेन, जे. पी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/1999	135	057520	मिस अंजलि परब, एसीए फ्लेट नं. 1/18 स्नेहा कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, अम्बेडकर नगर, वरली, मुम्बई-400018	01/10/2002
123	049772	मिस दलाल मिताली सुरेश एसीए एम/एस अर्चुर एन्डरसन, स्टाफ कन्सलटेंट, 17 वीं मंजिल, एकस्प्रेस टावर, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021	01/10/2002	136	057695	मिस खालिद रेशमा, एसीए फ्लेट नं. 5, दूसरी मंजिल, 44बी शमशूल हुदा रोड, कोलकाता-700017	01/10/2002
124	049901	श्री रोहित प्रकाश, एसीए बी-2, पहली मंजिल विजयश्रीकेतन, 59 गिरी रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017	01/10/1999	137	057962	मिस डिम्पल मेहता, एसीए 43 सरत बोस रोड, "पदमनीर", फ्लेट नं. 503 कोलकाता-700020	01/10/2001
125	049946	मिस जिवानी लैला अब्दुलअजीज ब्लॉक नं. 16, तीसरी मंजिल, फिदायी सेन्टर, फिदायी बाग, एस. बी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/2002	138	058874	श्री वासुदेवन बी., एसीए सी/ओ श्री सुभाष कपूर, हाउस नं. 15 गार्डन एस्टेट, ग्लेडिस अलवारिस रोड, थाने-400601	01/10/2002
126	051096	श्री मोर सुनिल कुमार, एफसीए 501 देवश्री अपार्टमेन्ट, 204 सीमेन्ट रोड, धरमपीठ एक्सटेंशन, नागपुर-440010	01/10/2002	139	059055	श्री शर्मा राजेश कुमार, एसीए सी/ओ हरिश ई जोशी, एन-703, इन्द्रप्रस्थ टावर, ड्राइव अन रोड, अहमदाबाद-380054	01/10/2002
127	051521	श्री विनोद कुमार गर्ग, एफसीए 1901 मेराथन हाईट्स, पाण्डुरंग बुधकर मार्ग, अपोजिट बोम्बो डाईंग एमएफजी कंपनी, लवर पारेल, मुम्बई-400013	01/10/1999	140	059615	कथूरिया ऋषि, एसीए ऑडिट एंजीक्वूटिव, नेस्टले इंडिया लिमिटेड, नेस्टले हाउस, जाकारेन्डा मार्ग, एम. ब्लॉक डीएलएफ सिटी फेज-2, गुडगांव (हरियाणा), गुडगांव-122002	01/10/2001
128	052874	श्री दिलीप चक्रवर्ती, एसीए सी/ओ अन्तर् बालाजी लिमिटेड, सेक्टर 2, प्लोट नं. 64, गांधीधम (गुजरात), गांधीधाम-00	01/10/2002	141	059705	श्री तिबरवाल कमलेश, एसीए ओ एन जी सी लिमिटेड, स्कोप मिनार, 15वीं मंजिल, लक्ष्मीनगर, नई दिल्ली-110092	01/10/2002
129	053559	श्री प्रदीप कुमार गरोड़िया एफसीए डी-204 तक्ष कोम्प्लेक्स, गोतरी मेन रोड, वडोदरा-390007	01/10/2002	142	073474	श्री माधव आचार्य, एसीए बी-5/6 वसन्त कुंज, फ्लेट 4622, नई दिल्ली-110070	08/12/2000
130	054480	श्री एस. रघुपति, एसीए निटको टाइल्स लिमिटेड, मेकर चेम्बर्स 3, 8वीं मंजिल, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021	01/10/1998	143	075664	श्री राजमल नाहर, एफसीए ए 403 सोनी पार्क 1, चीकूवाड़ी, सिमपोली विलेज, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092	01/10/2002
				144	076374	श्री भारद्वाज दीपक, एसीए एफ-2/28 नन्द निकेतन, ऐसार टाउनशिप, हजीरा, सूरत-394270	01/10/2002

- 145 076836 श्री गुल्हाटी अरविन्द ए., एसीए 08/12/2000
105 मानसरोवर बिल्डिंग, माउण्ट प्लीसेन्ट रोड,
मालाबार हिल्स, मुम्बई-400006
- 146 078301 श्री बाबू सिंह राजपुरोहित 01/10/2002
एसीए
सी/ओ पी. आर. पुरोहित, ऑफिस नं. 9, चामुण्डा
हेरीटेज, कोलहंगरी शार रोड, जीवन विकास
होस्पिटल के पीछे, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069
- 147 079789 श्री रांका सुधीर कुमार, एसीए 01/10/2002
605 ए विंग, आदीनाथ अपार्टमेंट्स, 8/281 तारदेव
रोड, ग्रान्ट रोड (पश्चिम), मुम्बई-400007
- 148 090038 श्री खुराना अरूण, एसीए 01/10/1993
एबीएन एमरो बैंक, ग्लोबल फाइनैस मार्केट्स,
82 शंकर भवन, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021
- 149 092637 श्री शर्मा यशस्वी, एफसीए 01/10/2002
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, 1111-बी रहेजा चेम्बर्स,
नारीमन पोइंट, मुम्बई-400021
- 150 097053 मिस बोहरा शालिनी, एसीए 01/10/2002
902, टावर-7, सी ब्रिज टावर्स, सेक्टर-16,
नेरूल, नवी मुम्बई-0
- 151 097513 श्री धार इशेत, एसीए 01/10/2002
डी सी रेजीडेंस हाउस, सेशन्स हाउस के सामने,
होशियारपुर-0
- 152 100075 श्री राव प्रदीप विठल, एसीए 01/10/2000
ए 701 ब्रह्मा निवास, महादा, मुलंद (पूर्व),
मुम्बई-400081
- 153 100107 श्री समसी अनिरुद्ध अरून 01/10/2002
एसीए
ए/11, आनन्द कोर्ट, डॉ. वी. रघुवंत मार्ग,
बान्द्रा (पश्चिम), मुम्बई-400050
- 154 100227 श्रीमती शामला निलेश पोटनीस 01/10/2002
एसीए
सी-12, विट्यासंघय सोसायटी, आरसीएफ रोड,
निकट वशी गांव, चेम्बूर, मुम्बई-400074
- 155 100381 श्री पांडा जितेन्द्र कुमार, एसीए 01/10/2002
ए-101 स्टर्लिंग, ऑफ लिंक रोड, कांदेरपाड़ा,
दहीसर (पश्चिम), मुम्बई-400068
- 156 100432 मिस शाह फाल्गुनी विनोदकुमार 01/10/2002
एसीए
119/5 मस्काटी महल, कान्तीलाल एम. शर्मा
मार्ग, मुम्बई-400002
- 157 100712 श्री सावला सतीश गंगजी, एसीए 01/10/2002
192/12 पुष्पकुंज, स्टेशन रोड, वडाला,
मुम्बई-400031
- 158 100952 श्री श्रीधर राघवनर, एसीए 01/10/2002
सी-2/13, चित्तरंजन नगर, राजावाड़ी, घाटकोपर
(पूर्व), मुम्बई-400077
- 159 100998 श्री अग्रवाल अभिषेक बलकुमार 01/10/2002
एसीए
81 प्रणीत जयवंत पालकर मार्ग, पोद्दार होस्पिटल
के सामने, वरली, मुम्बई-400025
- 160 101284 श्री लायंडन लुईस डेसा, एसीए 01/10/2002
209/339 स्वांस्टन स्ट्रीट, मेलबोर्न,
विक्टोरिया-3000, मेलबोर्न-0, आस्ट्रेलिया
- 161 101358 मिस शाह रजवी एल., एसीए 01/10/2001
2 ओसवाल कालोनी, सुमैर क्लब रोड,
जामनगर-361005
- 162 101483 श्री कवनकल साजी माथई 01/10/1999
एसीए
एबीएन एमरो बैंक एन. वी., प्राइवेट बैंकिंग
डिपार्टमेंट, पी. ओ. बॉक्स 2567, यू ए ई, दुबई-0
- 163 101688 श्री मुरका राजेश सत्यनारायण 01/10/2002
एसीए
आशीर्वाद बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, एबीसीवीई बैंक
ऑफ महाराष्ट्र, एस. एन. रोड, अन्धेरी (पूर्व),
मुम्बई-400069
- 164 101805 श्री लेड नरेन्द्र जी., एसीए 01/10/2002
355 निनद बिल्डिंग नं. 7, निकट भविष्य निधी
भवन, सर्विस रोड, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400051
- 165 102194 श्री भट्ट अजय धर्मदत्त, एसीए 01/10/2002
103 राज बिन्दु कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी,
अतुल टावर के सामने, मथुरादास एक्सटेंशन रोड,
कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067
- 166 102219 श्री शाह केयूर भारत, एसीए 01/10/2002
ए-504 वैशाली अपार्टमेंट, क्लब एक्वारियो के
आगे, देवीदास लेन, बॉरीवली (पश्चिम),
मुम्बई-400103
- 167 102336 श्री बी. अजित कुमार पेट्रो 01/10/2002
एसीए
एम/एस अट्टा (केन्या) लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स
83272, मोमबासा-0 केन्या
- 168 102348 मिस हुजूरबाजार अश्विनी गिरीश 01/10/2002
बी/8 भाग्योदय कोपरेटिव सोसायटी, टीपीएस 6
लिंकिंग रोड एक्सटेंशन, प्लोट नं. 9/10, सान्ताक्रूज
(पश्चिम), मुम्बई-400054
- 169 102840 श्री गांधी धर्मेश विनोद, एसीए 01/10/2002
901 आदर्श टावर, आदर्श विहार कॉम्प्लेक्स, ऑफ
मारवे रोड, मलाड (पश्चिम), मुम्बई-400064
- 170 102851 श्री घई जतिन सिंह अजपाल सिंह 01/10/2002
एसीए
717, सुन्दर विला, 12वां रोड, खार (पश्चिम),
मुम्बई-400052

171	103122	मिस सिंह रागिनी राज किशोर एसीए बंगला त्र. 1, बी. पी.सी.एल. कालोनी, अजिया बाग, चेम्बूर, मुम्बई-400074	01/10/2002	183	104254	श्रीमती ममता कश्यप गनातरा एसीए 202 लाभस्मृति, बेपटिस्ट रोड, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई-400056	01/10/2002
172	103191	मिस चांदीरमानी रेशमा किशीन एसीए स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक, दूसरी मंजिल, 90 ए. जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001	01/10/2002	184	104300	श्री नानावारे संजय चन्द्रकान्त एसीए 2/67 गुजरात रिफायनरी टाउनशिप, जवाहर नगर, वडोदरा-391320	01/10/2002
173	103514	श्री कपूर विशाल विनोद, एसीए सी/ओ जे. पी. मोरगन, टेक्नोपोलिस नोलेज पार्क, चकाला एमआईडीसी, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400093	01/10/2002	185	104302	श्री किंगर दीपक कन्हैयालाल एसीए 18वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नारीमन पोइंट, मुम्बई-400020	01/10/2002
174	103534	श्री ध्रुवप्रकाश शेटी, एफसीए फ्लेट नं. 703 बिल्डिंग नं. 3 डी, वैशाली नगर, कोशवराव खाडे मार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई-400011	01/10/2002	186	104719	श्री प्रतीक दीपकभाई शाह 224 पेराडाइज कॉम्प्लेक्स, सायाजीगंज, वडोदरा-0	01/10/2002
175	103642	श्री दीलीप गोयल, एसीए एशियन मार्केट्स सिक्वोरिटी प्रा. लिमिटेड, 29-ए यशोधाम एन्क्लेव, फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-400063	01/10/2001	187	105017	मिस कामना राम गोपाल सिंह एसीए सी-503, रोक केसल, कान्देरपाड़ा, लिंकिंग रोड, ऑफ आई. सी. कालोनी, दहीसर (पश्चिम), मुम्बई-400068	01/10/2002
176	103675	श्रीमती मनीषा योगेश लक्ष्मी एसीए बी-504 ग्रीनवूड्स, निकट शिम्पोली टेलीफोन एक्सचेंज, शिम्पोली रोड, चीकूवाडी, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092	01/10/2002	188	105416	श्री अग्रवाल मनीष, एसीए बॉक्स नं. 34910, नैरोबी-00100, जी पीओ, केन्या	01/10/2001
177	103708	श्रीमती अश्वनी एस. सावरीकर एसीए केपीएमजी, केपीएमजी हाउस, कमला सिटि लेनापति बापत मार्ग, लवर पारेल, मुम्बई-400013	01/10/2002	189	105554	श्री अमुल सुरेश ललवानी एसीए 108-ए, सत्यपुरम सोसायटी, पूने ससवाड़, रोड, फुरसंगी, पूने-412308	01/10/2002
178	103773	श्री राय ब्रिजेश एच., एसीए ए-18 "नवारा", एल. बी. एस. रोड, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080	01/10/2002	190	105624	श्री रवि शंकर अय्यगरी, एसीए बी-302, जूहू, सेक्टर 2, वसन्त नगरी (पूर्व), वसई-401205	01/10/2002
179	103924	मिस अग्रवाल श्वेता हरिशंकर एसीए डो/62 वृन्दावन, आगरा रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086	01/10/2002	191	105810	श्री कमलेश प्रगजी खण्डोर एसीए 5/बी कमल कुंज, 143 वल्लभ बाग लेन, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077	01/10/2002
180	104057	श्री पोटदार विनय भारत, एसीए सी/ओ कोल. एन. पी. नन्दा, बी/502 अक्षरधाम, लिंक रोड, मलाड़ (पश्चिम), मुम्बई-400064	01/10/2002	192	106381	मिस नीता मोतीराम केवलरमानी 82-बी, सिन्दुवाडी, एम. जी. रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077	01/10/2002
181	104100	श्री भाटिया तरूण लक्ष्मणदास एसीए 145 फार्मलेण्ड, रामदेसपीठ, नागपुर-440010	01/10/2002	193	106710	श्री साबू प्रेमप्रकाश, एसीए 183 वर्षा सोसायटी, अजवा रोड, वडोदरा-390019	01/10/2002
182	104114	श्री अभिष्ट अरोड़ा, एसीए फ्लेट नं. 71, शान्तिनिकेतन, प्रभात कालोनी, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400055	01/10/2002	194	106821	श्री मोहम्मद मुजमिल, एसीए 533-ए मरतुजा कम्पाउण्ड, गौरी पाड़ा, जिला थाने, भिवण्डी-421302	01/10/2002
				195	106894	श्री राजेश पुरुषोत्तम बलसारा एसीए 12/13, फ्रैंक डिमेलो चौल, जे. बी. एम. रोड, निकट डीमेलो प्लेग्राउंड, अम्बोली, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/2002

196	107090	श्री लिओ चार्लेस इग्नेटिअस डिसूजा, एसीए 73/ए बनगंगा रोड, बालकेश्वर, मुम्बई-400006	01/10/2002	209	108249	श्री धर्मेरा सुरेशभाई शाह, एसीए सी/206 भूमि एन्कलेव, महावीर नगर, धानूकर वाडी, कान्दीवली (पश्चिम), मुम्बई-400067	01/10/2002
197	107222	मिस विभा मधुकर पोटदार डी 601 सनफलोवर बिल्डिंग, गुंडेचा वेली ऑफ फलोवर, ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101	01/10/2002	210	108265	श्री बलराज हिमतलाल खक्कर एसीए ए/7 नवनीत भारद्वाज जे. पी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/2002
198	107252	श्री हर्ष रंजीत आचार्य, एसीए 12 भारत महल, लातपत राय रोड, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई-400056	01/10/2002	211	108326	श्री पुरुषोत्तम एन. शर्मा एसीए 404 ग्रीन एवेन्यू 1, रहेजा एस्टेट, कुलुपवाडी, बोरीवली (पूर्व), मुम्बई-400066	01/10/2002
199	107424	मिस सुभाषिनी गणपति, एसीए 14 लोवेल ड्राइव, प्लेंसबोर, एन.जे.-08536, यूएसए	08/12/2000	212	108342	श्री मेहुल गिरीश श्रोफ, एसीए 603 लाइब्रेरी एवेन्यू, जर्सी सिटी, एन. जे. 07307, यूएसए	01/10/2001
200	107463	श्री संदीप कैलाश सितानी एसीए 303 हिंगलाज चेम्बर्स लिमिटेड, विनायक मंदिर रोड, जिला थाने, भयंदर (पश्चिम), भयंदर	01/10/2002	213	108387	श्री किर्तीकुमार सुरेश बान्डेकर एसीए 123/4053 नेहरू नगर, कुरला (पूर्व), मुम्बई-400024	01/10/2002
201	107479	श्री रवि गोविन्द डोले, एसीए एफ-1 नवगीता सोसायटी, सेन्ट एन्थोनी रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071	01/10/2002	214	108426	श्री विवेक जी. शुक्ला, एसीए 121, रामझरोखा, वी. पी. रोड, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	01/10/2002
202	107633	मिस शमा अशोक नायक पनवेलकर, एसीए आशीर्वाद हाउस नं. 549, वोडलम भट, टेलीगांव, टेलीगांव, गोवा-403002	01/10/2002	215	108521	श्री कपिल कमल जैन, एसीए 1002, गणेश दर्शन, श्री सागर होटल के सामने, एल. टी. रोड, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई-400092	01/10/2002
203	108023	श्री संदीप राजेन्द्र शाह, एसीए 7/71 वृन्दावन सोसायटी, शंकर सेठ रोड, पूने-411037	01/10/2002	216	108582	श्री संतोष कन्हैया लाल व्यास एसीए बी-18 फ्रेन्ड्स पार्क, सेनापति बापत रोड, छत्रसिंही, पूने-411016	01/10/2002
204	108052	श्री लाढ़ा सत्यनारायण, एसीए 26 कैलाश धाम सोसायटी, निकट अभिलाषा चार रास्ता, न्यू सामा रोड, वडोदरा-390008	01/10/2002	217	108668	मिस निवेदिता अश्वीन देशपाण्डे एसीए स्मीता अपार्टमेंट्स-8-9, 40/2, भोन्डे कास्तोनी, हरानडावा, पूने-411004	01/10/2002
205	108099	मिस अनिता नारायण पाई, एसीए नं. 2, सत्य भवन 4 पास्ता लेन के सामने, कोलाबा, मुम्बई-400005	01/10/2002	218	108773	श्री एन. वी. अरूणाचलम एसीए सी/101 श्रद्धा अपार्टमेंट्स, गुंजन, जीआईडीसी, वापी-396185	01/10/2002
206	108153	श्री रजनीश सुरेश चन्द्र जयसवाल बी-109 रोलेक्स शोपिंग सेन्टर, प्रशान्त होटल के सामने, स्टेशन रोड, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई-400062	01/10/2002	219	109492	मिस विनीता धनराज फेरवानी एसीए 204-बी, साबरी केसल, चिरई, आर. सी. मार्ग, चेम्बूर, मुम्बई-400071	01/10/2002
207	108189	श्री मनोज कुमार अग्रवाल एसीए कुबेर विला, 2 नवयुग सोसायटी, 5 रोड, जे. वी. पीडी स्कीम, विले पारले (पश्चिम), मुम्बई-400049	01/10/2002	220	109591	श्री अशरफ अब्दुल अजीज कलकत्तावाला, एसीए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मोर्टेगिजस क्रेडिट डिपार्टमेंट, 462 फोनिकस सेन्टर फोनिकस मिलस कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लखर पारेज, मुम्बई-400013	01/10/2002
208	108201	श्री विरल भूपेन्द्र संघानी, एसीए 10/21, चर्मा नगर, ओल्ड नगरदास रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई-400069	01/10/2002				

221	110054	मिस कोयल शांतिरंजन दत्ता एसीए 1160 टावर 2, चेलेन्जर्स, ठाकुर विलेज, कान्दीवली (पूर्व), मुम्बई-400101	01/10/2002	230	110747	श्री संदीप जयंत पोटदार, एसीए 4 पडवाल भवन, रेलवे स्टेशन के सामने, चूनाभट्टी, मुम्बई-400022	01/10/2002
222	110177	श्री साकेत मेहरा, एसीए बी-301 इन्द्रप्रस्थ टावर्स, वसन्त नगरी, वसई (पूर्व), जिला थाने, वसई-0	01/10/2002	231	110846	श्री पियूषा जाजू, एसीए सी/ओ इन्फोसिस टेक्नोलोजीस लिमिटेड, प्लोट नं० 1, पुणे इन्फोटेक पार्क, हिंजावाडी, ताल मुलशी, पुणे-411027	01/10/2002
223	110423	श्री जयमन अनिल मेहता एसीए 39/11 भारती, डोल बोस्को के पीछे, किंग्स सर्कल, मुम्बई-400019	01/10/2002	232	110903	श्री अमितकुमार लल्लूभाई मिस्त्री, एसीए ए 03 सिल्वर्सप्रेक, सुन्दरनगर, अगाशी रोड, जिला थाने विहार (पश्चिम), विहार-401303	01/10/2002
224	110426	मिस कनन अमल झवेरी अरूणोदय, एसीए सरोजनी रोड, विले पारले- (पश्चिम), मुम्बई-400056	01/10/2002	233	110926	श्री बद्रीनारायण एस. एसीए 17/बी चेतन, नवघर रोड, मुलुंद (पूर्व), मुम्बई-400081	01/10/2002
225	110594	मिस दीपा मेरी चेरियन, एसीए 402 ए नेस्टले अपार्टमेंट्स, निकट बोम्बे डाईंग मिल्स कम्पाउंड, वरली, मुम्बई	01/10/2002	234	111858	श्री प्रकाश चन्द्र सिंघानिया एसीए सी/ओ 796 सदाशिव पीठ, धन लक्ष्मी प्लाजा, पुणे-411030	01/10/2002
226	110632	श्री राजेश वसनजी गलिया एन आर दोशी एण्ड कंपनी, पी. ओ. बॉक्स नं. 13742, दुबई-0, यूएई	01/10/2002	235	200403	मिस राजश्री के., एसीए 11/2 शिव निवास, निकट बैंक ऑफ मद्रास, आर. बी. मेहता मार्ग, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077	01/10/2002
227	110648	श्री अमित घनश्याम राठी 124 त्रीनीते मिडोस, 76 बेलान्दर विलेज, बंगलौर-560037	01/10/2002	236	201242	श्री आनन्द के. शाहा, एसीए बी-7 फ्लेट नं. 5, ग्राउंड फ्लोर, चीना नगर नं. 2, चीना नगर, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंद (पश्चिम), मुम्बई-400080	01/10/2002
228	110691	श्री राहुल प्रदीप प्रतिनिधी एसीए ओम अविष्कार, विंग सी. फ्लेट नं. 714 चेम्बर्स नं. 1127, स्नेह पेराडाईस कोम्प्लेक्स, निकट मिट कोलेज कोठरूड, पुणे-410038	01/10/2002	237	203918	श्री पे. के. सदागोपन, एसीए मैनेजर एमआईसी, गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड, सीएसटी रोड, निकट विद्यानगरी, कलीना सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400098	01/10/1999
229	110712	श्री जतिन्दर कुमार जगदीशराय अग्रवाल, एसीए 405 स्टारलिंग चेम्बर्स, पूना स्ट्रीट, मुम्बई-400009	01/10/2002	238	206978	श्री रोशन नमेन मेथ्यू, एसीए ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, श्रीजी चेम्बर्स, मुम्बई-400004	01/10/2001
				239	207914	श्री स्वैन श्रीधर, एसीए विला होटल, 03-04 स्टो ट्रेड सेन्टर, ओर्बिंड मागू मेल, रिपब्लिक ऑफ मालदिव्स -0, इंडिया	01/10/1999

२१/१०/०३

डा० अशोक हल्लिया
(सचिव)

चेन्नई-600 034, दिनांक 24 जुलाई 2003

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3 एससीए (5)/3/2002-2003 इस संस्थान की अधिसूचना नं. 4 एससीए (1)/4/1982-83 दिनांक 31 मार्च 1983, 3 एससीए (4)/12/1989-90 दिनांक 25 अक्टूबर 1989, 3 एससीए (4)/8/1990-91 दिनांक 1 दिसम्बर 1990, 3 एससीए (4)/3/1993-94 दिनांक 11 जनवरी 1994, 3 एससीए (4)/4/1994-95 दिनांक 22 फरवरी 1995, 3 एससीए (4)/3/1996-97 दिनांक 11 दिसम्बर 1996, 3 एससीए (4)/3/1997-98 दिनांक 31 मार्च 1998, 3 एससीए (4)/4/1998-99 दिनांक 7 मई 1999, 3 एससीए (4)/6/1998-99 दिनांक 8 जून 1999, 3 एससीए (4)/4/1999-2000 दिनांक 17 अप्रैल 2000, 3 एससीए (4)/5/2000-2001 दिनांक 12 दिसम्बर 2001, 3 डब्ल्यूसीए/4/4/2001-2002 दिनांक 15 जनवरी 2001 और 3 एससीए (4)/5/2001-2002 दिनांक 21 मई 2002, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	007696	श्री बालासुब्रमन्यम जी., एसीए 5, (ओल्ड नं. 3/1), सेकण्ड सीवर्ड रोड, वाल्मिकी नगर, तिरुवनमियूर, चेन्नई-600041	01/10/2001
2.	009576	श्री सुब्रमन्यम एन., एसीए 5-12-3, अरीहन्त मजेस्टिक टावर्स, 216 जवाहरलाल नेहरू सलाई, कोयम्बेदू, चेन्नई-600107	01/10/2001
3.	009695	श्री वेन्कटसुब्रमन्यम पी. वी. एफसीए एसएफ-2, वसन्त अपार्टमेंट्स, 19 (ओल्ड नं. 11), सेकण्ड क्रिसेन्ट पार्क रोड, 4 मेन गांधी नगर, अदयार, चेन्नई-600020	01/10/1998
4.	011331	श्री श्रीनिवासन आर., एफसीए न्यू नं. 2/172 (ओल्ड नं. 2/488), राजा गार्डन, कोटिवक्कम, चेन्नई-600041	01/10/1990
5.	012462	श्री रामनाथन रामनाथन एफसीए 3/110-ए, न्यू फेयरलेण्ड्स एक्सटेंशन, एम. जी. रोड, सालेम-636016	01/10/2001
6.	012950	श्री गोपालन ए. आर., एफसीए 887, 31 स्ट्रीट, 17 मेन रोड, 1 ब्लॉक, अन्ना नगर, चेन्नई-600040	01/10/2001

7.	013214	श्री कुरेन पी. के. चेम्पीकुरन एफसीए पट्टोम, तिरुवनन्तपुरम-695004	08/12/2000
8.	014354	श्री मल्होत्रा नरेश कुमार, एसीए 31, 2 मेन डिफेंस कालोनी, इंदिरा नगर, बंगलौर-560038	01/10/2001
9.	015758	श्री शहाबुद्दीन एम, एफसीए एच-71/एफ2 मुल्लई अपार्टमेंट्स, तिरुवल्लुवर नगर, तिरुवनमियूर एक्सटेंशन, चेन्नई-560038	01/10/2001
10.	016280	श्री जोर्ज जोन माटापल्लील एफसीए 49/1878-बी, एडापल्ली राघवन पिल्लई रोड, एडापल्ली पी. ओ., कोची-682024	01/10/2001
11.	018085	श्री सुब्रमन्यम के. के., एसीए नं. 2, 7 क्रोस स्ट्रीट, शास्त्री नगर, अदयार, चेन्नई-600020	01/10/2001
12.	018431	श्री अइपे पी. सी., एफसीए फाइनेंसियल कन्ट्रोलर, अल फुतुह इन्वेस्टमेंट कंपनी, पी. ओ. बॉक्स 3389, सफत-13034, कुवैत	08/12/2000
13.	018759	श्री मुकुन्दन ए. एफसीए नं. 10, दूसरी मंजिल, कनकपुरा रोड, जयनगर (पूर्व), 7 ब्लॉक, बंगलौर-560082	01/10/2001
14.	018981	श्री शेखर वी, एसीए 18, पोर्टनफ कोर्ट, टोरंटो, ऑटोरिया, एम5ए 4ई4, कनाडा	01/10/2001
15.	019562	श्री शंकर एस., एसीए नं. 380 16 ए मेन 4 ब्लॉक टी., जयनगर, बंगलौर-560041	01/08/1982
16.	019710	श्री शंकर वेनू गोपाल राव, एसीए डी. नं. 2/2/647/182/ए3, फ्लैट नं. 205, हिम शिवा अपार्टमेंट्स, शिवम रोड, बाग अम्बरपीट, हैदराबाद-500013	01/08/1982
17.	020074	श्री नारायण आर., एसीए 3/7, अयोध्या कालोनी, वेलाचेरी, चेन्नई-600042	01/10/2001
18.	020100	श्री कुमुद नाथ पी. ए. वी. एन. एसीए कोस्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउण्टेंट, बोर्दसवाना पोस्टल सर्विसेज, पी. ओ. बॉक्स 402 225, प्लोट 6854/20, गेबोरोन, बोर्दसवाना, साउथ अफ्रीका	01/10/1998

19. 020146 श्री आरचिबल्ड माक्सिम जोसफ 08/12/2000
डिसूजा, एसीए
सी-3 पारवती अनन्त अपार्टमेन्ट्स, ओल्ड केंट
रोड, मंगलौर-575001
20. 020419 श्री मेथ्यू टी. जे., एसीए 05/12/1994
थुम्पसेरी हाउस, 43/2176 ए. एस. आर. एम. रोड,
कोची-682018
21. 021111 श्री रघुरामन एस., एफसीए 08/12/2000
1520 ग्लेस्टनबरी ड्राइव, प्लेनो टी. एक्स-75075,
यूएसए
22. 021137 श्री बोयी रेड्डी जे., एफसीए 01/10/2001
8-3-899/33, एसबीएच. कालोनी, श्रीनगर
कालोनी पोस्ट, हैदराबाद-500073
23. 021505 श्री रामचन्द्रन सी. एन., एफसीए 01/10/2001
सी/ओ केपीएमजी. एएकेएचआरओ., पब्लिक
एकाउण्टेंट, पी. ओ. बॉक्स 710, मनमा, बाहरेन
24. 021549 श्री पद्मनाभन आर., एसीए 01/10/2001
304/33 महादा, जोगेश्वरी (पश्चिम),
मुम्बई-400102
25. 021725 श्री नारायण के., एसीए 08/12/2000
डायरेक्टर, चांती फाइनैस लिमिटेड, 15 वाईटहॉल,
लंदन एसडब्ल्यू 1 ए जेडडीडी, यूके
26. 021814 श्री स्वामीनाथन एस., एफसीए 01/10/2001
अपार्टमेन्ट नं. 4, श्रेयास योगम, नं. 4 (ओल्ड नं.
34), श्रीराम नगर नोर्थ स्ट्रीट, अलवरपेट,
चेन्नई-600018
27. 021912 श्री कोटेश्वर राव एन, एसीए 01/10/1989
एच. नं. 3-6-40/4 (प्लोट नं. 200), विवेकानन्द
नगर कालोनी, कुकटपल्ली पोस्ट,
हैदराबाद-500072
28. 022662 श्री रंगनाथन पी. के., एसीए 01/10/2001
1001-बी (सेकण्ड फ्लोर), 17 डी क्रोस 2 स्टेज,
इंदिरानगर, बेंगलूर-560038
29. 022850 श्री प्रसाद पी. वी. एल. एन. 01/10/1999
एफसीए
फ्लेट 403, अल-कौसर अपार्टमेन्ट्स, स्ट्रीट-1, वेस्ट
मारेडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026
30. 023235 श्री कोटेश्वर राव के., एसीए 08/12/2000
फ्लेट नं. 4, आदित्य अपार्टमेन्ट्स, 23, गोपाला
मेनन स्ट्रीट, कोडमबक्कम, चेन्नई-600024
31. 023258 श्री राज कुमार के., एसीए 01/10/2001
श्रीनगरा अपार्टमेन्ट्स, नं. 2-बी, 1 मेन रोड,
इंदिरानगर, अदवर, चेन्नई-600020
32. 023284 श्री वरधन वी., एसीए 08/12/1997
डायरेक्टर ऑफ एकाउंटिंग, मेरीस्टार होस्टल एण्ड
रेस्टोरेंट्स आईएनसी, 5605 मेक अरधुर
बीएलबीडी, सूट-1200 इथिंग, श्री एक्स-75038,
यूएसए
33. 023953 श्री सम्पत आर., एसीए 08/12/2000
12/1, कमतचिपुरम 1 स्ट्रीट, वेस्ट मम्बलम,
चेन्नई-600033
34. 023959 श्री किशन प्रसाद पी., एफसीए 01/10/2001
नं. 87, रोड, नं. 72, प्रशासन नगर, जुबली हिल्स,
हैदराबाद
35. 024243 श्री मुरली आर., एसीए 01/10/2001
38, (ओल्ड नं. 8), दुरेस्वामी रेड्डी स्ट्रीट, टम्बाराम
(पश्चिम), चेन्नई-600045
36. 024298 श्री साईराम एन., एसीए 01/10/2001
फ्लेट 2ए क्रिसेन्ट पार्क अपार्टमेन्ट्स, दूसरी मंजिल,
नं. 11 क्रिसेन्ट पार्क स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017
37. 024614 श्री गुनशेखरन आर., एफसीए 01/10/1990
पी. आर. एस. टावर्स, पहली मंजिल 18ए कुमारन
रोड, (सेन्टविन शो रूम के ऊपर),
तिरुपुर-641601
38. 024815 श्री नेनन मेथ्यू के., एसीए 01/10/1996
19 ए/1 एल्फर्ड प्लेस, कोलम्बो-3, श्रीलंका
39. 025030 श्री प्रताप सिंह टी., एसीए 08/12/2000
फ्लेट नं. 101 मनीसदन अपार्टमेन्ट्स, विद्या नगर,
हैदराबाद
40. 025364 श्री विजय भास्कर राव पी. 01/10/1993
एसीए
202 माठा टावर्स, श्रीराम नगर रोड, राजीव नगर,
यूसूफगुडा, हैदराबाद-500045
41. 025627 श्री शानमुगा गणेशन आर. 01/10/2001
एसीए
फाइनैशियल कन्ट्रोलर, अपोलो स्टूडियो एण्ड स्टोर्स
एलएलसी, पी. ओ. बॉक्स 2958, दुबई, यूएई
42. 025982 श्री सारथी टी. आर., एफसीए 01/10/2001
फ्लेट नं. 2 न्यू नं. 8, मेडले रोड, 2 स्ट्रीट, टी.
नगर, चेन्नई-600017
43. 026180 श्री सासी के. एस., एसीए 01/10/2001
फाइनैस मैनेजर, गल्फ एलियड इन्डस्ट्रियल सर्विसेस
कं. लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स 1135, अल
जुबेल-31951
44. 026248 श्री अनिल कुमार मुध्या, एसीए 01/10/1998
2/एफ, फ्रन्ट पोर्शन, 38-40 हिलवूड रोड,
तिसिमशातसुई, होंगकॉंग
45. 026757 श्री सुंदरम एस. एम., एसीए 01/10/2001
6-जी. सौभाग्य अपार्टमेन्ट्स, माधुर रोड,
कोझीकोड-673001
46. 027856 श्री प्रभाकर कामत पी., एसीए 01/10/1993
कामत ऑडिटिंग, बॉक्स-23703, शारजहा, यूएई
47. 028041 श्री मुत्पाला रामबाबू, एसीए 01/10/1996
क्वार्टर नं. 210-बी, सेक्टर-1, डक्कानगरम,
विशाखापटनम-530032

48. 028069 श्री थोमस जोर्ज पी., एसीए 01/10/2001
फाइनैस एनेलिस्ट, वेबको स्टैंडर्ड ट्रेन बी. ची.,
पी. ओ. बॉक्स-31000, दुबई, यूएई
49. 028156 श्री नरसिम्हा रेड्डी सी., एफसीए 01/10/2001
नं. 6, बंगलोर डेयरी क्वार्टर्स, डॉ. एम. एच.
मेरोगोडा रोड, बंगलौर-560029
50. 028171 श्री रामानजनेयुलु पी., एफसीए 08/12/1997
पोस्ट बॉक्स नं. 365, सलालाह- कोड 211, सल्तनत
ऑफ ओमान
51. 028276 मिस बीना एम. आर., एसीए 08/12/2000
002, मुसुरी अपार्टमेंट्स, 8 सर्विस रोड, डोमलुर
लेआउट, बंगलौर-560071
52. 028715 मिस उषा के. आर., एसीए 01/10/2001
चार्टर्ड एकाउंटेंट, सी-767, ईसीएस लेआउट,
कुंदलाहली, बंगलौर-560037
53. 028766 श्री कालाईसेलवन पी., एसीए 01/10/2001
डी-14/2, तिरुवल्लूर रोड, शानमुगापुरम,
पलनी-624601
54. 028826 श्री नारायणन आर., एफसीए 01/10/2001
सी/ओ श्री टी. आर. सुब्रमन्यन, 82, रोयर थोपू,
श्रीरामपुरम, श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली-620006
55. 028869 श्री स्वामीमलाई श्रीनिवासन श्रीधर 08/12/2000
एसीए
46/4, 3 स्ट्रीट, अभिरामपुरम, चेन्नई-600018
56. 028923 श्री मोहन आर., एसीए 08/12/2000
पी. ओ. बॉक्स 8124, एसीसीआरए - नोर्थ, घाना
57. 028962 श्री सिता रामाजनेया वारा 01/10/2001
प्रसाद ए., एसीए
भूतल, श्रीनिवास सदन, पद्मावति प्लाजा के पीछे,
भाग्यनगर कालोनी, के. पी. एच. बी. के सामने,
कुकटपल्ली, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट,
हैदराबाद-500072
58. 029029 श्री गोपीराज के. वी., एफसीए 01/10/2001
फाइनैस कन्ट्रोलर, जोन्सन एण्ड जोन्सन मिडल
ईस्ट, पी. ओ. बॉक्स नं. 9294, दुबई, यूएई
59. 029155 श्री कन्नन एस. आर., एसीए 08/12/2000
फाइनैशियल कन्ट्रोलर, अली बिन इब्राहिम अब्दुल
आल, पी.ओ. बॉक्स 507, मनामा, स्टेट ऑफ
वाहरेन
60. 029283 श्री बालारमन के., एसीए 08/12/2000
एमिरोल्ड पार्क, 49/1, साधुल्ला स्ट्रीट, टी. नगर,
चेन्नई-600017
61. 029701 मिस गीता संकर, एसीए 08/12/2000
सी/ओ एस. शंकर राजन, एमिरेट्स कोन्स्ट्रक्शंस
कंपनी, पी. ओ. बॉक्स नं. 4583, दुबई, यूएई
62. 029754 श्री मिल्टन जी., एफसीए 08/12/2000
सिनियर फाइनैस मैनेजर, अल्हमरानी ग्रुप ऑफ
कम्पेनिस, पी. ओ. बॉक्स 1229, डेहली 2-4351,
के. एस. ए.
63. 029813 श्री कल्याण गुप्ता, एफसीए 01/10/2001
प्लोट नं. 59, बंगला प्रोग्र, रोड, नं. 12, बंगारा
हिल्स, हैदराबाद-500074
64. 029951 श्री रघु आर., एसीए 01/10/2001
10501 सिल्क ओक ड्राइव, विएना, बी. ए. 22182,
यूएसए
65. 030656 श्री जेकब जोर्ज, एसीए 08/12/2000
कन्सलटेंट सिस्टम, एसएसआई कनाडा, 43 पाइन्वे
बिल्डिंग, नोर्थ योर्क, ऑटोरियो एम2एच 1ए5,
कनाडा
66. 039996 श्री कृष्ण रामचन्द्रन, एसीए 01/10/2001
316 कैलिफोर्निया एवेन्यू, 523 रेनो, एन. वी. 89509,
यूएसए
67. 040726 श्री मिनेश दिनेश चन्द्र देसाई 01/10/2001
एसीए
222/3ए, मंजुनाथ लेआउट, मूरुगेशपल्या,
बंगलौर-560017
68. 042871 श्री अनिल डी. एन., एसीए 01/10/2001
ग्रान्ट थोर्नटन एक्व्यूमेन पी. ओ. बॉक्स 1157,
गेबेरोन, बोत्सवाना
69. 048755 मिस परेरा शरेल, एसीए 01/10/2001
पेरेरा बिल्डिंग, 95/1 सरोजनी देवी रोड,
सिकन्दराबाद-500003
70. 051191 श्री शंकरन रंगनाथन, एफसीए 01/10/1998
14/500, 18 स्ट्रीट, 4 सेक्टर के.के. नगर,
चेन्नई-600078
71. 053808 श्री अरिन्दम मित्रा, एसीए 01/10/2001
गार्डन टेरेस, कोमाजावा -7, 2-18-26 कोमाजावा,
सेटागाआ-केयू, टोक्यो-154-0012, जापान
72. 054605 श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी, एसीए 01/10/2001
सी/ओ आई टी सी लिमिटेड, कमर्शियल
डिपार्टमेंट, पी. ओ. पुलीकेशी नगर,
बंगलौर-560005
73. 054895 श्री दुर्गावेण्णुला सिवाजी, एसीए 08/12/2000
कोरपोरेट ऑडिटर, एम/एस मोहम्मद इन्टरप्राइजेज
(टी) लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स-20660,
डार-इस-सलाम, तन्जानिया, ईस्ट अफ्रीका
74. 059518 मिस चित्रा अर्पाणा वाई., एसीए 01/10/2001
3000 त्रिनिती ड्राइव, अपार्टमेंट नं. 83, लोस
एलामोस एनएम-87544, यूएसए
75. 060489 श्री कुन्दा अतुल, एसीए 01/10/2001
के. पी. एम. जी., पी. ओ. बॉक्स 4473, दोहा,
कतार


76. 200027 श्री प्रसाद राव एन., एफसीए 01/10/2001
चाटर्ड एकाउंटेंट, 8-3-1013, प्लोट नं. 29, फ्लेट
नं. 301, जीनत रेसीडेंसी, मेन रोड, श्रीनगर कालोनी,
हैदराबाद-500072
77. 200288 मिस राधा रानी जी., एसीए 01/10/1998
फ्लेट नं. 2 दूसरी मंजिल, बी ब्लॉक, प्रभला
एन्कलेव, महारानी पीठ, विशाखापटनम-530002
78. 200299 श्री रंजीत कंमार आर., एसीए 01/10/2001
मूर्स रोलेंड (पीओवाई) लिमिटेड, एकाउंटेंट्स एण्ड
कंपनी सेक्रेटरी, एसीएमई हाउस, 173 खामा 1 ए
एवेन्यू, प्राइवेट बाग 23, लोबट्से, बोड्सवाना
79. 200340 श्री रमन पी. के., एसीए 08/12/2000
हेड क्रेडिट एण्ड केश, मेनेजमेंट ओपरेशन, गल्फ
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पी. ओ. बॉक्स 999, दुबई,
यूएई
80. 200383 श्री कैसर बी. एन., एसीए 01/10/2001
565, अन्ना सलाई, टायनापीट, चेन्नई-600018.
81. 200392 श्री सुब्रमन्यम के., एसीए 08/12/2000
213 वर्स फेन्सेडी, पहली मेन कोडीहल्ली, ऑफ
80 फीट रोड, इन्दिरा नगर, बंगलौर-560008
82. 200452 श्री शंकर सुब्रमन्यम आर., एसीए 01/10/2001
इन्वेस्टमेंट एनेलिस्ट, घोबाश इन्वेस्टमेंट कंपनी
लिमिटेड, पी. ओ. बॉक्स 2929, दुबई, यूएई
83. 200532 श्री कासीरमन एस., एफसीए 08/12/2000
फ्लेट नं. 32 (न्यू नं. 78), महादेवन स्ट्रीट, वेस्ट
ममबालम, चेन्नई-600033
84. 200618 श्री विश्वनाथ के., एसीए 01/10/2001
सी/ओ स्टार प्लस लिमिटेड, आरएम. 503-505,
तुंग वाह मेन्शन, 199-203, हेनेली रोड, वनचई,
होंग कोंग
85. 200740 मिस गावत्री आर., एसीए 01/10/1998
फ्लेट नं. 3 बी एलसीएस श्रीनिवास, 51 ए वेलाचेरी
हाई रोड, वेलाचेरी, चेन्नई-600042
86. 200486 श्री करनम पट्टाभी सीता राम राव 01/10/2001
एसीए
4-160 पन्दारीपुरम, गुन्दुर जिला,
चिलकालूरिपेठ-522616
87. 200806 श्री रमेश चन्द्रन, एसीए 01/10/2001
111 जालान तेरासेक 2, बंगसर बारू,
कुआलालम्पुर-59100, मलेशिया
88. 200828 श्री कृथीवसन आर., एसीए 01/10/2001
29 नायकमर स्ट्रीट, फ़्जेट 1-एफ, रेनबो, प्रवीन
अपार्टमेंट्स वेस्ट मम्बालम, चेन्नई-600033
89. 200977 श्री सारथी एस., एसीए 01/10/2001
सीनियर मैनेजर फाइ. एण्ड कंपनी सोसायटी,
एम/एस गेबरियल इण्डिया लिमिटेड, नं. 1 श्री
अरविन्दो मार्ग, न्यू दिल्ली-110016
90. 201127 मिस भारती एम. बी., एसीए 01/10/2001
1-7-29/2/1/डी, साई मधुकुंज अपार्टमेंट्स,
जमीस्तनपुर, हैदराबाद-500048
91. 201360 श्री नरेश कुमार अप्पना, एसीए 08/12/2000
डिप्टी मैनेजर फाइनेंस, फियूल्स रिफायनरी,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई
रिफाइनरी, बी. पी. पाटिप्ल रोड, मुम्बई-400074
92. 201507 श्री रमेश बी. एस., एसीए 01/10/2001
जैन आशियाना, फेस 1, फ्लेट नं. एफ-12, नं.
13, वेम्बूलियमन कोइल स्ट्रीट विरूगम्बक्कम, वेस्ट
के. के. नगर पोस्ट ऑफिस, चेन्नई-600078
93. 201690 श्री बिनोद हरिहरन शंकर, एसीए 01/10/2001
एन्डरसन एण्ड कंपनी, पी. ओ. बॉक्स 11615,
दुबई, यूएई
94. 201904 श्री चेरियन पी. सी., एसीए 01/10/2001
मिचीगन ट्रेजरी, 360 डब्ल्यू बटरफील्ड रोड 270,
एल्मसर्ट, आई एल.-60126, यूएसए
95. 202083 श्री नटराजन रामनाथन, एसीए 01/10/2001
9-ए, तीसरी स्ट्रीट, तिरुवल्लूर नगर,
रामानाथपुरम, कोयम्बटूर-641045
96. 202270 श्री सबेसन एस., एसीए 08/12/1997
637 3 क्रोस, निकट स्वीमिंग पूल, महालक्ष्मी
लेआउट, बंगलौर-560086
97. 202296 श्री विजयरमन के. आर., एसीए 08/12/2000
नं. 13-ए एमआईजी फ्लेट्स, पी. टी. राजन रोड,
के. के. नगर. चेन्नई-600078
98. 202548 श्री नारायण बी. एल, एसीए 01/10/2001
4730, एनडब्ल्यू 102 एवेन्यू, यूनिट 108, मियामी,
एफ एल 33178, यूएसए
99. 202606 श्री थियागा थूरायवन एस., एसीए 01/10/2001
प्लोट नं. 104, अल्सा टाउन विला, आरकोट रोड,
वलसारावक्कम, चेन्नई-600087
100. 202622 मिस गीता जेकब, एसीए 08/12/2000
43 पाइनवे बीएलवीडी, नोर्थ योर्क, ओन्टेरियो
एम2एच 1ए5, कनाडा
101. 202649 श्री नागराजन एम. एन. एस. 01/10/1999
एसीए
157/6, पहला मेन रोड, शमन्ना गौडा लेआउट,
सरस्वतीपुरम, उल्सूर, बंगलौर-560008
102. 202662 श्री राम प्रसाद एम., एसीए 01/10/2001
अर्नस्ट एण्ड यंग, पी. ओ. बॉक्स 140, मनामा,
स्टेट ऑफ बाहरेन
103. 202687 श्री मनी कन्टेशसरन के., एसीए 01/10/2001
सिनीयन मैनेजर, एकाउन्ट्स, एपटेक लिमिटेड,
रिजनल ऑफिस, एप्पल हाउस, नं. 64, कैथेडरल
रोड, चेन्नई-600083

104. 202738 मिस लता एस., एसीए 01/10/2001
19/2 48 स्ट्रीट, 9 एवेन्यू, अशोक नगर,
चेन्नई-600083
105. 202807 श्री पुट्टीगे वधीराजा, एसीए 01/10/2001
फ्लैट नं 205, बिल्डिंग नं. 4, शान्तिपार्क
अपार्टमेंट्स जयनगर, 9 ब्लॉक, बंगलौर-560069
106. 202845 श्री राम कुमार बिलुकुरी, एसीए 01/10/2001
403 जागति टावर्स, स्ट्रीट 5, लेन 2, श्यामलाल
बिल्डिंग, बेगमपीठ, हैदराबाद-500016
107. 202890 श्री विनोद रमन, एसीए 01/10/2001
असिस्टेंट मैनेजर, मूर स्टीफन्स, पी. ओ. बॉक्स
933, पोस्टल कोड 112, रूबी, सल्तनत
ऑफ ओमान
108. 203183 श्री राजेन्द्रीन बी., एसीए 01/10/2001
ग्रुप-चीफ एकाउन्टेन्ट, फेलकोन ग्रुप, पी. ओ. बॉक्स
43832, आबू धाबी, यूएई
109. 203258 श्री वेंकटा रेड्डी सीएच, एसीए 08/12/2000
सी/ओ गुरुवा रेड्डी ई, 60 फीट रोड, बैंक
कालोनी, प्रकाश नगर, गुंदूर जिला,
नरासराओपीठ-522601
110. 203301 मिस शारदा नागराजन, एसीए 08/12/2000
कन्सल्टेंट, ओरेकल फाइनेंशियल कन्सल्टेंट्स,
हायपरलिनक आईटी, पी. ओ. बॉक्स 43178, आबू
धाबी, यूएई
111. 203378 श्री आनन्द राव टी. बी., एसीए 08/12/2000
एम/एस रेजायत फ्लोवर कंपनी लिमिटेड, पी. ओ.
बॉक्स 90, अलखोबर 31952, के. एस. ए
112. 203581 श्री हिरेमठ शेखरय्या, एसीए 08/12/2000
नं. 494, 7 मेन, 4 'ए' क्रोस, आर. पी. सी.
लेआउट, बंगलौर-560040
113. 203634 श्री अशोक कुमार आर., एसीए 01/10/2001
ए 90/51 आर. आर. फ्लैट्स, फ्लैट नं. 18, 12
एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083
114. 203784 श्री सुमन्त सी., एसीए 08/12/2000
हेड फाइनेंस एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्राज्ञान लिमिटेड,
26/3, 26/4 एण्ड 26/6 इलेक्ट्रॉनिक्स सीटी, होसूर
रोड, बंगलौर-561229
115. 203997 श्री चोकलिंगम पी. एल., एसीए 01/10/2001
मैनेजर (फाइनेंस), सी/ओ इंडिया फोइल्स
लिमिटेड, 1 सेगोर दत्ता घाट रोड, कमरहटी,
कोलकाता-700058
116. 204233 श्री मेथ्यू चेरियन, एसीए 01/10/2001
4-ए अश्विनी अपार्टमेंट्स, एस. जी. पाल्या, सी.
बी. रमन नगर, बंगलौर-560093
117. 204286 श्री कुमार एस., एसीए 01/10/1998
सीनियर एग्जीक्यूटिव, टोयोटा पार्ट्स प्राइसिंग
डिपार्टमेंट, भवन ऑटोमोटिव सेन्टर, पी. ओ. बॉक्स
3168 पी. सी. 112, रूबी, सल्तनत ऑफ ओमान
118. 204481 श्री राजा आर., एसीए 01/10/2001
400 थोम्पसन एवेन्यू, अपार्टमेंट नं. 105, ग्लेन्डले,
सीए-91201, यूएसए
119. 204505 श्री रविकुमार आर., एसीए 01/10/2001
1, कृष्णनगराह, 44-ए, 3 मेन रोड, गांधी नगर,
अदयर, चेन्नई-600020
120. 204506 मिस संगीता रविकुमार, एसीए 01/10/2001
1, कृष्णनगराह, 44-ए, 3 मेन रोड, गांधी नगर,
अदयर, चेन्नई-600020
121. 204594 श्री वेंकटेश वैद्यनाथन, एसीए 01/10/2001
1800 वसन्त कालोनी, सेकण्ड स्ट्रीट, 18 मेन रोड,
अन्ना नगर (पश्चिम), चेन्नई-600040
122. 204611 श्री श्रीराम एस., एसीए 01/10/2001
अर्नस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लिमिटेड, 205, अशोका
भूपल चेम्बर्स, एस. पी. रोड,
सिकन्दराबाद-500003
123. 204626 श्री गणेश आर., एसीए 01/10/1999
एकाउन्टेन्ट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ई-
विसन, पी. ओ. बॉक्स नं. 33999, दुबई, यूएई
124. 204633 श्री पशुपति के., एसीए 01/10/2001
एकाउन्टेन्ट, जिओस लेंगवेज सेन्टर, नं. 21 फेडरल
एसटी., ऑकलैंड, न्यूजीलैंड
125. 204652 श्री सारंगन बी., एसीए 08/12/2000
बी4, मनसा फ्लैट्स, 15 पटेल स्ट्रीट, नेहरू नगर,
क्रोम्पेट, चेन्नई-600044
126. 204879 श्री सुन्दरवादीवेलन एस., एसीए 01/10/2001
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 34, देवलोड
फ्लोर्स, गैन्डे इन्डस्ट्रियल पार्क, गैन्डे,
चेन्नई-600032
127. 205052 मिस शान्ति बी., एसीए 01/10/2001
टी2 नवीन्स स्वरलया अपार्टमेंट्स, नं. 32 वीरअसमी
स्ट्रीट, वेस्ट मम्बालम, चेन्नई-600033
128. 205071 श्री स्वामीनाथन एन., एसीए 01/10/2001
सी3-906, एल एण्ड टी साउथ सीटी, एरेकरे मिक्को
लेआउट, बंगलौर-560076
129. 205306 श्री गोपाल राजू बी. आर., एसीए 08/12/1997
सीनियर फाइनेंशियल एनेलिस्ट, फेडरल एक्सप्रेस
कोरपोरेशन, पी. ओ. बॉक्स 9239, दुबई, यूएई
130. 205333 मिस रजनी के., एसीए 08/12/2000
चीफ इन्टरनल ऑडिटर, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज
लिमिटेड, 7-1-27 अमीरपीठ, हैदराबाद-500016

131.	205476	श्री कार्तिकेयन टी., एसीए 08/12/2000 एकाउन्टेंट, अर्नस्ट एण्ड यंग, पी. ओ. बॉक्स 1750, रूबी, पोस्टल कोड 112, सल्तनत ऑफ ओमान	145.	208280	श्री आदित्य रटराज एसीए 08/12/2000 दूसरी मंजिल, अशोक पृथ्वी, 87, अभिरामपुरम 4, स्ट्रीट, चेन्नई-600018
132.	205843	श्री प्रदीप भंसाली, एसीए 01/10/2001 ए-37 सिविल लाईन्स, राज भवन रोड, जयपुर-302006	146.	208345	श्री विजय जी., एसीए 01/10/2001 क्रेडिट एण्ड फाइनेंस एनेलिस्ट, मोटोरोला इंडिया प्रा. लि., मोटोरोला एक्सीलेंस सेंटर, 415/2 मेहरानली, सेक्टर 14, गुडगांव रोड, गुडगांव
133.	206273	श्री श्रीनिवासन एन. एस., एसीए 01/10/2001 ए/11 एमआईएन अपार्टमेंट्स, 18 न्यू बाग रोड, टी नगर, चेन्नई-600017	147.	208503	श्री मीनाक्षीसुन्दरम वी., एसीए 01/10/2001 'जेया कृष्णा', 12/11 योगमबल स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-600017
134.	206587	श्री रामना रेड्डी वार्ड., एसीए 01/10/2001 रूम नं. 101 मूनिस्सिपल कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर चौरस्ता के सामने, निजामबाद डीटी, बोधन-503185	148.	208814	ललिता पोटलूरी, एसीए 01/10/2001 अर्नस्ट एण्ड यंग, पी. ओ. बॉक्स 1750, पोस्टल कोड 112, रूबी, सल्तनत ऑफ ओमान
135.	206780	श्री बद्री नारायण सुबोधी, एसीए 08/12/2000 एन2/94 नयापाली, भुवनेश्वर-751015	149.	208989	श्री रूशेन्द्र बाबू पी., एसीए 01/10/2001 इन्टरनल ऑडिटर, डिसर्ट साइन प्रोजेक्ट एलएलसी, पी. ओ. बॉक्स 1880, पोस्टल कोड 112, रूबी, सल्तनत ऑफ ओमान
136.	207016	श्री श्रीपति डी., एसीए 01/10/1999 जनरल मैनेजर, आईसीडीएस सेक्रेटरी लिमिटेड, नं. 115, मनीषल सेंटर, डिकेन्सन रोड, बंगलौर-560042	150.	209037	श्री पैडीसेटी शानमुखा राव 01/10/2001 एसीए सी/ओ एचपी-ग्लोबल ई बिजनेस, ओपरेशन प्रा. लि., वाईड टनेल रोड, मूरुगेशपलया, बंगलौर-560017
137.	207273	श्री विजय भगवान गुप्ता, एसीए 08/12/2000 सी/ओ वी. वी. गांधी, प्लोट नं. 20, एलआईसी कालोनी, तारबुंद, सिख विलेज, सिकन्दराबाद-500009	151.	209378	श्री थिम्मा रेड्डी तुरपेसीमा 01/10/2001 एसीए फाइनेंशियल कन्ट्रोलर, एम/एस शुमुक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, पी.ओ. बॉक्स 6552, कमपला, यूगाण्डा, ईस्ट अफ्रीका
138.	207460	मिस प्रीति गोपालकृष्णन, एसीए 01/10/2001 1-3-176/4/जी/4, पदमाशालीनगर, गांधीनगर, हैदराबाद-500080	152.	209411	श्री प्रसन्ना श्रीनिवासन आर. 01/10/2001 एसीए 26/8डी अरूनडले बीच रोड, कलकक्षेत्र कालोनी, बीसेन्ट नगर, चेन्नई-600090
139.	207462	श्री रामकृष्णन एन., एसीए 01/10/2001 एच/10 कालिन्दी अपार्टमेंट्स, पशाभाई पार्क, रेस कोर्स, बडोदा-390007	153.	209610	मिस आरती एन., एसीए 08/12/2000 ए-6, पावर अपार्टमेंट्स, 47, के. एच. रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017
140.	207606	श्री रामकुमार के., एसीए 01/10/2001 ए 702 गुलमोहर अपार्टमेंट्स, सिसर रोड, अम्बोली, अन्धेरी (पश्चिम), मुम्बई-400058	154.	209773	मिस एलफोनसा थोमस, एसीए 01/10/2001 चेथीमेटम हाउस, कोटयम जिला, थोटकाड, पी. ओ.-686539
141.	207652	श्री मारुती रघुराम जोनालगाडा 01/10/2001 एसीए 6-2-45/11 सेकण्ड फ्लोर, एडवोकेट्स कालोनी ए. सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004	155.	209801	श्री आनन्द एस., एसीए 01/10/2001 मैनेजर जीई केपीटल इन्डस्ट्रियल सर्विसेज, दूसरी मंजिल, साइबर टावर्स, हितेच सीटी, माधुपुर, हैदराबाद-500073
142.	207981	श्री शंकर सतीश के., एसीए 01/10/2001 न्यू नं. 24 (ओल्ड नं. 10), सेन्ट्रल एक्साइज कालोनी, सैदापट, चेन्नई-600015	156.	209895	श्री एलपरोलू किरन कुमार 08/12/2000 एसीए प्लोट नं. 62, विकासपुरी, संजीवा रेड्डी नगर (पोस्ट), हैदराबाद-500038
143.	208144	श्री चित्तीराय अलीयस बाबू ए. 01/10/2001 एसीए सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, ट्रांसवर्ल्ड गारनेट इंडिया (प्रा.) लिमि., तूतीकोरीन एयरपोर्ट के सामने, कोट्टूडकट्टू, तूतीकोरीन-628103			
144.	208234	मिस रूपाली मनसाबदार, एसीए 01/10/2001 हाउस नं. 6-2-45/11, एडवोकेट्स कालोनी, ए. सी. गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद-500004			

157. 210004 श्री कृष्णा प्रसाद मादवेश, एसीए 01/10/2001
346 दूसरी मंजिल, सेक्टर 14, गुडगांव
158. 210112 श्री संदीप दिवाकरन, एसीए 01/10/2001
6 मेन रोड, कस्तूरबा नगर, अदयर,
चेन्नई-600020

159. 210305 श्री साधिया नारायणन पी., एसीए 01/10/2001
जे-4-415 आरबीआई, ऑफिसर्स कालोनी,
गोकुलधाम, गोरेगांव, ईस्ट मुम्बई-400063


डा० अशोक हल्दिकर
(सचिव)

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के समेकित उत्पादन एवं व्यापारिक लेखा एवं समेकित लाभ-हानि लेखा तथा 31 मार्च 1998 के खादी ग्रामोद्योगी व्यापारिक निधि के समेकित तुलन-पत्र और मार्च 31, 1998 के लेखा विवरण की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करता हूं।

बी. आर. मंडल
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 4.12.1998

खादी और ग्रामोद्योग आयोग
31.3.1998 की स्थिति को दर्शाते हुए

प्राप्तियां
RECEIPTS

क्रमांक	विवरण	अधरोष रु.	प्राप्तियां रु.	भुगतान रु.	इतिरोष रु.	कुल रु.
Sr. No.	Particulars	Opening Balance Rs.	Receipts Rs.	Payments Rs.	Closing Balance Rs.	Total Rs.
अनुलप्रक ANNEXURE 'A'	I. सरकार से प्राप्त ऋण Loans Received from Government					
	खादी Khadi	5,86,42,33,757	* 1,22,73,46,000	₹ 92,81,75,000	6,16,34,04,757	
	ग्रामोद्योग Village Industries	7,59,28,23,099	• 1,52,11,25,000	+ 1,43,04,25,000	7,68,35,23,099	
	अग्रिम के लिए मकान निर्माण ऋण (योजनेतर) House Building Loans for Advances (Non-plan)	2,17,85,427	30,00,000	25,50,016	2,22,35,411	
	योग TOTAL :	13,47,88,42,283	2,75,14,71,000	2,36,11,50,016	13,86,91,63,267	
	भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त कन्सोर्टियम बैंक उधारी Consortium Bank Credit Received from State Bank of India	4,49,८2,14,000	60,00,00,000	28,03,56,000	4,81,78,58,000	
	महा योग GRAND TOTAL :	17,97,70,56,283	3,35,14,71,000	2,64,15,06,016	18,68,70,21,267	18,68,70,21,267
	II. सरकार से प्राप्त अग्रिम Advances Received from Government		निकाल दिया गया नीचे मद संख्या-III में अंतर्गत Deleted-Since Transferred to Item No. III below			
	III. व्यापारिक गतिविधियों हेतु सरकार से प्राप्तियां Receipts from Government for Trading Operations					
	खादी Khadi	93,27,29,845	—	A 8,93,71,000	84,33,58,845	
	ग्रामोद्योग Village Industries	6,81,80,384	—	B 7,00,000	6,74,80,384	
	योग TOTAL :	1,00,09,10,229	—	9,00,71,000	91,08,39,229	91,08,39,229
	IV. अनुदान तथा सम्बद्ध प्राप्तियां Grants and Connected Receipts		खादी Khadi	ग्रामोद्योग V.I.	योग Total	
	a) राज्य मंडलों तथा संस्थाओं को दिये गए अग्रिमों सहित अधरोष Opening Balance including advances to State Boards and institutions	2,47,89,16,987		54,21,71,293	3,02,10,88,280	
	b) सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Government	C 2,20,55,00,000	D 84,00,00,000		3,04,55,00,000	
	c) सरकार से योजनेतर प्रशासन के लिए अनुदान Grants Received from Government for non-plan administration	24,00,00,000		—	24,00,00,000	
	d) आर.इ.जी.पी. हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Government for REGP	1,05,00,00,000		—	1,05,00,00,000	
	e) वि. एच. प्रो. हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Govt. for S&T	30,00,000		95,00,000	1,25,00,000	
	f) एनपीबीडी/एनपीआईसी हेतु एमएनईएस से प्राप्त अनुदान Grants Received from MNES for NPBD/NPIC			18,82,18,991	18,82,18,991	
अनुलप्रक ANNEXURE 'B'	राज्य मंडलों और संस्थाओं से वापसी रकम (अप्रयुक्त अनुदान इत्यादि) Refunds Received from State Boards and Institutions (Unutilised Grants etc.)	52,73,218	5,83,49,885		6,36,22,901	
	योग TOTAL :	5,88,26,90,203	1,63,82,39,969	7,62,09,30,172		7,62,09,30,172

MUMBAI-56

Statement of Account for the year 1997-98

भुगतान
PAYMENTS

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	अधरोष ₹ Opening Balance Rs.	भुगतान ₹ Payments Rs.	प्राप्तियाँ ₹ Receipts Rs.	इतिरोष ₹ Closing Balance Rs.	कुल ₹ Total Rs.
अनुलग्नक ANNEXURE	'जी' 'G'	I. राज्य मण्डलों और संस्थाओं को प्रदत्त ऋण Loans paid to the State Boards and Institutions				
	खादी Khadi	5,11,65,90,279	4,77,44,533	15,14,83,980	5,01,28,50,832	
	ग्रामोद्योग Village Industries	7,08,22,26,868	6,51,32,805	24,21,38,921	6,90,52,20,752	
	अग्रिम के लिए मकान निर्माण (शेजनेतर) House Building Loans for Advances (Non-plan)	1,60,98,416	18,95,240	26,69,758	1,53,23,898	
	योग TOTAL :	12,21,49,15,563	11,47,72,578	39,62,92,659	11,93,33,95,482	
	राज्य मंडलों और संस्थाओं को अग्रदाय अग्रिम Imprest Advances to the State Boards and Institutions					
	खादी Khadi	58,46,27,461	7,24,375	75,35,810	57,78,16,026	
	ग्रामोद्योग Village Industries	9,71,70,007	13,75,300	5,75,06,473	4,10,38,834	
	योग TOTAL :	68,17,97,468	20,99,675	6,58,42,283	61,88,54,860	
	कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट में से राज्य मंडलों, संस्थाओं और वैयक्तिकों को प्रदत्त ऋण Consortium Bank Credit paid to the State Boards, Institutions & Individuals					
	खादी Khadi	2,58,05,80,855	—	2,10,26,305	2,55,95,54,550	
	ग्रामोद्योग Village Industries	1,85,55,65,396	71,14,04,310	7,29,25,485	2,49,40,44,221	
	योग TOTAL :	4,43,61,46,251	71,14,04,310	9,39,51,790	5,05,35,98,771	
	महा योग GRAND TOTAL :	17,33,28,59,282	82,82,76,563	55,52,86,732	17,60,58,49,113	17,60,58,49,113
	II. अग्रिम Advances	निकाल दिया गया : अधोलिखित मद सं. III को अंतर्गत Deleted Since Transferred to Item No. III below				
अनुलग्नक ANNEXURE	'के' 'K'	III. व्यापारिक गतिविधियों में निवेश Investment in Trading Operations				
	खादी Khadi	95,96,01,052	31,00,29,608	40,42,45,648	86,53,84,012	
	ग्रामोद्योग Village Industries	7,93,41,667	25,40,037	50,01,790	7,68,79,914	
	योग TOTAL	1,03,99,42,719	31,25,68,645	40,92,47,438	94,22,63,926	94,22,63,926
अनुलग्नक ANNEXURE	'एम' 'M'	IV. अनुदान और विविध भुगतान Grants and Miscellaneous Payment				
	(i) राज्य मंडलों, संस्थाओं एवं अन्य को सवितरण Disbursements to State Boards, Institutions and others	87,60,08,435	2,49,22,60,516	3,36,82,68,951		
	(ii) राज्य मंडलों, संस्थाओं तथा अन्य के पास अग्रदाय अग्रिम Imprest Advances with the State Boards, Institutions and others	67,23,14,981	51,79,95,879	1,19,03,10,860		
	(iii) संस्थाओं के पास बुनाई उपदान Weaving Subsidy with Institutions	5,19,857	—	5,19,857		
अनुलग्नक ANNEXURE	'एन' 'N'	प्रशासनिक और विविध खर्च Administrative and Miscellaneous Expenditure				
		44,89,26,675	—	44,89,26,675		
अनुलग्नक ANNEXURE	'आर' 'R'	वसूली योग्य अग्रिम Recoverable Advances				
	अधरोष Opening Balance	39,01,353				
	जोड़ा : भुगतान Add : Payments	4,36,30,93				
	योग TOTAL :	82,64,446				
	घटाया : वापसी Less : Refunds	35,30,296				
	शुद्ध शेष Net Balance	47,34,150	47,34,150	—	47,34,150	

अनुसूचक 'सी'	V.	विभिन्न प्रप्तियाँ				
ANNEXURE 'C'		Miscellaneous Receipts	34,33,84,817	18,94,50,269	53,28,15,086	
अनुसूचक 'डी'	VI.	जमा				53,28,15,086
ANNEXURE 'D'		Deposits				
		अप्रारंभ Opening Balance	9,75,998	—	9,75,998	
		प्रप्तियाँ Receipts	8,91,479	—	8,91,479	
		प्रत्यापन : प्रप्तियों पर Loss : Refunds	5,02,044	—	5,02,044	
		शुद्ध BALANCE :	13,65,433	—	13,65,433	13,65,433
अनुसूचक 'ई'	VII.	उत्थान				
ANNEXURE 'E'		Suspense				
		अप्रारंभ Opening Balance	—	1,32,62,420	1,32,62,420	
		प्रप्तियाँ Receipts	—	30,28,130	30,28,130	
		योग TOTAL :	—	1,62,90,550	1,62,90,550	1,62,90,550
अनुसूचक 'एफ'	VIII.	व्यापारिक परिणाम				
ANNEXURE 'F'		Trading Results				
		खादी Khadi	2,68,73,089	77,56,496	1,25,48,237	2,20,81,348
		ग्रामोद्योग Village Industries	1,12,24,932	22,15,038	39,99,582	94,40,388
		योग TOTAL :	3,80,98,021	99,71,534	1,65,47,819	3,15,21,736
अनुसूचक 'जी'	IX.	अंशदायी/सामान्य भविष्य निधि				
ANNEXURE 'G'		Contributory/General Provident Fund	12,30,84,530	5,65,27,249	3,98,80,998	14,12,30,781

वर्ष 1995-96 तक संश्लेषित निधियों के संबंध में राज्य मंडलों, संस्थाओं आदि से प्राप्त किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति का विवरण।
Statement showing the position about Utilisation Certificates to be received from the State Boards, Institutions etc. in respect of funds disbursed upto the year 1995-96.

(लाख रुपये में Rs. in lakhs)			
वह धनराशि जिसके लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अवशेष था	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र Utilisation Certificate Received		शेष Balance
Amount for which Utilisation Certificates were required to be furnished	सरकार/लेखा परीक्षा को सूचित कर दिया गया Advised to Govt. / Audit	प्रक्रियान्तर्गत Under Process	
49,466.82	11,075.81	2,953.20	35,439.81

टिप्पणियाँ/Remarks :

- (1) सम्मिलित है 92,81,75,000 रुपये ऋण नवीकृत तथा खादी व्यापारिक निधि से अंतरित 8,93,71,00 रुपये।
(Includes Rs.92,81,75,000 loans renewed and Rs.8,93,71,000 transferred from Khadi Trading Fund.)
- (2) दर्शाता है ऋण नवीकरण के
Represents loans renewed
- (3) ऋण : सम्मिलित है - ऋण नवीकरण 1,43,04,25,000 रु. तथा ग्रामोद्योग व्यापारिक निधि से अंतरित 7,00,000 रुपये।
(Includes Rs.1,43,04,25,000 loans renewed and Rs. 7,00,000 transferred from Village Industries Trading Fund.)
- (4) दर्शाता है ऋण नवीकृत
Represents loans renewed.
- (5) खादी ऋण निधि को अंतरित रकम
Represents amounts transferred to Khadi Loan Fund.
- (6) ग्रामोद्योग ऋण निधि को अंतरित रकम
Represents amounts transferred to Village Industries Loan Fund.
- (7) सम्मिलित : योजनात्मक प्रशासनिक खर्च निधि के लिए 11,75,00,000 रु.
(Includes Rs. 11,75,00,000 for Non Plan Administrative Expenditure Fund.)
- (8) सम्मिलित : सामान्य एवं विविध अनुदान निधि हेतु 5,34,00,000 रु.
(Includes Rs. 5,34,00,000 for General and Miscellaneous Grant Fund.)

सरकारी ऋण पर प्रभाषित व्याज

Interest Charged on Government Loans

	खादी Khadi	ग्रामोद्योग V.I.	
(a) आयोग द्वारा दि. 31.3.97 तक प्राप्त ऋण पर On Loans received by Commission upto 31.3.97	92,97,70,865	95,79,52,135	
(b) ब्याज प्रेषित Interest Remitted	—	4,75,77,980	
(c) शेष-जिसके लिए उपदान प्राप्त किया जाना है Balance for which subsidy receivable	92,97,70,865	91,03,74,155	
(d) प्राप्त उपदान Subsidy Received	42,00,00,000	16,00,00,000	
(e) शेष प्राप्य / Balance Receivable	50,97,70,865	75,03,74,155	
(f) ब्याज भुगतान / Interest Paid	—	4,75,77,980	4,75,77,980
महा योग GRAND TOTAL :	2,00,25,04,098	3,05,78,34,375	5,06,03,38,473
उत्पन्न Suspense	—	1,32,62,420	1,32,62,420
बैंक / Bank			
खादी निधि Khadi Fund			2,13,06,12,537
ग्रामोद्योग निधि Village Industries Fund			1,63,16,31,795
कंसोर्टियम बैंक उधारी Consortium Bank Credit			3,21,14,230
योग TOTAL :			3,79,43,58,562
नकद अग्रदाय Imprest Cash			
खादी निधि Khadi Fund			38,47,10,979
ग्रामोद्योग निधि Village Industries Fund			—
योग TOTAL :			38,47,10,979
अंशदायी/सामान्य प्रविध्य निधि Contributory/General Provident Fund			
बाण्डों, प्रमाणपत्रों तथा भारतीय स्टेट बैंक में निवेश Investment in Bonds, Certificate and S.B.I.			13,63,89,493
बैंक Bank			48,41,288
योग TOTAL :			14,12,30,781
महा योग GRAND TOTAL Rs.			27,94,20,14,254

भारत सरकार के दिनांक 31.3.1998 की स्वीकृति पत्र सं.जी-21013/2/98 के.वी.आई (11) के अनुसार ब्याज उपदान के शेष को वर्ष 1998-99 में समायोजित करने के लिए आगे लाया गया
Balance of interest subsidy carried forward to be adjusted later on in 1988-99 vide
Govt. Sanction letter No.G-21013/2/98-KVI(II) dt. 31.3.1998. खादी /Khadi
Rs. 221,35,39,786 ग्रामोद्योग /V.I. Rs. 429,76,23,538. कुल /Total Rs. 651,11,63,324

महा योग GRAND TOTAL Rs. :

27,94,20,14,254**लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र AUDIT CERTIFICATE**

मैंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के समेकित उत्पादन एवं व्यापारिक लेखा एवं समेकित लाभ-हानी लेखा तथा 31 मार्च 1998 के खादी ग्रामोद्योगी व्यापारिक निधि के समेकित तुलन-पत्र और मार्च 31, 1998 के लेखा विवरण की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संतुष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्ययन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार मेरे लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कामकाज का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

I have examined the Consolidated Production and Trading Account and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1998 and the Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 1998 of Khadi and Village Industries Trading Funds and the Statement of Accounts as on 31st March, 1998 of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Khadi and Village Industries Commission according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

B. Sd/-

(बी.आर. मंडल)

(B.R. Mandal)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)

स्थान/Place : मुम्बई/Mumbai


दिनांक / Date : 4/12/1998

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित धनराशि, जो कि संस्थाओं से प्राप्त किये जाने हैं, जो परिसमापन के अधीन हैं अथवा जिनके विरुद्ध ऋणों की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाई चल रही है, जिसे पूरी तरह वसूल नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर 31.3.98 तक दर्शाए अनुसार बकाया ऋण उगाही योग्य हैं।

Certified that the loans shown as outstanding on 31.03.1998 are realisable except the following amounts which are due from Institutions, which are under liquidation or against which legal action have been taken for the recovery of the loans which may not be recovered in full.

खादी Khadi : Rs.2,95,33,124

ग्रामोद्योग Village Industries : Rs.2,27,25,571



निदेशक लेखा

Director Accounts

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

Khadi and V. I. Commission

मुम्बई Mumbai-400 056.



उप मु. का. प्र. अ. (वित्त)

Dy. CEO (Finance)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

Khadi and V. I. Commission

मुम्बई Mumbai-400 056.



वित्त सलाहकार

Financial Advisor

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

Khadi and V. I. Commission

मुम्बई Mumbai-400 056.




मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Chief Executive Officer

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

Khadi and V. I. Commission

मुम्बई Mumbai-400 056.



अध्यक्ष

Chairman

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

Khadi and V. I. Commission,


मुम्बई Mumbai-400 056.

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No.F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended June 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
NIL -					


 (G. M. Paranjape)
 p. Chief General Manager
 2.8.2003

List "B"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Byculla, Mumbai Circle					
10% Relief Bond 1995 (GPH)					
BC-8960	Rs. 1,00,000/-	Jamsetjee Jejeebhoy and Ayesha J. Jejeebhoy	27.2.1998	Jamsetjee Jejeebhoy and Ayesha J. Jejeebhoy	06.25.70 12.2.2003
BC-9905	Rs. 50,000/-	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	12.4.1996	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	06.25.61 18.6.2002
10% Relief Bond 1995 (GPM)					
BC 2912 & BC 2913	Rs. 50,000/- Each	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	12.4.1998	C.S. Krishna Iyer Kamala Krishnan	06.25.61 18.6.2002
10% Relief Bond 1995 (GPH)					
BC-16710	Rs. 3,00,000/-	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarila Bhanu Shah	21.11.1998	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarila Bhanu Shah	06.25.68 24.1.2003
BC-16088	Rs. 4,00,000/-	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarila Bhanu Shah	17.11.1998	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarila Bhanu Shah	06.25.68 24.1.2003
BC-16714	Rs. 4,00,000/-	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	21.11.1998	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	06.25.67 24.1.2003
Byculla, Mumbai Circle					
9% Relief Bond 1999 (GPH)					
BC-2252	Rs. 3,00,000/-	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	25.2.1999	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah	06.25.67 24.1.2003
Mumbai (Fort) Circle					
Government of India 5 1/2% Loan 1991					
BY 011723 BY 011724	Rs. 1,000/- (aggregate)	Framroze Ardeshir Bade Nashir Firojshaw Merita Ardeshir Nassorwanji Chinoy, Irah Ardeshir Nadishah, Jal Hormusji Ardeshir Vakil and Hemang Dhoomjishaw Batarwalla or order	18.01.1989	Rahnumae Sabha Mazdayasnan	Case No.20.04.2241/42 General Manager's orders dated 21.04.2003 C.O. Diary No.671 dated 2nd May 2003

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 4th August 2003

CORRIGUNDUM

No. U-16/53/2001-Med. II(Kerala)—Attention is invited on the notification No. U-16/53/2001-Med. II(Kerala) dated 29-5-2003 published in Govt. of India Gazette 28th June 2003 under Part-III Section-4 at page No. 7616 and 7639 regarding appointment of PTMR Sh. S.L. Naveen may be treated as withdrawn.

Dr. (Mrs.) S. SINGH
MEDICAL COMMISSIONER

New Delhi, the 4th August 2003

No. V-33(13)8/2000-E. IV—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation nominates Shri H.K. Jaware Gowda, Member of Parliament (Rajya Sabha) as Ex-Officio-Member of the Regional Board, Karnataka in terms of Regulation 10(1)(f) of ESI (General) Regulations, 1950.

Now therefore in the Corporation's Notification No. V-33(13)8/2000-E. IV. dated 13-2-2003 published in Part III, Section 4 Govt. of India Gazette dated 5.4.2003 the following entry at S. No. 13(a) shall be inserted :—

S. No.	Proposed Entry	
13(a)	Shri H.K. Jaware Gowda Member of Parliament (Rajya Sabha) 'Sri Ranga' Northern Extension Hassan-573201 Karnataka	Ex-Officio Member (Under Regulation 10(1)(f) of ESI (General) Regulations, 1950)

Dr. AJAY DUA
Director General

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 30th July 2003

No. 13-CA (EXAM)/ISA/S/2003 :- In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 20th September, 2003 from 8.00 am to 12.00 noon at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :-

EXAMINATION CENTRES :

1. AGRA	2. AHMEDABAD	3. ALLAHABAD	4. ALLEPPEY
5. ALWAR	6. AMBALA	7. AURANGABAD	8. BANGALORE
9. BAREILLY	10. BHOPAL	11. CALICUT	12. CHANDIGARH
13. CHENNAI	14. COIMBATORE	15. DEHRADUN	16. DHANBAD
17. DURG	18. ERNAKULAM	19. FARIDABAD	20. GHAZIABAD
21. GOA	22. GUNTUR	23. GWALIOR	24. HUBLI
25. HYDERABAD	26. INDORE	27. JABALPUR	28. JAIPUR
29. JALANDHAR	30. JALGAON	31. JAMMU	32. JAMSHEDPUR
33. JODHPUR	34. KANPUR	35. KOLHAPUR	36. KOLKATA
37. KOTA	38. LUCKNOW	39. LUDHIANA	40. MADURAI
41. MANGALORE	42. MATHURA	43. MEERUT	44. MORADABAD
45. MUMBAI	46. MUZAFFARNAGAR	47. MYSORE	48. NAGPUR
49. NASIK	50. NEW DELHI	51. NOIDA	52. PATIALA
53. PATNA	54. PUNE	55. RAIPUR	56. RAJKOT
57. RANCHI	58. SALEM	59. SANGLI	60. SILIGURI
61. SOLAPUR	62. TRIVANDRUM	63. UDAIPUR	64. UDUPI
65. VADODARA	66. VARANASI	67. VELLORE	68. VIJAYAWADA
69. VISAKHAPATNAM	70. YAMUNANAGAR	71. GUWAHATI	


The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course.

The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi on or before 2nd September, 2003.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 12th August, 2003. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 2nd September, 2003. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 2nd September, 2003 will not be entertained under any circumstances.



(V. SESHADRI;
JOINT SECRETARY (EXAMS.)

Mumbai-400 005, the 28th July 2003

(Chartered Accountants)

3WCA(5)/3/2002-2003: With reference to this Institute's Notification Nos. Dated, 3ECA(4)/6/1988-1989 dated 24 Feb 1989, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000, 3WCA (4)/1/98-99 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No	MR No	Name & Address	Restore
1	012150	Mr. MCRZARIA BHARAT KALYANDAS 91/A, HEERA PANNA, BHULABHAI DESAI ROAD, MUMBAI 400026	ACA 25/07/2002
2	014084	Mr. PANCHAPAKESAN ANANTHNARAYAN C/O. S.R.A. AIYAR 21/A, "VANPRASTHA" SENIOR CITIZENS COMPLEX KASTHURINAICKENPALAYAM, POST: VADAVALLI, COIMBATORE 641041	ACA 10/03/2003
3	015256	Mr. TUSHAR MAGANLAL DEDHIA 84 SION WEST MUMBAI 400022	FCA 31/05/2001
4	019591	Mr. DURGAPRASAD DEVABHAKTUNI 307, PANCOM BUSINESS CENTRE, AMEERPET XROADS HYDERABAD 500073	ACA 06/01/2003
5	022774	Mr. SUNDARAM R THE KENINDIA ASSURANCE CO LTD., P.O. BOX 44372 NAIROBI 0 KENYA	ACA 04/03/2003
6	023111	Mr. SRINIVASAN K C/OMR. K. KRUSHNAMURTHY, FLAT NO.9, "SARVOVAR" SECTOR 9A, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	ACA 26/03/2003
7	027758	Mr. R. ARAVINDAN C/O. RISHAB CORPORATE SERVICES, # 25, PADMASHREE MANSION THIRD FLOOR, FIRST CROSS, SAMPIGE ROAD, MALLESWARAM, BANGALORE 560003	ACA 06/03/2003

8	030693	Mr. SHAH KIRAN JAMNADAS C/O. VADILAL B. MEHTA KHAR GATE, DANA PITH BHAVNAGAR 364001	ACA 14/08/2002
9	031660	Mr. AJIT MAHADEO AGHARKAR G/101, LOKMANYA SOCIETY, KATARIA MARG, MATUNGA (WEST) MUMBAI 400016	FCA 20/11/2002
10	033202	Mr. ABHYANKAR. SURESH NARAYAN HERAMB SADAN, MARKANDI CHHILUN 415805	ACA 15/07/2002
11	033943	Mr. PARTANI SURESH BHAGWANDAS ROOM NO.4, FRIENDS PARK, S.NO.106, A/2B, SENAPATI BAPAT RD., PUNE 411053	ACA 29/04/2002
12	034287	Mr. PATEL DAHYABHAI BALUBHAI H-105, GUJRATI SOCIETY, NEHRU ROAD, VILE PARLE (EAST) MUMBAI 400057	FCA 02/07/2002
13	034443	Mr. SANDESARA NITINKUMAR JAYANTILAL SANDESARA HOUSE TOP FLOOR 239 JAWAHAR NAGAR GOREGAON-EAST MUMBAI 400062	ACA 28/01/2003
14	034496	Mr. BAHETI KAILASH CHANDRA KAILASH CHANDRA BAHETI & CO 65 M G RD II FLOOR FORT MUMBAI 400023	FCA 13/03/2003
15	035782	Mr. THAKER NILESH SURENDRA 11, GLAMIS AVENUE STRATHMORE PARK WELLINGTON 6003 NEW ZEALAND.	ACA 28/03/2003
16	036206	Mr. IYER N. A. SABHAPATH RAFIE JEWELLERS, P.O. BOX 2376, MANAMA 440018 KINGDOM OF BAHRAIN	ACA 06/01/2003
17	036623	Mr. SHRIVASTAVA AMRENDRA KUMAR C/O. LUCKY FIBRES (NIG) LTD 56 AWOLOWO ROAD IKOYI LAGOS 0 NIGERIA	ACA 17/12/2002

18	036856	Mr. SONI MUKUND RAMCHHODLAL 20/B, TIN MURTI BUNGLOWS, B/H JAY AMBE NAGAR, DRIVE-IN-ROAD, THAL TEJ AHMEDABAD 380054	ACA 01/08/2002	29	041773	Mr. SHETH BHUPENDRA BABULAL BHUPENDRA SHETH & CO., 204 AASHITHA APT., K.D. GAIKWAD MARG, MULUND MUMBAI 400080	ACA 29/06/2001
19	037268	Mr. DESAI SUNIL MANVANTRAY 10-B JANTANAGAR SOC SIAYAD VASANA RD VADODARA 390015	ACA 21/02/2003	30	042357	Mr. HAFIA SATISHKUMAR MOHAMMED 11/12 GANGA BEDG TRIVENI RAJAJI RD DOMBIVLI 421201	ACA 25/03/2003
20	037338	Mr. PURAO SANDEEP RAMAKANT 10 WHITE LILY BABREKAR MARG DADAR MUMBAI 400028	ACA 25/11/2002	31	042034	Ms. VAIJAYANTI PARASHURAM VAWA 163, SHANWAR PETH, 3RD FLOOR, PUNE 411030	ACA 16/01/2003
21	037354	Mr. TECKCHANDANI GUL MENGHRAJ 501, GULMOHAR, AUXILIUM CONVENT ROA, PALI HILL, BANDRA (WEST) MUMBAI 400050	ACA 18/02/2003	32	043244	Mr. SETH VIKRAM 601, SHAILJA APTS PALI HILL BANDRA (W) MUMBAI 400050	ACA 26/12/2002
22	038798	Mr. SRIRAM CHANDRASEKAR 604-4470, TUCANA CT., MISSISSAUGA, ON L5R 3K8 MISSISSAUGA O CANADA	ACA 13/02/2003	33	044158	Mr. SHETH DINESH KANTILAL 18/A, DUNGARSHI NAGAR SOC, BHATTHA, SARKHEJ ROAD, AHMEDABAD 380007	ACA 10/02/2003
23	040147	Mr. JAGETIA SATISH SATISH JAGETIA & CO., 501 STERLING CHAMBER, 57/59 POONA STREET, MUMBAI 400009	FCA 07/10/2002	34	044630	Mr. SHAMAL VISHWANATH PARAB 608 B WING MRUDANG CHS LOKPURM, THANE (W) THANE 400601	ACA 26/02/2003
24	040335	Mr. CHAKRAVARTY ARINDAM C/O P. T. PERFETTI VANMELLE JAKARTA INDONESIA	ACA 26/12/2002	35	044755	Ms. AGARWAL PRITIBALA C/O. RAJKUMAR BHANDARI., 78A-1, APTS., 270, WALKESHWAR ROAD., MUMBAI 400006	ACA 08/08/2002
25	040829	Mr. SANGHVI SAILESH INDULAL 40/12 UPENDRA SEWREE WADALA ROAD KING CIRCLE MUMBAI 400019	ACA 06/03/2003	36	044882	Mr. ATUL GOPAL DEOLE A / 107 VIRESHWAR CHAMBER M G ROAD VILEPARLE (E) MUMBAI 400057	ACA 14/02/2003
26	040877	Mr. RATHI BRIJMOHAN 95 LINK PLAZA COMMERCIAL COMPLEX MHADA COMPLEX OSHWARA ANDHERI WEST MUMBAI 400053	FCA 20/03/2003	37	045220	Mr. SANDEEP KWATRA FLAT NO 1 K H KISHORE DARSHAN FOUR BUNGLOWS ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA 25/11/2002
27	041086	Mr. KAWAR SURESH 3 B RATNA MAHAL APTS GHOD-DOD ROAD NR GOKULAM DIARY SURAT O	ACA 20/05/2002	38	045385	Mr. JAGWANI MAHESH VALLABHDAS 3620 KANEFF CRES APT 613 MISSISSAUGA ON L5A 3X1 ONTARIO MISSISSAUGA O CANADA	ACA 27/01/2003
28	041521	Mr. JABBAR H ABDUL ACCOUNTS OFFICE R BALLARPUR AREA BALLARPUR PO DISTT CHANDRAPUR BALLARPUR 442701	ACA 01/08/2002				

39	045395	Mr. NAGI DEVENDER SINGH PO BOX 38194 DAR ES SALAAM DAR ES SALAAM 0 TANZANIA	ACA 12/12/2002	43	083582	Mr. MEHANDRU MANOJ FLAT # 262 W2 CLOVER CITADEL WANOWRIE PUNE 411040	ACA 14/02/2003
40	047213	Mr. VARKEY JOHN M H ALSHAYA CO WLL P O BOX 181 13002 SAFAT SAFAT 0 KUWAIT	ACA 16/10/2002	44	102865	Mr. VORA APOORVA NAVNIT NCR P O BOX 1185 DUBAI 0 UNITED ARAB EMIRATES	ACA 11/02/2003
41	047238	Mr. AJAY VIJAY JAIN 303-A DATTANI NAGAR 3 S V ROAD BORIVLI (WEST) MUMBAI 400092	FCA 21/01/2003	<hr/>			
42	060041	Mr. PANKAJ KUMAR PRIMA, PLANT NO. 18 B GODREJ & BOYCE MFG LTD VIKROLI MUMBAI 400083	ACA 12/12/2002				

Ashok Haldia
(Dr. ASHOK HALDIA)

SECRETARY

Mumbai-400 005, the 5th August 2003

(Chartered Accountants)

3WCA(5)/4/2002-2003: With reference to this Institute's Notification Nos. dated, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-2003 dated 10 Feb 2003, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000 dated, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-2003 dated 10 Feb 2003, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Name & Address	
1	003770	Mr. KASIM ESUF IBRAHIM 194, JUPITER, 41, CUFFE PARADE, COLABA, MUMBAI 400005	FCA 01/10/1999
2	005047	Mr. PATWARDHAN PADMAKAR PRABHAKAR 11 UMA NIVAS COOPERATIVE HSG SO, RAM MARUTI ROAD, LANE NO 1, NAUPADA, THANE 400602	ACA 01/10/2002
3	005831	Mr. T V RAMA MURTI FLAT NO 44, BUILDING NO 314-A1 SECTOR 3, SRISHTI HSG COMPLEX PENKAR PADA, MIRA ROAO (EAST) DIST: THANE MIRA ROAD 401104	ACA 01/10/2002
4	007592	Mr. CHANDRASEKHARAN S EXECUTIVE VICE PRESIDENT, RALLIS INDIA LTD., 21, D.S. MARG, MUMBAI 400001	FCA 01/10/2002
5	008307	Mr. VARMA VARENDRA LALCHAND 6 CHETNA APARTMENTS 134 FARMLAND NEW RAMDAS PETH NAGPUR 440010	FCA 01/10/2002
6	009578	Mr. GUJARATI JATIN HARILAL C/O. JATIN & REKHA GUJRATHI, 27 VALDOR DRIVE, AGINCOURT ONTARIO, CANADA M1V 1L2 CANADA	FCA 01/10/2002

7	010768	Mr. TAVADIA KEKI MANECKSHAW VATCHA BUILDING, CAPTAIN COLONY, TARDEO, MUMBAI 400034	ACA 01/10/2002
8	011872	Ms. VORA URVASHI GORDHANDAS C/O M/S G M KAPADIA & CO 36/B, TAMARIND HOUSE, IIND FLOOR, TAMARIND LANE, FORT, MUMBAI 400001	ACA 08/12/2000
9	011916	Mr. RAMAN KUMAR SETH 3/1125, L. NAVJEEVAN SOCIETY, LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400008	FCA 01/10/2002
10	012467	Mr. TALSANIA PRAMO DKUMAR KANCHANLAL B 302 VISHAL SUSHEEL OFF NARIMAN ROAD VILE PARLE (E) MUMBAI 400057	FCA 08/12/2000
11	015404	Mr. POPAT NIRANJAN VASANJI 32, HUNTERS GROVE HARROW MIDDLESEX HA3, 9AA MIDDLESEX O U.K.	ACA 01/10/2002
12	015815	Mr. DIVYAKANT RAMANKLAL ZAVERI 9, TARANG SOCIETY, OPP. AKOTA STADIUM, AKOTA, VADODARA 390020	ACA 08/12/2000
13	016329	Mr. BHANDARI RAGHUVIR 701, MERIDIAN APARTMENTS NO.5, VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002
14	019657	Mr. PRABHAKAR B A BANK OF BARODA 16 PARLIAMENT STREET NEW DELHI 110001	ACA 01/10/2002
15	020588	Mr. V SRINIVASAN MD & CEO, ICICI INFOTECH LIMITED, INTERNATIONAL INFOTECH PARK, TOWER# 5, LEVAL-4, VASHI STATION COMPLEX, VASHI NAVI MUMBAI 400705	ACA 01/10/2002
16	021641	Mr. MALIWAL G L C-2-16, TERRACE VIEW, BORIVLI WEST MUMBAI 400103	FCA 01/10/2002

17	022371	Mr. GANAPATHY SUBRAMANIAM STAR INDIA LIMITED THE MASTERPIECE, ANDHERI KURLA ROAD, MAROL NAKA, ANDHERI (EAST) MUMBAI 400059	ACA 01/10/1999	26	032417	Ms. SHAHVARSHA G 19, PICOLA COURT NORTH YORK ONTARIO M2H 2N2 CANADA	ACA 01/10/1996
18	023812	Mr. SHIRWADKAR SURESH P Z 204 PRAJAPATI GARDEN SECTOR 5 NEW PANVEL PANVEL 410206	ACA 01/10/2002	27	032859	Mr. SRIDHARAN RAJAGOPALAN FLAT NO 4 GEETA CO-OP HOUSING SOCIETY RAMBAUG, LANE NO 4 KALYAN 641009	ACA 01/10/2002
19	030261	Mr. BHANDARKAR NARAYAN ANANTRAO 11-C 'ASHWIN' PLOT NO 27/1 MARVE RD MALAD (WEST) MUMBAI 400064	ACA 01/10/2002	28	032915	MR RAJNIKANT KARUNASHANKER JOSHI B/11, TRIVENI SOCIETY, BEHIND ARUNACHAL SOCIETY, ARUNACHAL, SUBHANPURA VADODARA 390023	ACA 01/08/1983
20	030754	Mr. AGRAWAL GIRDHARILAL GOVINDRAM 22, BABARASHI MANSION, FIRST FLOOR, INSIDE SHIVAM SHOPPING CENTRE, OPP. NEW ERA THEATRE, S V ROAD, MALAD (WEST), MUMBAI 400064	FCA 01/10/2002	29	033085	Mr. BUTALA RAJESH VASANTLAL 8/10 CALCOT HOUSE FIRST FLOOR, TAMRIND STREET, FORT, MUMBAI 400001	FCA 01/10/1993
21	031095	Mr. BERDE DEEPAK VISHWANATH 21, MANIK DEEP, TULSHIBAGWALE COLONY SAHAKAR NAGAR NO 2 PUNE 411009	ACA 01/08/1982	30	033227	Mr. DESAI DARSHAN SHANTANU 63, SATNAM APARTMENTS 6TH FL, OPP WORLD TRADE CENTRE CUFFE PARADE MUMBAI 400005	FCA 01/10/2002
22	031301	Mr. PARIKH SUSHIL KANTILAL 603-B, STOCK EXCHANGE TOWERS, DALAL STREET, FORT MUMBAI 400021	ACA 01/10/2002	31	033925	Mr. GANDHI AMUL MAHESHCHANDRA 5, MALHAR HOUSE, BEHIND RATNAM C.G. ROAD, AHMEDABAD 380006	FCA 01/10/2002
23	031792	Mr. MALLYA YESHWANT SRINIVAS A/101 SUMER CASTLE CASTLE MILLS COMPOUND L B S MARG THANE WEST THANE 400601	FCA 01/10/2001	32	033975	Mr. NAIR VENUGOPAL BALAN AFCO SOCIETY FLAT NO 2 BLDG A 2/2 NEAR SHANTI ASHRAM JEEVAN BIMA NAGAR BORIVALI WEST MUMBAI 400103	ACA 01/10/2002
24	032033	SHRI DIPAK RATILAL SHAH DIPAK 1 OPERA SOCIETY NO.1 BESIDE SUKHIPURA, NEW SHARDA MANDIR ROAD, PALDI, AHMEDABAD 380007	ACA 01/08/1982	33	033984	Mr. PATEL JAI MAHENDRABHAI 1849, ARBOR LANE UNION, NEW JERSEY 07083, NEW JERSEY 0 U.S.A.	FCA 01/10/1992
25	032233	Mr. THAKKER SHANKARLAL PRAGJIBHAI 2ND FLOOR, ASHA COMPLEX BEHIND NAVRANGPURA POLICE STATION, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009	FCA 01/10/2002	34	034048	Mr. SHIKANDAR NIJAMASAHEB KAJI 1505-C, LAXMIPURI, KOLHAPUR 416002	FCA 01/10/2002
				35	034398	Mr. SHAH DIXIT KANTILAL 202, CHURCHGATE CHAMBERS, NEW MARINE LINES, MUMBAI 400020	ACA 01/10/1996
				36	034638	Mr. NAGDA MULCHAND MANSHI 215/216, KAMER BLDG., 38, CAWASJI PATEL STREET, FORT, MUMBAI 400023	FCA 01/10/2002

37	034813	Mr. NERURKAR SHANTARAM GOVIND 22C SHIVPRABHA OPP. VITRO PHARMA SECTOR 1 CHARKOP VILLAGE ROAD KANDIVLI WEST MUMBAI 400067	ACA 01/10/2002	48	037786	Ms. TYAGARAJAN VIJAYALAKSHMI 103, ASHIYANA OFF J P RD ANDHERI (WEST) MUMBAI 400054	ACA01/10/2002
38	035109	Mr. MATE PRAKASH TUKARAM 191, SHANIWAR PETH PUNE 411030	FCA 08/12/2000	49	038137	Mr. DILIP GANPATRAO KHOSE 20, AMAR KUNJ, J B NAGAR, ANDHERI (EAST) MUMBAI 400059	FCA 01/10/2001
39	035622	Mr. SHAH LALIT BABULAL 4/52, SHANTI BHUVAN, 47, OLD HANUMAN LANE, MUMBAI 400002	FCA01/10/2002	50	038589	Ms. SMITA MANUBHAI DESAI DESAI BLDG SHIYA BAUG, BORDI FALIYA VADODARA 390001	ACA08/12/1997
40	035884	Mr. LUTHRIA SUNILKUMAR BODARAM 16 VASANT BREEZY CHAMBERS 467 DR AMBEDKAR ROAD KINGS CIRCLE MUMBAI 400019	FCA01/10/1999	51	038630	Mr. HIRAN YOGESH 44-D PANCHWATI OPP ALOK SCHOOL UDAIPUR 313001	FCA01/10/1999
41	035915	Mr. MAHESHKUMAR SUBODHCHANDRA SHAH FLAT NO.D/303, SKYHIGH, NEAR SHANKERLANE MALAD (WEST) MUMBAI 400084	ACA01/10/1988	52	038722	Mr. DINESH KUMAR PANDEY 709/31, BARAH KOTHI, NAGRA, AJMER 305008	ACA 01/10/1996
42	036706	Mr. DIKSHIT ANIL ARAVIND 15-A/11, BRINDAVAN, THANE (WEST) THANE 400601	FCA 01/10/2002	53	038830	Mr. RAJESH RAMESH JOSHI DAMODAR SMRUTI FLAT NO 5, II ND. FLOOR, 14TH ROAD, KHAR MUMBAI 400052	ACA 01/10/1998
43	036764	Mr. MEHTA JITENDRA S FLAT NO 602 BUILDING NO 6 SEA BREEZE TOWERS SECTOR -16 PALM BEACH RD NERUL WEST NAVI MUMBAI 400706	FCA 01/10/2002	54	039499	Mr. PAWANE MOHAMMAD ISMAIL IBRAHIM SWIFT FREIGHT INTERNATIONAL POST BOX 50177 DUBAI U A E 0	ACA 01/10/2002
44	037475	Mr. SETH ANIL KUMAR 706, SAKAR-V, BEHIND NATRAJ CINEMA, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380009	FCA01/10/2002	55	039843	Mr. KENDURKAR RAM PRABHAKAR F-27, AMAR JYOTI PALACE, WARDHA ROAD, NAGPUR 440012	FCA 01/10/2002
45	037537	Mr. MANI SIVASHANKARAN IYER A-6 MIRA PLOT NO 88 21ST ROAD CHEMBUR MUMBAI 400071	ACA 01/10/1996	56	040265	SHRI SURENDRA YASHWANT RANADE 14 B WING ANUBANDH SOCIETY TILAK HIGH SCHOOL ROAD TILAK NAGAR DOMBIVLI (E) 421201	ACA 01/10/2002
46	037584	Mr. LAD, RAJESH PRABHAKAR B 46/182 SIDHARTHA NAGAR ROAD NO.8, GOREGAON (WEST) MUMBAI 400104	ACA01/10/1999	57	040422	SHRI MEHUL YADUNANDAN DESAI 2, SHUBHAM BAJAJ ROAD VILE-PARLE (WEST) MUMBAI 400056	ACA 01/10/1999
47	037700	Mr. SARVAYA HEMANTKUMAR NAVNITLAL 702, RAGHUNATH TOWER, DEVIDAS LANE, BORIVALI (WEST), MUMBAI 400103	ACA 01/10/2002	58	040477	Mr. R. HIRUDAYA KANTH 82 VILLAGE CIRCLE BRIDGE WATER NEW JERSEY NJ08807 USA 0	FCA01/10/1999

59	040894	Mr. CHAUHAN KIRIT NIHALCHAND STANDARD CHARTERED BANK, P.O. BOX - 999 DUBAI U A E 0	ACA 01/10/2002	70	042280	Mr. SHAH BIPINCHANDRA BANSILAL 16 GIRIKANDRA, PANCHAMRUT SOC. VIBHAG-2, MR. T.B. HOSPITAL, GOTRI ROAD, VADODARA 390021	ACA 01/10/2002
60	040917	Mr. KANNAN S B-3 LAXMI NIVAS 39 PRATAPGUNJ VADODARA 390002	ACA 01/10/1996	71	042314	Mr. GHABRA GURCHARAN SINGH P.O. BOX - 27375 DUBAI 0 U A E	ACA 01/10/2002
61	041356	Mr. CHAUHAN RAMESHBHAI LAKHABHAI F/57 GANESH BAUG PLOT NO 208, DR B A ROAD MATUNGA(E) MUMBAI 400068	ACA 01/10/2001	72	042339	Mr. SHAH MANOJ NANJI 5TH FLOOR, SOVLA CHAMBERS 40 CAWASJI PATEL ST. FORT MUMBAI 400001	FCA 01/10/2002
62	041457	Mr. AGRAWAL SUBODH ANAND 7201 VALLEY BEND WAY PLANO TX 75024 U S A	ACA 08/12/2000	73	042350	Mr. SADRUDDIN ABDULKARIM KHETANI 7 BAGESHREE KALYANINAGAR PUNE 411006	FCA 01/10/2002
63	041508	Ms. PANDIT MUGDHA BALRAJ MARC, OHANTOLI NAGPUR 440012	FCA 01/10/2002	74	042573	Mr. D CRUZ VERNON EDGAR 4-B, WILLINGDON COLONY SANTA CRUZ (W) MUMBAI - 400054	ACA 01/10/2002
64	041542	Ms. DESAI SANGITA ISHWARLAL 94 ARAMNAGAR II VERSOVA ROAD ANDHERI W MUMBAI 400061	FCA 01/10/2002	75	043273	Mr. THADANI RAMESH ARJAN FLAT NO 3 DAULAT BUILDING 31 D COLABA ROAD COLABA MUMBAI 400005	ACA 01/10/2002
65	041558	Mr. TELANG MAHESH YESHWANT 27/A, PETHENAGAR KEDARMAL RD MALAD(EAST) MUMBAI 400097	ACA 08/12/2000	76	043518	Mrs. SEEMA PRAKASH POTDAR 402/1, 402/2, 402A GURUWAR PETH, OPP PAWAR TOWERS"S PALACE STREET SATARA 415002	FCA 01/10/2002
66	041542	Mr. MEHTA AJIT PRANJIVAN FLAT NO 6021, BLDG NO 229 AURO VILLA B WING 1ST FLOOR OFF R N NARKAR ROAD GHATKOPAR(EAST) MUMBAI - 400077	FCA 01/10/2001	77	043697	Mr. CHOWDHARY MAHAVEER CHAND 402 FAIZ-E-QUTBI 375 NARSI NATHA ST KATHA BAZAR MUMBAI 400009	FCA 01/10/2002
67	041987	Ms. NADKARNI PRANEETI PRADEEP 48, PROCTOR ROAD, GRANT ROAD (EAST) MUMBAI 400007	ACA 01/10/2002	78	043702	Mr. TRIPATHI VIJAYKUMAR RAM BHAROS 17/99 ANUBHAV DHAM, GARODIA NAGAR GHATKOPAR (EAST) MUMBAI 400077	ACA 08/12/1997
68	042125	Ms. HARJAI LINA RAKESH C/O RAKESH KUMAR HARJAI NORASIA SERVICES (HKG) LTD 22 / F, 9-DES VOEUX ROAD WEST SHEUNG WAN HONGKONG 400069	ACA 01/10/2002	79	043941	Mr. GOKHALE PRADEEP SHRIPAD C-80, SHATDEL COOP HSG. SOC., AZAD STREET, OFF. S.V. ROAD, ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002
69	042267	Mr. PATEL HIMANSHU YOGESH C/7 GANGA JAMUNA L T RD BORIVLI W MUMBAI 400092	ACA 01/10/2002	80	044037	Mr. RAJE SACHIN RAMESH 178/4886, PANTNAGAR, GHATKOPAR EAST MUMBAI 400075	ACA 01/10/2002

81	044084	Mr. VERMA RAJENDRA KUMAR FCA 01/10/2002 686 PLATT'S LANE LONDON ONTARIO N6G 3B2 CANADA	92	048419	Mr. DASGUPTA PRATAP ACA 01/10/2002 301 JUNE APARTMENT GAOTHAN LANE NO 1 OFF S V ROAD ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058
82	044349	Mr. IYENGAR ACA 01/10/2002 SRIRAM GOPALAN M/S TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD PLOT NO 1 BIDADI INDUSTRIAL AREA RAMANAGAR TALUK BANGALORE(RURAL) BANGALORE 562109	93	048519	Mr. SHETTY JAGANNATHA ACA 01/10/2002 B 305 GREENFIELD THAKUR COMPLEX KANDIVLI (E) MUMBAI 400101
83	044364	Mr. PATIL DAYARAM KHUSHALRAO ACA 01/10/2002 PLOT NO. 55, SEC NO. 20, KRISHNA NAGAR CHINCHWAD PUNE 411019	94	048619	Mr. RAJESH KUMAR FCA 01/10/2002 PRAHLAD RAY VYAS 419-E 3RD FLOOR JOSHI WADI KALBADEVI ROAD MUMBAI 400002
84	044538	Mr. JAIN GOKUL SUWALALJI ACA 01/10/2002 P O BOX NO 2047 CODE 112 RUWI MUSCAT SULTANATE OF OMAN	95	048186	Mr. SHARMA RAJESH OMDUTT ACA 01/10/2002 C-4 VIBHA CO-OP HSG SOC LTD 31 RAMCHANDRA LANE MALAD (WEST) MUMBAI 400064
85	044639	Ms. IYER MURALI PRIYA ACA 01/10/2002 PLOT NO. 44 FLAT NO. 6, AMRUT VANI CO-OP SOC 15TH ROAD CHEMBUR MUMBAI 400071	96	046464	Mr. DEVANG FCA 01/10/1999 JASHVANTILAL SHAH 14 KALYANNAGAR SOCIETY OUT SIDE SHAHAPUR GATE AHMEDABAD 380004
86	045208	Mr. ANUP MOHAN JOHRI ACA 01/10/2002 201 B, HELIX, RAJ TRADE CENTRE, SAYAJIGUNJ, VADODARA 390005	97	046702	Mr. VARASUR KRISHNAMURTHY ACA 01/10/2002 SWAMINATHAN SENIOR MANAGER (ACCOUNTS) KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD A-8-18 SECTOR - 1 NOIDA 201301
87	045227	Mr. JAYAN ACA 01/10/2002 GOVINDAN MENON A-601 AKRUTI ATRIA SAIWADI TELLY GULLY ANDHERI (EAST) MUMBAI 400069	98	046812	Mr. JAIN RAJENDRA KUMAR ACA 01/10/2002 P.O. BOX 737 DAR ES SALAAM TANZANIA EAST AFRICA 0
88	045229	Mr. OM PRAKASH INANI FCA 01/10/2002 MAHINDRA GUJRAT TRACTOR LTD NR VISHWAMITRI RLY OVERBRIDGE, VISHWAMITRI VADODARA 390011	99	047182	Mr. ARJUN VAIDYANATHAN FCA 01/10/2001 C-48 SHRINAGAR CHS P L LOKHANDE MARG GHEMBUR MUMBAI 400089
89	045284	Ms. SUGANTHI GANESH ACA 01/10/2002 901 HAFFA HOUSE P O BOX NO 2609 SALALAH PC 211 SULTANATE OF OMAN	100	047223	Mr. JAIN SANTOSH KUMAR ACA 01/10/2002 FLAT NO.9, SAVITHA 16TH ROAD GHEMBUR (E) MUMBAI 400071
90	045298	Mr. DANGARWALA FCA 01/10/2002 UMESHKUMAR RAJNIKANT MANSIDHAM NR ARVIND ASHRAM DANDIA BAZAR VADODARA 390001	101	047388	Ms. IYER LATA V ACA 01/10/2002 ENKATESHWARAN 288 TRAMWAY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA C.A. 95035 UNITED STATES OF AMERICA
91	045320	Mr. SANGTANI KAMAL GOBINDRAM FCA 01/10/2002 ROOM NO 13 VELANI BHAVAN S L ROAD MULUND (W) MUMBAI 400080			

102	047354	Mr. NARKAR ASHISH BALKRISHNA 10/86 MORESHWAR KRUPA CO-OP HSG SCTY SOC DATAR COLONY BHANDUP (EAST) MUMBAI 400042	ACA 08/12/2000	113	048759	Mr. AGRAWAL NATWAR LAL 30 GOPAL BHAVAN 199 PRINCESS STREET MUMBAI 400002	FCA 01/10/2002
103	047370	Mr. MICHAEL GEORGE VIEGAS C-205 SHREENATH NAGAR SHIV VALLABH ROAD DAHISAR EAST MUMBAI 400068	ACA 01/10/2002	114	048966	Mr. ANILJA GOVIND PITAMBER S R BATLIBOI & ASSOCIATES 18TH FLOOR EXPRESS TOWERS NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA 01/10/2002
104	047487	Mr. BANGLOREWALA CHETAN RATILAL C/O NILESH BANGALOREWALA P O BOX 999 U A E	ACA 08/12/2000	115	048999	Mr. JAIN GANESH BRIJLAL A-10, ALKHANDA SECTOR 14, VASHI NAVI MUMBAI 400705	ACA01/10/2002
105	047781	Ms. DIPTI MEHUL PATHAK D2 SACRED HEART TOWN SOCIETY WANWADI PUNE 411040	ACA 01/10/2002	116	049234	Ms. SHIVANGINI SHARMA C/O N S MEDORA D-3 STERLING COOP HOUSING SOCIETY BEHIND DRIVE IN CINEMA MEMNAGAR AHMEDABAD 380052	ACA01/10/2002
106	047893	Mr. SUNIL KUMAR PIPALWA C/O VKS ASSOCIATES A17/5 RANAPRATAP BAUG NEW DELHI 110007	ACA 01/10/1995	117	049549	Mr. SHAH YATIN CHAMPAKLAL 102 DARSHAN APARTMENT OPP. SONI NI WADI SIMPOLI BORIVLI (WEST) MUMBAI 400092	FCA 01/10/2002
107	047926	SHRI NARAYAN SWAMY KANNAN C/O CITIBANK N.A. CITIBUSINESS 41 KANAK BUILDING CHOWRINGEE LANE KOLKATA 0	ACA 01/10/2002	118	049612	Mr. PRAJAPATI HEMANTKUMAR KARSANDAS 14, TAPOVAN SOCIETY-1, ANIL ROAD, SARASPUR, AHMEDABAD 380018	ACA01/10/2001
108	048131	Ms. MEHER EDAL CASSAD 1-B/14 TATA MILLS COOP HSG SOC ELEPHINSTONE RD PAREL MUMBAI 400012	ACA 01/10/2002	119	049635	Mr. PRASAD NARHARI LANKE LANKE BLDG 2ND FLOOR DHUSWADI THAKURDWAR MUMBAI 400002	ACA 01/10/2002
109	048196	Mr. JAIN RAJNESH INDERCHAND L-94 MAKER TOWERS CUFFE PARADE MUMBAI 400005	ACA 01/10/2002	120	049670	Mrs. LANKE MRUNMAYEE PRASAD LANKE BUILDING 2ND FLOOR DHUS WADI THAKURDWAR MUMBAI 400002	ACA 01/10/2002
110	048197	Ms. PATKAR SHYMAL KAMLAKAR RAMON HOUSE 3RD FLOOR, CHURCHGATE MUMBAI 400020	ACA 01/10/2002	121	049711	Mr. D'SOUZA DERRICK PO 3168 PC112 RUWI OMAN	ACA01/10/1999
111	048461	Mr. VEERARAGHAVAN P R NO.11 KRISHNA KUNJ 14TH ROAD CHEMBUR MUMBAI 400071	ACA 01/10/2002	122	049717	Mr. SANGHVI SUKETU BHANURAY PANKAJ APTS (VASANT MANOR) DAWOOD BAUG LANE J P ROAD ANDHERI (WEST) MUMBAI 400058	ACA 01/10/1999
112	048520	Mr. BAJAN PERVEZ DINIAR 22 PATELL APTS AGIARY LANE JAMBLI NAKA THANE (WEST) THANE 400601	ACA 08/12/2000	123	049772	Ms. DALAL MITALI SURESH M/S ARTHUR ANDERSEN STAFF CONSULTANT 17TH FLOOR EXPRESS TOWER NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA01/10/2002

124	049901	Mr. ROHIT PRAKASH B-2 1ST FLOOR VIJAYSRIKETAN 59 GIRI ROAD T NAGAR CHENNAI 600017	ACA 01/10/1999	135	057520	Ms. ANJALI K PARAB FLAT NO 1/18 SNEHA CO-OP HSG SOCIETY AMBEDKAR NAGAR WORLI MUMBAI 400018	ACA01/10/2002
125	049946	Ms. JIWANI LAILA ABDULAZIZ BLOCK NO 16 3RD FLOOR FIDAI CENTRE FIDAI BAUG S V ROAD ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002	136	057695	Ms. KHALID RESHMA FLAT No. 5 2ND FLOOR 44B SHAMSHUL HUDA ROAD KOLKATA 700017	ACA01/10/2001
126	051096	Mr. MOR SUNIL KUMAR 501 DEVSHREE APT., 204 CEMENT ROAD, DHARAMPETH EXT., NAGPUR 440010	FCA 01/10/2002	137	057962	Ms. DIMPLE MEHTA 43 SARAT BOSE ROAD "PADMANEER" FLAT NO 503 KOLKATA 700020	ACA 01/10/2001
127	051521	Mr. VINOD KUMAR GARG 1901 MARATHON HEIGHTS PANDURANG BUDHKAR MARG OPPOSITE BOMBAY DYEING MFG CO LOWER PAREL MUMBAI 400013	FCA 01/10/1999	138	058874	Mr. VASUDEVAN B C/O MR SUBHASH KAPUR HOUSE NO 15 GARDEN ESTATE GLADYS ALWARIS ROAD THANE 400601	ACA01/10/2001
128	052874	Mr. DILIP CHAKRABORTY C/O ANTAI BALAJI LTD., SECTOR - II PLOT NO.64, GANDHIDHAM (GUJRAT), GANDHIDHAM 00	ACA 01/10/2002	139	059055	Mr. SHARMA RAJESH KUMAR C/O HARESH E JOSHI N - 703, INDRAPRASTHA TOWER DRIVE IN ROAD AHMEDABAD 380054	ACA01/10/2002
129	053559	Mr. PRADIP KUMAR GARODIA D-204 TAKSH COMPLEX GOTRI MAIN ROAD VADODARA 390007	FCA 01/10/2002	140	059615	Mr. KATHURIA RISHI AUDIT EXECUTIVE NESTLE INDIA LTD NESTLE HOUSE JACARANDA MARG M BLOCK DLF CITY PH - II GURGAON (HARYANA) GURGAON 122002	ACA01/10/2001
130	054480	Mr. S RAGHUPATHY NITCO TILES LIMITED MAKER CHAMBER III 8TH FLOOR NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA 01/10/1998	141	059705	Mr. TIBREWAL KAMLESH ONGC LIMITED SCOPE MINAR 15TH FLOOR LAKSHMINAGAR NEW DELHI 110092	ACA01/10/2002
131	054631	Mr. GOYAL BIRENDRA KUMAR P-51, VIVEKANAND NAGAR LILUAH HOWRAH HOWRAH 711204	FCA 01/10/2002	142	073474	Mr. MADHAV ACHARYA B-5/6 VASANT KUNJ FLAT # 4622 NEW DELHI 110070	ACA08/12/2000
132	056538	Mr. AMITAVA SUR COMSAT MAX LIMITED D 222/24 TTC INDUSTRIAL AREA MIDC NERUL VILLAGE SHIRWANE NAVI MUMBAI 400706	ACA 01/10/2002	143	075684	Mr. RAJMAL NAHAR A 403 SONI PARK I CHIKKUVADI SIMPOLI VILLAGE BORIVAL(W) MUMBAI 400092	FCA01/10/2002
133	057188	Ms. JOSEPH MARIA 104-60 QUEENS BLVD APT 7P FOREST HILLS NEW YORK NY 11375 U S A	ACA 01/10/2002	144	076374	Mr. BHARDWAJ DEEPAK F-2/28 NAND NIKETAN ESSAR TOWNSHIP HAJIRA SURAT 394270	ACA01/10/2002
134	057478	Mr. BANDYOPADHYAY ARIJIT VSNL L.V.S.B. KASHINATH DHURU MARG PRABHADEVI MUMBAI 400028	ACA 01/10/2002	145	076836	Mr. GULHATI ARVIND A 105 MANSARDVAR BLDG MOUNT PLEASANT ROAD MALABAR HILLS MUMBAI 400006	ACA 08/12/2000

146	078301	Mr BABU SINGH RAJPUROHIT C/O P R PUROHIT OFFICE NO 9 CHAMUNDA HERITAGE KOLDUNGRI SHAR ROAD BEHIND JEEVAN VIKAS HOSPITAL ANDHERI EAST MUMBAI 400069	ACA 01/10/2002	156	100432	Ms. SHAH FALGUNI VINODKUMAR 119/5 MASKATI MAHAL KANTILAL M SHARMA MARG MUMBAI 400002	ACA01/10/2002
147	079789	Mr RANKA SUDHIR KUMAR 605 A WING ADINATH APARTMENTS 8/281 TARDED ROAD GRANT ROAD (WEST) MUMBAI 400007	ACA 01/10/2002	157	100712	Mr. SAVLA SATISH GANGJI 192/12 PUSHPAKUNJ STATION ROAD WADALA MUMBAI 400031	ACA 01/10/2002
148	090038	Mr. KHURANA ARUN ABN AMRO BANK GLOBAL FINANCIAL MARKETS 82 SAKHAR BHAWAN NARIMAN POINT MUMBAI 400021	ACA 01/10/1993	158	100952	Mr. SRIDHAR RAGHAVAN C-2/13 CHITTARANJAN NAGAR RAJAWADI GHATKOPAR EAST MUMBAI 400077	ACA01/10/2002
149	092637	Mr. SHARMA YASHASVI PRICE WATER HOUSE COOPERS 1111-B RAHEJA CHAMBERS NARIMAN POINT MUMBAI 400021	FCA 01/10/2002	159	100998	Mr. AGARWAL ABHISHEK BALKUMAR 81 PRANEET JAYWANT PALKAR MARG OPP PODDAR HOSPITAL WORLI MUMBAI 400025	ACA01/10/2002
150	097053	Ms VOHRA SHALINI 902 TOWER - 7 SEA BREEZE TOWERS SECTOR - 16 NERUL NAVI MUMBAI 0	ACA 01/10/2002	160	101284	Mr. LYNDON LUIS DESA 209/339 SWANSTON STREET MELBOURNE VICTORIA - 3000 MELBOURNE 0 AUSTRALIA	ACA01/10/2002
151	097513	Mr DHAR ISHET D C RESIDENCE HOUSE OPP SESSIONS HOUSE HOSHIARPUR 0	ACA 01/10/2002	161	101358	Ms. SHAH RAJVI L 2 OSWAL COLONY SUMMAIR CLUB ROAD JAMNAGAR 361005	ACA01/10/2001
152	100075	Mr. RAO PRADEEP VITHAL A 701 BRHMA NIVAS MHADA MULUND EAST MUMBAI - 400081	ACA 08/12/2000	162	101483	Mr. KAVANKAL SAJI MATHAI ABN AMRO BANK N V PRIVATE BANKING DEPT P O BOX - 2667 U A E DUBAI 0	ACA01/10/1999
153	100107	Mr. SAMSI ANIRUDH AROON A/11 ANAND COURT DR V RAGHUNATH MARG BANDRA (WEST) MUMBAI 400050	ACA 01/10/2002	163	101688	Mr. MURARKA RAJESH SATYANARAYAN ASHIRWAD BUILDING 2ND FLOOR ABOVE BANK OF MAHARASHTRA S N ROAD ANDHERI (E) MUMBAI 400069	ACA01/10/2002
154	100227	Mrs. SHAMALA NILESH POTNIS C-12 VITTASANCHAY SOCIETY RCF ROAD NEAR VASHI GAON CHEMBUR MUMBAI 400074	ACA 01/10/2002	164	101805	Mr. LAD NARENDRA G 355 NINAD BLDG NO 7 NEAR BAHVISHYA NIDHI BHAVAN SERVICE ROAD BANDRA (EAST) MUMBAI 400051	ACA 01/10/2002
155	100381	Mr. PANDA JITENDRA KUMAR A-101 STERLING OFF LINK ROAD KANDERPADA DAHISAR (WEST) MUMBAI 400068	ACA 01/10/2002	165	102194	Mr. BHATT AJAY DHARMADATT 103 RAJ BINDU CO-OP HSG SOC OPP ATUL TOWER MATHURADAS EXTN ROAD, KANDIVALI-W MUMBAI 400067	ACA 01/10/2002

166	102219	Mr. SHAH KEYUR BHARAT A-504 VAISHALI APARTMENT NEXT TO CLUB AQUARIA DEVIDAS LANE BORIVALI WEST MUMBAI 400103	ACA 01/10/2002	176	103675	MRS MANISHA YOGESH LAKHANI B-504 GREENWOODS NEAR SHIMPOLI TELEPHONE EXCHANGE SHIMPOLI ROAD CHIKUWADI BORIVLI(W) MUMBAI 400092	ACA 01/10/2002
167	102336	Mr. BAJIT KUMAR PATRO M/S ATTA (KENYA) LTD P.O.BOX 83272 MOMBASA 0 KENYA	ACA 01/10/2002	177	103708	Mrs. ASHWINI S SAWRIKAR KPMG, KPMG HOUSE KAMALA CITY SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL MUMBAI 400013	ACA 01/10/2002
168	102348	Ms. HUZURBAZAR ASHWINI GIRISH B/8 BHAGYODAYA CO OP STY TPS 6 LINKING RO EXT PLOT NO 9/10 SANTA CRUZ (WEST) MUMBAI 400054	ACA 01/10/2002	178	103773	Mr. RAI BRIJESH.H. A-18, "NIWARA" L.B.S. ROAD MULUND (W) MUMBAI 400080	ACA 01/10/2002
169	102840	Mr. GANDHI DHARMESH VINOD 901 ADARSH TOWER ADARSH VIHAR COMPLEX OFF MARVE ROAD MALAD (W) MUMBAI 400064	ACA 01/10/2002	179	103924	Ms. AGARWAL SHWETA HARISHANKER D/62, VRINDAVAN AGRA ROAD GHATKOPAR (W) MUMBAI 400086	ACA 01/10/2002
170	102851	Mr. GHAI JITIN SINGH AJPAL SINGH 717, SUNDER VILLA 12TH ROAD, KHAR (WEST) MUMBAI 400052	ACA 01/10/2002	180	104057	Mr. POTDAR VINAY BHARAT C/O COL N P NANDA B/502 AKSHARDHAM LINK ROAD MALAD (WEST) MUMBAI 400064	ACA 01/10/2002
171	103122	Ms. SINGH RAGINI RAJ KISHORE BUNGALOW NO.1, B.P.C.L. COLONY AZIA BAUG CHEMBUR MUMBAI 400074	ACA 01/10/2002	181	104100	Mr. BHATIA TARUN LAXMANDAS 145 FARMLAND RAMDESPETH NAGPUR 440010	ACA 01/10/2002
172	103191	Ms. CHANOIRAMANI RESHMA KISHIN STANDARD CHARTERED BANK 2 FLOOR 90 M G ROAD FORT MUMBAI 400001	ACA 01/10/2002	182	104114	Mr. ABHISHT ARORA FLAT NO.71 SHANTINIKETAN, PRABHAT COLONY SANTACRUZ (E) MUMBAI 400055	ACA 01/10/2002
173	103514	Mr. KAPOOR VISHAL VINOD C/O J P MORGAN TECHNOPOLIS KNOWLEDGE PARK CHAKALA MIDC ANDHERI (EAST) MUMBAI 400093	ACA 01/10/2002	183	104254	Mrs. MAMTA KASHYAP GANATRA 202, LABHSMRITI BAPTISTA ROAD VILE PARLE (W) MUMBAI 400056	ACA 01/10/2002
174	103534	Mr. DHURVAPRAKASHA SHETTY FLAT NO 703 BLDG NO 3D VAISHALI NAGAR KESHAVRAO KHADEY MARG MAHALAXMI MUMBAI 400011	FCA 01/10/2002	184	104300	Mr. NANAWARE SANJAY CHANDRAKANT 2/67 GUJARAT REFINERY TOWNSHIP JAWAHAR NAGAR VADODARA 391320	ACA 01/10/2002
175	103642	Mr. DILIP GOYAL ASIAN MARKET'S SECURITIES P.LTD 29-A YASHOOHAM ENCLAVE FILM CITY ROAD GOREGAON (E) MUMBAI 400063	ACA 01/10/2001	185	104302	Mr. KINGER DEEPAK KANAYALAL 18TH FLOOR EXPRESS TOWERS NARIMAN POINT MUMBAI 400020	ACA 01/10/2002
				186	104719	Mr PRATIK DEEPAKBHAI SHAH 224 PARADISE COMPLEX SAYAJIGINJ VADODARA 0	ACA 01/10/2002

187	105017	Ms KAMANA RAM GOPAL SINGH C-503, ROCK CASTLE KANDERPADA LINKING ROAD, OFF I C COLONY DAHISAR WEST MUMBAI 400068	ACA 01/10/2002	197	107222	Ms VIBHA MADHUKAR POTDAR D601 SUNFLOWER BLDG GUNDECHA VALLEY OF FLOWER THAKUR VILLAGE KANDIVALI EAST MUMBAI 400101	ACA 01/10/2002
188	105416	Mr AGARWAL MANISH BOX NO 34910 NAIROBI 00100 GPO KENYA	ACA 01/10/2001	198	107252	Mr HARSH RANJIT ACHARYA 12 BHARAT MAHAL LAJPATRAI ROAD VILE PARLE WEST MUMBAI 400056	ACA 01/10/2002
169	105554	Mr AMUL SURESH LALWANI 108-A, SATYAPURAM SOCIETY PUNE SASWAD ROAD PHURSUNGI PUNE 412308	ACA 01/10/2002	199	107424	Ms SUBHASHINI GANAPATHY 14 LOVELL DRIVE PLAINSBORNE NJ 08536 USA	ACA 08/12/2000
190	105624	Mr RAVI SHANKAR AYYAGARI B-302, JUHU, SECTOR 2, VASANT NAGRI (E) VASAI 401205	ACA 01/10/2002	200	107463	Mr SANDEEP KAILASH SITANI 303 HINGLAJ CHS LTD VINAYAK MANDIR ROAD DIST THANE BHAYANDAR WEST BHAYANDAR	ACA 01/10/2002
191	105810	Mr KAMLESH PRAGJI KHANDOR 5/B KAMAL KUNJ 143 VALLABH BAUG LANE GHATKOPAR EAST MUMBAI 400077	ACA 01/10/2002	201	107479	Mr. RAVI GOVIND DOLE F-1 NAVGEETHA SOCIETY ST ANTHONY ROAD CHEMBUR MUMBAI 400071	ACA 01/10/2002
192	106381	Ms NITA MOTIRAM KEWALRAMANI 82-B, SINDUWADI M G ROAD GHATKOPAR - EAST MUMBAI 400077	ACA 01/10/2002	202	107633	Ms SHAMA ASHOK NAIK PANVELKAR ASHIRVAD HOUSE NO 549 VODLEM BHAT TELEIGAO TALEIGAO GOA 403002	ACA 01/10/2002
193	106710	Mr SABOO PREMPRAKASH 183 VARSHA SOCIETY AJWA ROAD VADODARA 390019	ACA 01/10/2002	203	108023	Mr SANDIP RAJENDRA SHAH 7/71, VRINDAVAN SOCIETY SHANKER SHETH ROAD PUNE 411037	ACA 01/10/2002
194	106821	Mr. MOHAMMAD MUZAMMIL 533-A, MURTUZA COMPOUND GAURI PADA DIST : THANE BHIWANDI 421302	ACA 01/10/2002	204	108052	Mr LADDHA SATYANARAYAN 26 KAILASH DHAM SOCIETY NEAR ABHILASHA CHAR RASTA NEW-SAMA ROAD VADODARA 390008	ACA 01/10/2002
195	106894	Mr RAJESH PARSHOTTAM BALSARA 12/13, FRANK O'MELLO CHAWL J B M ROAD, NR D, MELLO PLAYGROUND AMBOLI ANDHERI - WEST MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002	205	108099	Ms ANITA NARAYANA PAI NO 2 SATYA BHAVAN OPP 4TH PASTA LANE COLABA MUMBAI 400005	ACA 01/10/2002
196	107090	Mr LEO CHARLES IGNATIUS D'SOUZA 73/A BANGANGA ROAD WALKESHWAR MUMBAI 400006	ACA 01/10/2002	206	108153	Mr RAJNEESH SURESH CHANDRA JAISWAL B-109 ROLEX SHOPPING CENTRE OPP PRASHANT HOTEL STATION ROAD GOREGAON WEST MUMBAI 400062	ACA 01/10/2002

207	108189	Mr. MANOJ KUMAR AGARWAL KUBER VILLA 2 NAVYUG SOCIETY 5TH ROAD J V PD SCHEME VILE PARLE WEST MUMBAI 400049	ACA 01/10/2002	217	108668	Ms NIVEDITA AVINASH DESHPANDE SMITA APTS #8 - 9 40/2, BHONDE COLONY, ERANDAWA, PUNE 411004	ACA 01/10/2002
208	108201	Mr VIRAL BHUPENDRA SANGHANI 10/21, VERMA NAGAR OLD NAGARDAS RD ANDHERI-EAST MUMBAI 400069	ACA 01/10/2002	218	108773	Mr. N V ARUNACHALAM C/101 SHRADDHA APPT GUNJAN, GIDC VAPI 396195	ACA 01/10/2002
209	108249	Mr DHARMESH SURESHBHAI SHAH C/206 BHOOMI ENOLAVE MAHAVIR NAGAR DAHANUKAR WADI KANDIVALI WEST MUMBAI 400067	ACA 01/10/2002	219	109492	Ms VINITA DHANRAJ PHERWANI 204-B, SABARI CASTLE, CHIRAI, RC MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 01/10/2002
210	108265	Mr BALRAJ HIMATLAL KHAKHAR A/7 NAVNEET BHARDAWADI J P ROAD ANDHERI [W] MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002	220	109591	Mr ASHRAF ABDUL AZIZ CALCUTTAWALA STANDARD CHARTERED BANK MORTGAGES CREDIT DEPARTMENT 462 PHOENIX CENTRE PHOENIX MILLS COM. 'OUND SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL MUMBAI 400013	ACA 01/10/2002
211	108326	Mr PURSHOTTAM N SHARMA 404 GREEN AVENUE 1 RAHEJA ESTATE KULUPWADI BORIVALI EAST MUMBAI 400066	ACA 01/10/2002	221	110054	Ms KOEL SANTIRANJAN DUTTA 1106 TOWER 2, CHALLENGERS THAKUR VILLAGE KANDIVALI EAST MUMBAI 400101	ACA 01/10/2002
212	108342	Mr MEHUL GIRISH SHROFF 603 LIBERTY AVENUE JERSEY CITY NJ 07307 USA	ACA 01/10/2001	222	110177	Mr SAKET MEHRA B-301 INDRAPRASTHA TOWERS VASANT NAGRI VASAI (EAST) DIST THANE VASAI 0	ACA 01/10/2002
213	108387	Mr KIRTIKUMAR SURESH BANDEKAR 123/4053 NEHRU NAGAR KURLA EAST MUMBAI 400024	ACA 01/10/2002	223	110423	Mr. JAIMAN ANIL MEHTA 39/11 BHARTI BEHIND DON BOSCO KINGS CIRCLE MUMBAI 400019	ACA 01/10/2002
214	108426	Mr VIVEK G SHUKLA 121, RAMJHARUKHA V P ROAD, ANDHERI W MUMBAI 400058	ACA 01/10/2002	224	110426	Ms. KANAN AMAL ZAVERI AURNODAYA SAROJINI ROAD VILE PARLE-W MUMBAI 400056	ACA 01/10/2002
215	108521	Mr KAPIL KAMAL JAIN 1002, GANESH DARSHAN, OPP. SHRI SAGAR HOTEL, L.T. RD, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092	ACA 01/10/2002	225	110594	Ms. DEEPA MARY CHERIAN 402 A NESTLE APTS NEAR BOMBAY DYING MILLS COMPOUND WORLI MUMBAI	ACA 01/10/2002
216	108582	Mr SANTOSH KANHAIYALAL VYAS B-18 FRIENDS PARK SENAPATI BAPAT ROAD CHHATURSHINGI PUNE 411016	ACA 01/10/2002	226	110632	Mr RAJESH VASANJI GALIA N R DOSHI & CO P O BOX NO 13742 DUBAI 0 UAE	ACA 01/10/2002
				227	110648	Mr AMIT GHANSHYAM RATHI 124 TRINITY MEADOWS 76 BELANDUR VILLAGE BANGALORE 560037	ACA 01/10/2002

228	110691	Mr RAHUL PRADIF PRATINIDHI OM AVISHKAR WING C FLAT NO 714 CTS NO 1127 SNEH PARADISE COMPLEX NR MIT COLLEGE KOTHRUD PUNE 411038	ACA 01/10/2002	234	111858	Mr. PRAKASH CHANDRA SINGHANIA C/O 796 SADASHIV PETH DHAN LAXMI PLAZA PUNE 411030	ACA 01/10/2002
229	110712	Mr JATINDERKUMAR JAGDISHRAI AGARWAL 405 STERLING CHAMBERS POONA STREET MUMBAI 400009	ACA 01/10/2002	235	200403	Ms. RAJASHRI K 11/2 SHIV NIVAS NEAR BANK OF MADURA R B MEHTA MARG GHATKOPAR (E) MUMBAI 400077	ACA 01/10/2002
230	110747	Mr SANDEEP JAYANT POTDAR 4 PADWAL BHAVAN OPP: RAILWAY STATION CHUNABHATTI MUMBAI 400022	ACA 01/10/2002	236	201242	Mr. ANAND K SHAHA B/7, FLAT NO.5, GROUND FLOOR, VEENA NAGAR NO.2, VEENA NGAR, L.B.S. MARG, MULUND (WEST) MUMBAI 400080	ACA 01/10/2002
231	110846	Mr. PIYUSH JAJOO C/O INFOSYS TECHNOLOGIES LTD PLOT NO 1 PUNE INFOTECH PARK HINJAWADI TAL MULSHI PUNE 411027	ACA 01/10/2002	237	203918	SHRI P K SADAGOPAN MANAGER -MIS GUJARAT AMBUJA CEMENTS LTD CST ROAD NR VIDYANAGARI KALINA SANTACRUZ EAST MUMBAI 400098	ACA 01/10/1999
232	110903	Mr. AMITKUMAR LALLUBHAI MISTRY A 03 SILVERSFRAK SUNDERNAGAR AGASHI ROAD DIST THANE VIRAR WEST VIRAR 401303	ACA 01/10/2002	238	206978	Mr. ROSHAN NAMMEN MATHEW GLOBAL TRUST BANK SHREEJI CHAMBER MUMBAI 400004	ACA 01/10/2001
233	110926	Mr BADRINARAYAN S 17/B, CHETAN NAVGHAR ROAD MULUND (E) MUMBAI 400081	ACA 01/10/2002	239	207914	MR SWAIN SRIDHAR VILLA HOTELS 03-04 STO TRADE CENTRE ORCHID MAGU MALE REPUBLIC OF MALDIVES 0 INIDA	ACA 01/10/1999

A/L. Haldia
(Dr. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

Chennai-600 034. the 24th July 2003

(Chartered Accountants)

3SCA(5)/3/2002-2003: With reference to this Institute's Notification Nos.4SCA(1)/4/1982-83 dated 31st March 1983, 3SCA(4)/12/1989-90 dated 25th October 1989, 3SCA(4)/8/1990-91 dated 1st December 1990, 3SCA(4)/3/1993-94 dated 11th January 1994 3SCA(4)/4/1994-95 dated 22nd February 1995 3SCA(4)/3/1996-97 dated 11th December 1996, 3SCA(4)/3/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999, 3SCA(4)/6/1998-1999 dated 8th June 1999, 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 17th April 2000, 3SCA(4)/5/2000-2001 dated 12th December 2001, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15th January 2001, and 3SCA(4)/5/2001-2002 dated 21st May 2002 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
1	007696	Mr. BALASUBRAHMANYAN G ACA 5, (OLD NO 3/1) SECOND SEAWARD ROAD VALMIKI NAGAR THIRUVANMIYUR CHENNAI 600041	01/10/2001	8	014354	Mr. MALHOTRA NARESH KUMAR ACA 31, 2ND MAIN DEFENCE COLONY INDIRA NAGAR BANGALORE 560038	01/10/2001
2	009576	Mr. SUBRAMANIAN N ACA 5-12-3, ARIHANT MAJESTIC TOWERS 216 JAWAHARLAL NEHRU SALAI KOYAMBEDU CHENNAI 600107	01/10/2001	9	015758	Mr. SHAHABUDEEN M FCA H-71/F2 MULLAI APARTMENTS THIRUVALLUVAR NAGAR THIRUVANMIYUR EXTN CHENNAI 600041	01/10/2001
3	009695	Mr. VENKATASUBRAMANIAN P V FCA SF-2, VASANTH APPTS. 19 (OLD NO 11) SECOND CRESCENT PARK RD. IV MAIN, GANDHI NAGAR ADYAR, CHENNAI 600020	01/10/1998	10	016280	Mr. GEORGE JOHN FCA 'MATTAPALLIL' 49/1878-B EDAPALLY RAGHAVAN PILLAI ROAD EDAPALLY PO KOCHI 682024	01/10/2001
4	011331	Mr. SRINIVASAN R FCA NEW NO 2/172 (OLD NO 2/488) RAJAH GARDENS KOTTIVAKKAM CHENNAI 600041	01/10/1990	11	018085	Mr. SUBRAMANIAN K K ACA NO 2, SEVENTH CROSS STREET SASTRI NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2001
5	012462	Mr. RAMANATHAN RAMANATHAN FCA 3/110-A, NEW FAIRLANDS EXTN. M G ROAD SALEM 636016	01/10/2001	12	018431	Mr. IPE P C FCA FINANCIAL CONTROLLER AL FUTTOOH INVESTMENT CO P O BOX 3389, SAFAT 13034 KUWAIT	08/12/2000
6	012950	Mr. GOPALAN A R FCA 887, 31ST STREET 18TH MAIN ROAD I BLOCK, ANNA NAGAR CHENNAI 600040	01/10/2001	13	018759	Mr. MUKUNDAN A FCA NO:10 II FLOOR KANAKAPURA ROAD JAYANAGAR (E), VII BLOCK BANGALORE 560082	01/10/2001
7	013214	Mr. KURIEN P K FCA CHEMPIKULAM PATTOM THIRUVANANTHAPURAM 695004	08/12/2000	14	018981	Mr. SHEKER V ACA 18, PORTNEUF COURT TORONTO, ONTARIO M5A 4E4 CANADA	01/10/2001
				15	019562	Mr. SHANKAR S ACA NO 380 16TH A MAIN 4TH BLOCK T, JAYANAGAR BANGALORE 560041	01/08/1982

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
16	019710	MR. SANKARA VENU GOPALA RAO ACA D NO:2/2/647/182/A3 FLAT NO:205, HIMA SHIVA APTS. SHIVAM ROAD BAGH AMBERPET HYDERABAD 500013	01/08/1982
17	020074	Mr. NARAYANAN R ACA 3/7, AYODHYA COLONY VELACHERY CHENNAI 600042	01/10/2001
18	020100	Mr. KUMUD NATH P A V N ACA COST & MANAGEMENT ACCOUNTANT BOTSWANA POSTAL SERVICES P O BOX 402 225, PLOT 6854/20 GABORONE BOTSWANA SOUTH AFRICA	01/10/1998
19	020146	Mr. ARCHIBALD MAXIM JOSEPH D SOUZA ACA C-3 PARVATHI ANANTH APARTMENTS OLD KENT ROAD MANGALORE 575001	08/12/2000
20	020419	Mr. MATHEW T J ACA THUMPASSERY HOUSE 43/2176A S R M ROAD KOCHI 682018	05/12/1994
21	021111	Mr. RAGHURAMAN S FCA 1520 GLASTONBURY DRIVE PLANO T X 75075 U S A	08/12/2000
22	021137	Mr. BOYI REDDY J FCA 8-3-899/33, SBH COLONY SRINAGAR COLONY POST HYDERABAD 500073	01/10/2001
23	021505	Mr. RAMACHANDRAN C N FCA C/O KPMG FAKHRO PUBLIC ACCOUNTANT & CONSULTANT P O BOX 710, MANAMA BAHRAIN	01/10/2001
24	021549	Mr. PADMANABHAN R ACA 304/33 MHADA JOGESHWARI (W) MUMBAI 400102	01/10/2001
25	021725	Mr. NARAYANAN K ACA DIRECTOR CHANTI FINANCE LTD 15 WHITEHALL LONDON SW1A ZDD U K	08/12/2000
26	021814	Mr. SWAMINATHAN S FCA APARTMENT NO 4 'SREYAS YOGAM' NO 4 (OLD NO 34) SRIRAM NAGAR NORTH STREET ALWARPET CHENNAI 600018	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
27	021912	Mr. KOTESWARA RAO N ACA H NO 3-6-40/4 (PLOT NO 200) VIVEKANANDA NAGAR COLONY KUKATPALLY POST HYDERABAD 500072	01/10/1989
28	022662	Mr. RANGANATHAN P K ACA # 1001-B (SECOND FLOOR) 17TH 'D' CROSS 2ND STAGE INDIRANAGAR BANGALORE 560038	01/10/2001
29	022850	Mr. PRASAD P V L N FCA FLAT # 403 AL-KAUSER APARTMENTS STREET # 1, WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD 500026	01/10/1999
30	023235	Mr. KOTESWARA RAO K ACA FLAT NO 4, ADITYA APARTMENTS 23, GOPALA MENON STREET KODAMBAKKAM CHENNAI 600024	08/12/2000
31	023258	Mr. RAJ KUMAR K ACA SRINAGARA APARTMENTS NO 2-B, FIRST MAIN ROAD INDIRANAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2001
32	023284	Mr. VARADHAN V ACA DIRECTOR OF ACCOUNTING MERISTAR HOTELS AND RESORTS INC 5605 MAC ARTHUR BLVD SUITE 1200 IRVING T X 75038 U S A	08/12/1997
33	023953	Mr. SAMPATH R ACA 12/1, KAMATCHIPURAM FIRST STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	08/12/2000
34	023959	Mr. KISHAN PRASAD P FCA NO 87, ROAD NO 72 PRASHASAN NAGAR JUBILEE HILLS HYDERABAD	01/10/2001
35	024243	Mr. MURALI R ACA 38, (OLD NO 8) DURAI SWAMY REDDY STREET TAMBARAM WEST CHENNAI 600045	01/10/2001
36	024298	Mr. SAIRAM N ACA FLAT 2A CRESCENT PARK APTS II FLOOR NO 11 CRESCENT PARK STREET T NAGAR, CHENNAI 600017	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
37	024614	Mr. GUNASEKARAN R FCA P R S TOWERS 1 FLOOR 18A KUMARAN ROAD (ABOVE CENTWIN SHOW ROOM) TIRUPUR 641601	01/10/1990
38	024815	Mr. NAINAN MATHEW K ACA 19 A/1 ALFRED PLACE COLOMBO 3 SRILANKA	01/10/1996
39	025030	Mr. PRATAP SINGH T ACA FLAT NO 101 MANISADAN APTS VIDYA NAGAR HYDERABAD	08/12/2000
40	025364	Mr. VIJAYA BHASKAR RAO P ACA 202 MATHA TOWERS SRIRAM NAGAR ROAD RAJEEV NAGAR YOUSUFGUDA HYDERABAD 500045	01/10/1993
41	025627	Mr. SHANMUGA GANESAN R ACA FINANCIAL CONTROLLER APOLLO STUDIO & STORES LLC P O BOX 2958 DUBAI U A E	01/10/2001
42	025982	Mr. SARATHY T R FCA FLAT NO.2 NEW NO.8 MADLEY ROAD II STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2001
43	026180	Mr. SASI K S ACA FINANCE MANAGER GULF ALLIED INDL. SERVICES CO LTD P O BOX 1135 AL JUBAIL 31951 K S A	01/10/2001
44	026248	Mr. ANIL KUMAR MUTHYA ACA 2/F, FRONT PORTION 38-40, HILLWOOD ROAD TSIMSHATSUI HONG KONG	01/10/1998
45	026757	Mr. SUNDARAM S M ACA 6-G, SOWBAGYA APARTMENTS MAVOOR ROAD KOZHIKODE 673001	01/10/2001
46	027856	Mr. PRABHAKAR KAMATH P ACA KAMATH AUDITING BOX 23703 SHARJAH U A E	01/10/1993
47	028041	Mr. MUTYALA RAMBABU ACA QUARTER NO 210-B SECTOR - I UKKUNAGARAM VISAKHAPATNAM 530032	01/10/1996

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
48	028069	Mr. THOMAS GEORGE P ACA FINANCIAL ANALYST WABCO STANDARD TRANE B V P O BOX 31000 DUBAI U A E	01/10/2001
49	028156	Mr. NARASIMHA REDDY C FCA NO 6, BANGALORE DAIRY QUARTERS DR.M H MARIGOWDA ROAD BANGALORE 560029	01/10/2001
50	028171	Mr. RAMANJANEYULU P FCA POST BOX NO.365 SALALAH - CODE 211 SULTANATE OF OMAN	08/12/1997
51	028276	Ms. VEENA M R ACA 002, MUSURI APARTMENTS #8, SERVICE ROAD DOMLUR LAYOUT BANGALORE 560071	08/12/2000
52	028715	Ms. USHA K R ACA CHARTERED ACCOUNTANT C-767, AECS LAYOUT KUNDALAHALLI BANGALORE 560037	01/10/2001
53	028766	Mr. KALAISELVAN P ACA D-14/2, THIRVALLUVAR ROAD SHANMUGAPURAM PALANI 624601	01/10/2001
54	028826	Mr. NARAYANAN R FCA C/O MR T R SUBRAMANIAN 82, ROYAR THOPPU SRIRAMAPURAM SRIRANGAM TIRUCHIRAPALLI 620006	01/10/2001
55	028869	Mr. SWAMIMALAI SRINIVASAN SRIDHAR ACA 46/4 THIRD STREET ABHIRAMAPURAM CHENNAI 600018	08/12/2000
56	028923	Mr. MOHAN R ACA P O BOX 8124 ACCRA - NORTH GHANA	08/12/2000
57	028962	Mr. SITA RAMANJANEYA VARA PRASAD A FCA GROUND FLOOR, SRINIVASA SADAN BEHIND PADMAVATHI PLAZA BHAGYANAGAR COLONY OPP: K P H B KUKATPALLY RANGA REDDY DISTRICT HYDERABAD 500072	01/10/2001
58	029029	Mr. GOPIRAJ K V FCA FINANCE CONTROLLER JOHNSON & JOHNSON MIDDLE EAST P O BOX NO 9294 DUBAI U A E	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
49	029155	Mr. KANNAN S R ACA FINANCIAL CONTROLLER ALI BIN EBRAHIM ABDUL AAL P O BOX 507 MANAMA STATE OF BAHRAIN	08/12/2000
50	029283	Mr. BALARAMAN K ACA EMEROLD PARK 49/1, SADHULLA STREET T NAGAR CHENNAI 600017	08/12/2000
61	029701	Ms. GEETHA SANKER ACA C/O S SHANKER RAJHAN EMIRATES CONTRACTING CO P O BOX NO 4583 DUBAI U A E	08/12/2000
52	029157	Mr. MILTON G FCA SENIOR FINANCE MANAGER ALHAMRANI GROUP OF COMPANIES P O BOX 1229, JEDDAH 21431 K S A	08/12/2000
63	029813	Mr. KALYAN GUPTA FCA PLOT NO 59, BANJARA GREEN ROAD NO 12 BANJARA HILLS HYDERABAD 500034	01/10/2001
64	029951	Mr. RAGHU R ACA 10501 SILK OAK DRIVE VIENNA V A 22182 U S A	01/10/2001
55	030656	Mr. JACOB GEORGE ACA CONSULTANT - SYSTEMS SSI CANADA 43 PINEWAY BLVD NORTH YORK ONTARIO M2H 1A5 CANADA	08/12/2000
66	035906	Mr. KRISHNAN RAMACHANDRAN ACA 316 CALIFORNIA AVENUE # 523 RENO, N V 89509 U S A	01/10/2001
67	040726	Mr. MINESH DINESH CHANDRA DESAI ACA 222/3/A, MANJUNATHA LAYOUT MURUGESHPALYA BANGALORE 560017	01/10/2001
68	042871	Mr. ANIL T N ACA GRANT THORNTON ACUMEN P O BOX 1157, GABORONE BOTSWANA	01/10/2001
59	043753	Ms. PEREIRA SHERYL ACA PEREIRA BUILDING 95/1 SAROJINI DEVI ROAD SECUNDERABAD 500003	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
70	051191	Mr. SANKARAN RANGANTHAN FCA 14/500, 18TH STREET 4TH SECTOR K K NAGAR CHENNAI 600078	01/10/1998
71	053808	Dr. ARINDAM MITRA ACA GARDEN TERRACE KOMAZAWA # 7 2-18-26 KOMAZAWA SETAGAYA-KU TOKYO 154-0012 JAPAN	01/10/2001
72	054605	Mr. SURENDRA KUMAR SIPANI ACA C/O I T C LIMITED COMMERCIAL DEPARTMENT P O: PULIKESHI NAGAR BANGALORE 560005	01/10/2001
73	054895	Mr. DURGAVAJJULA SIVAJEE ACA CORPORATE AUDITOR M/S MOHAMMED ENTERPRISES (T) LTD P O BOX 20660 DAR-ES-SALAAM TANZANIA EAST AFRICA	08/12/2000
74	059518	Ms. CHITRA APARNA Y ACA 3000 TRINITY DRIVE APT NO 83 LOS ALAMOS NM 87544 U S A	01/10/2001
75	060489	Mr. KUNDRA ATUL ACA K P M G P O BOX 4473 DOHA QATAR	01/10/2001
76	200027	Mr. PRASADA RAO N FCA CHARTERED ACCOUNTANT 8-3-1013, PLOT NO 29 FLAT NO 301, ZEENAT RESIDENCY MAIN ROAD, SRINAGAR COLONY HYDERABAD 500072	01/10/2001
77	200288	Ms. RADHA RANI G ACA FLAT NO 3 II FLOOR B BLOCK PRABHALA ENCLAVE MAHARANIPET VISAKHAPATNAM 530002	01/10/1998
78	200299	Mr. RANJITH KUMAR R ACA MOORES ROWLAND (PTY) LTD ACCOUNTANTS & COMPANY SECRETARIES ACME HOUSE, 173, KHAMA 1 AVENUE PRIVATE BAG 23, LOBATSE BOTSWANA	01/10/2001
79	200340	Mr. RAMAN P K ACA HEAD CREDIT & CASH MANAGEMENT OPERATIONS GULF STANDARD CHARTERED BANK P O BOX 999 DUBAI U A E	08/12/2000

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
80	200383	Mr. KAISER B N ACA 565, ANNA SALAI TEYNAMPET CHENNAI 600018	01/10/2001
81	200392	Mr. SUBRAMANIAN K ACA 213 VARS FANTASY FIRST MAIN KODIHALLI OFF: 80 FEET ROAD INDIRANAGAR BANGALORE 560008	08/12/2000
82	200452	Mr. SANKARA SUBRAMANIAN R ACA INVESTMENT ANALYST GHOBAH INVESTMENT CO LTD P O BOX 2929 DUBAI U A E	01/10/2001
83	200532	Mr. KASIRAMAN S FCA FLAT NO 7 JANANI OLD NO 32/NEW NO 78 MAHADEVAN STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	08/12/2000
84	200618	Mr. VISHWANATH K ACA C/O STAR PLUS LTD RM 503-505, TUNG WAH MANSION 199-203, HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG	01/10/2001
85	200740	Ms. GAYATHRI R ACA FLAT NO 3-B, LCS SRINIVAS 51 A VELACHERY HIGH ROAD VELACHERY CHENNAI 600042	01/10/1998
86	200786	Mr. KARNAJAM PATTABHI SEETHA RAMA RAO ACA 4-160, PANDARIPURAM GUNTUR DIST CHILAKALURIPET 522616	01/10/2001
87	200806	Mr. RAMESH CHANDRAN ACA 111 JALAN TERASEK 2 BANGSAR BARU KUALA LAMPUR 59100 MALAYSIA	01/10/2001
88	200828	Mr. KRITHIVASAN R ACA 29, NAICKAMAR STREET FLAT I-F RAINBOW - PRAVEEN APARTMENTS WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	01/10/2001
89	200977	Mr. SARATHI S ACA SR. MANAGER FIN. & COMPANY SECY M/S GABRIEL INDIA LIMITED NO.1 SRI AUROBINDO MARG NEW DELHI 110016	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
90	201127	Ms. BHARATHI M V ACA 1-7-29/2/1/D SAI MADHUKUNJ APARTMENTS ZAMISTANPUR HYDERABAD 500048	01/10/2001
91	201360	Mr. NARESH KUMAR APPANA ACA DEPUTY MANAGER - FINANCE FUELS REFINERY HINDUSTAN PETROLEUM CORPN.LTD MUMBAI REFINERY B P PATIL ROAD MUMBAI 400074	08/12/2000
92	201507	Mr. RAMESH V S ACA JAIN AASHIANA PHASE I FLAT NO. F-12 NO. 13 VEMBULIAMMAN KOIL STREET VIRUGAMBAKKAM WEST K K NAGAR PO CHENNAI 600078	01/10/2001
93	201690	Mr. BINOD HARIHARAN SHANKAR ACA ANDERSEN & CO P O BOX 11615 DUBAI U A E	01/10/2001
94	201904	Mr. CHERIAN P C ACA MICHIGAN TREASURY 360 W. BUTTERFIELD ROAD # 270 ELMHURST I L 60126 U S A	01/10/2001
95	202083	Mr. NATARAJAN RAMANATHAN ACA 9-A, THIRD STREET THIRUVALLUVAR NAGAR RAMANATHAPURAM COIMBATORE 641045	01/10/2001
96	202270	Mr. SABESAN S ACA 637, 3RD CROSS NEAR SWIMMING POOL MAHALAKSHMI LAYOUT BANGALORE 560086	08/12/1997
97	202296	Mr. VIJAYARAMAN K R ACA NO 13-A MIG FLATS P T RAJAN ROAD K K NAGAR CHENNAI 600078	08/12/2000
98	202548	Mr. NARAYANA B L ACA 4730, NW 102 AVENUE UNIT # 108 MIAMI F L 33178 U S A	01/10/2001
99	202606	Mr. THIYAGA THURAIIVAN S ACA PLOT NO 104, ALSA TOWN VILLA ARCOT ROAD, VALASARAVAKKAM CHENNAI 600087	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
100	202622	Ms. GEETHA JACOB ACA 43 PINEWAY BLVD NORTH YORK ONTARIO M2H 1A5 CANADA	08/12/2000
101	202649	Mr. NAGARAJAN M N S ACA 157/6, FIRST MAIN ROAD SHAMANNA GOWDA LAYOUT SARASWATHIPURAM ULSOOR BANGALORE 560008	01/10/1999
102	202662	Mr. RAM PRASAD M ACA ERNST & YOUNG P O BOX 140 MANAMA STATE OF SAHRAIN	01/10/2001
103	202687	Mr. MANI KANTESWARAN K ACA SENIOR MANAGER - ACCOUNTS APTECH LIMITED REGIONAL OFFICE APPLE HOUSE NO 64, CATHEDRAL ROAD CHENNAI 600086	01/10/2001
104	202738	Ms. LATHA S ACA 19/2 48TH STREET 9TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	01/10/2001
105	202807	Mr. PUTTIGE VADHIRAJA ACA FLAT NO 205, BUILDING NO 4 SHANTIPARK APARTMENTS JAYANAGAR 9TH BLOCK BANGALORE 560069	01/10/2001
106	202845	Mr. RAM KUMAR CHILUKURI ACA 403 JAGRUTH TOWERS STREET 5 LANE 2 SHYAMLAL BUILDINGS BEGUMPET HYDERABAD 500016	01/10/2001
107	202890	Mr. VINOD RAMAN ACA ASSISTANT MANAGER MOORE STEPHENS P O BOX 933 POSTAL CODE 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	01/10/2001
108	203183	Mr. RAJENDIRAN V ACA GROUP CHIEF ACCOUNTANT FALCON GROUP P O BOX 43832 ABU DHABI U A E	01/10/2001
109	203258	Mr. VENKATA REDDY CH ACA C/O GURAVA REDDY E 60 FEET ROAD BANK COLONY PRAKASH NAGAR GUNTUR DIST NARASARAOPET 522601	08/12/2000

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
110	203301	Ms. SHARADA NAGARAJAN ACA CONSULTANT ORACLE FINANCIAL CONSULTANTS HYPERLINK IT P O BOX 43178 ABU DHABI U A E	08/12/2000
111	203378	Mr. ANAND RAO T V ACA M/S REZAYAT FLOVER COMPANY LTD P O BOX 90 ALKHOBAR 31952 K S A	08/12/2000
112	203581	Mr. HIREMATH SHEKHARAYYA ACA NO 494, 7TH MAIN 4TH 'A' CROSS R P C LAYOUT BANGALORE 560040	08/12/2000
113	203634	Mr. ASHOK KUMAR R ACA A 90/51 - R R FLATS, FLAT NO 18 12TH AVENUE ASHOK NAGAR CHENNAI 600083	01/10/2001
114	203784	Mr. SUMANTH C ACA HEAD - FINANCE & ADMINISTRATION PROGEON LIMITED 26/3,26/4 & 26/6, ELECTRONICS CITY HOSUR ROAD BANGALORE 561229	08/12/2000
115	203997	Mr. CHOCKALINGAM P L ACA MANAGER (FINANCE) C/O INDIA FOILS LIMITED 1 SAGORE DUTTA GHAT ROAD KAMARHATI KOLKATA 700058	01/10/2001
116	204233	Mr. MATHEW, CHERIAN ACA 4-A, ASHWINI APTS S G P ALYA C V RAMAN NAGAR BANGALORE 560093	01/10/2001
117	204286	Mr. KUMAR S ACA SR. EXECUTIVE TOYOTA PARTS PRICING DEPT BAHWAN AUTOMOTIVE CENTRE P O BOX 3168 P C 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	01/10/1998
118	204481	Mr. RAJA R ACA 400 THOMPSON AVE. APT NO 105, GLENDALE CA-91201 U S A	01/10/2001
119	204505	Mr. RAVIKUMAR R ACA 1, KRISHNANUGRAHA 44-A, III MAIN ROAD GANDHI NAGAR ADYAR, CHENNAI 600020	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
120	204506	Ms. SANGEETHA RAVIKUMAR ACA I, KRISHNANUGRAHA 44-A, III MAIN ROAD GANDHI NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2001
121	204594	Mr. VENKATESH VAIDYANATHAN ACA 1800 VASANTH COLONY SECOND STREET 18TH MAIN ROAD ANNA NAGAR WEST CHENNAI 600040	01/10/2001
122	204611	Mr. SRIRAM S ACA ERNST & YOUNG PRIVATE LTD. 205, ASHOKA BHOOPAL CHAMBERS S P ROAD SECUNDERABAD 500003	01/10/2001
123	204626	Mr. GANESH.R ACA ACCOUNTS EXECUTIVE FINANCE DEPARTMENT E-VISION P O BOX NO 33999 DUBAI U A E	01/10/1999
124	204633	Mr. PASHUPATHI K ACA ACCOUNTANT GEOS LANGUAGE CENTRE NO 21, FEDERAL ST AUCKLAND NEW ZEALAND	01/10/2001
125	204652	Mr. SARANGAN V ACA B4, MANASA FLATS 15 PATEL STREET NEHRU NAGAR CHROMPET CHENNAI 600044	08/12/2000
126	204879	Mr. SUNDARAVADIVELAN S ACA TVS ELECTRONICS LTD 34, DEVELOPED PLOTS GUINDY INDUSTRIAL PARK GUINDY CHENNAI 600032	01/10/2001
127	205052	Ms. SHANTHI V ACA T2 NAVINS SWARALAYA APTS NO. 32 VEERASAMY STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	01/10/2001
128	205071	Mr. SWAMINATHAN N ACA C3 - 906, L&T SOUTH CITY AREKERE MICO LAYOUT BANGALORE 560076	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
129	205306	Mr. GOPALA RAJU B R ACA SR FINANCIAL ANALYST FEDERAL EXPRESS CORPORATION PO BOX 9239 DUBAI U A E	08/12/1997
130	205333	Ms. RAJANI K ACA CHIEF INTERNAL AUDITOR DR.REDDYS LABORATORIES LTD 7-1-27 AMERPET HYDERABAD 500016	08/12/2000
131	205476	Mr. KARTHIKEYAN T ACA ACCOUNTANT ERNST & YOUNG P O BOX 1750 RUWI, POSTAL CODE 112 SULTANATE OF OMAN	08/12/2000
132	205843	Mr. PRADEEP BHANSALI ACA A-37 CIVIL LINES RAJ BHAWAN ROAD JAIPUR 302006	01/10/2001
133	206273	Mr. SREENIVASAN N S ACA A/11 MIN APARTMENTS 18 NEW BOAG ROAD T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2001
134	206587	Mr. RAMANA REDDY Y ACA ROOM NO.101 MUNICIPAL COMPLEX OPP: AMBEDKAR CHOWRASTA NIZAMABAD DT. BODHAN 503185	01/10/2001
135	206780	Mr. BADRI NARAYAN SUBUDHI ACA N2/94 NAYAPALI BHUBANESWAR 751015	08/12/2000
136	207016	Mr. SREEPATHI D ACA GENERAL MANAGER ICDS SECURITIES LTD NO 115, MANIPAL CENTRE DICKENSON ROAD BANGALORE 560042	01/10/1999
137	207273	Mr. VIJAYA BHAGAVAN GUPTA KOTHA ACA C/O V V GANDHI PLOT NO 20, LIC COLONY TARBUND SIKH VILLAGE SECUNDERABAD 500009	08/12/2000
138	207460	Ms. PREETHI GOPALAKRISHNAN ACA 1-3-176/4/G/4 PADMASHALINAGAR GANDHINAGAR HYDERABAD 500080	01/10/2001
139	207462	Mr. RAMAKRISHNAN N ACA H/10 KALINDI APARTMENTS PASHABHAI PARK RACE COURSE BARODA 390007	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
140	207606	Mr. RAMKUMAR K ACA A 702 GULMOHAR APARTMENTS CAESAR ROAD, AMBOLI ANDHERI WEST MUMBAI 400058	01/10/2001
141	207652	Mr. MARUTHI RAGHURAM JONNALAGADDA ACA 6-2-45/11 SECOND FLOOR ADVOCATES COLONY A C GAURDS LAKDI-KA-POOL HYDERABAD 500004	01/10/2001
142	207981	Mr. SHANKAR SATHISH K ACA NEW NO 24 (OLD NO 10), CENTRAL EXCISE COLONY SAIDAPET CHENNAI 600015	01/10/2001
143	208144	Mr. CHITHIRAI ALIAS BABU A ACA SR FINANCE OFFICER TRANSWORLD GARNET INDIA (P) LTD OPP: TO TUTICORIN AIRPORT KOTTUDANKADU TUTICORIN 628103	01/10/2001
144	208234	Ms. ROOPALI MANSABDAR ACA H NO 6-2-45/11 ADVOCATES COLONY A C GUARDS LAKDI-KA-POOL HYDERABAD 500004	01/10/2001
145	208280	Mr. ADITYA NATRAJ ACA II FLOOR, ASHOK PRITHVI 87, ABHIRAMAPURAM IV STREET CHENNAI 600018	08/12/2000
146	208345	Mr. VIJAY G ACA CREDIT & FINANCE ANALYST MOTOROLA INDIA PVT LTD MOTOROLA EXCELLANCE CENTRE 415/2 MEHRANLI - SECTOR 14 GURGAON ROAD GURGAON	01/10/2001
147	208503	Mr. MEENAKSHISUNDARAM V ACA 'JEYA KRISHNA' 12/11 YOGAMBAL STREET T NAGAR CHENNAI 600017	01/10/2001
148	208814	Ms. LALITA POTLURI ACA ERNST & YOUNG PO BOX 1750, POSTAL CODE 112 RUWI SULTANATE OF OMAN	01/10/2001
149	208989	Mr. RUSHENDRA BABU P ACA INTERNAL AUDITOR DESERT CINE PROJECTS LLC P O BOX 1880 POSTAL CODE 112 RUWI, SULTANATE OF OMAN	01/10/2001

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
150	209037	Mr. PAIDISETTY SHANMUKHA RAO ACA C/O HP-GLOBAL E BUSINESS OPERATIONS PVT LTD WIND TUNNEL ROAD MURUGESHPALAYA BANGALORE 560017	01/10/2001
151	209378	Mr. THIMMA REDDY TURPUSEEMA ACA FINANCIAL CONTROLLER M/S SHUMUK INDUSTRIES LTD P O BOX 6552, KAMPALA UGANDA EAST AFRICA	01/10/2001
152	209411	Mr. PRASANNA SRINIVASAN R ACA 26/8D ARUNDALE BEACH RD. KALAKSHETRA COLONY BESANT NAGAR CHENNAI 600090	01/10/2001
153	209610	Ms. AARTHI N ACA A-6, POWER APARTMENTS 47, K H ROAD, T NAGAR CHENNAI 600017	08/12/2000
154	209773	Ms. ALPHONSA THOMAS ACA CHETHIMATTOM HOUSE KOTTAYAM DIST THOTTAKAD P O 686539	01/10/2001
155	209801	Mr. ANAND S ACA MANAGER - GE CAPITAL INTL.SERVICES 2ND FLOOR CYBER TOWERS HITECH CITY MADHAPUR HYDERABAD 500073	01/10/2001
156	209895	Mr. ELAPROLU KIRAN KUMAR ACA PLOT NO 62 VIKASPURI SANJEEVA REDDY NAGAR (POST) HYDERABAD 500038	08/12/2000
157	210004	Mr. KRISHNA PRASAD MADVESH ACA 346 II FLOOR SECTOR 14 GURGAON	01/10/2001
158	210112	Mr. SANDEEP DIVAKARAN ACA 6 VI MAIN ROAD KASTURBA NAGAR, ADYAR CHENNAI 600020	01/10/2001
159	210305	Mr. SATHIYA NARAYANAN P ACA J-4-415 RBI OFFICERS COLONY GOKULDAM, GOREGAON EAST MUMBAI 400063	01/10/2001

Ashok Halodia
(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Consolidated Production and Trading Account and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March 1998 and the Consolidated Balance Sheet as on 31st March 1998 of Khadi and Village Industries Trading Funds and the Statement of Accounts as on 31st March 1998 of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Khadi and Village Industries Commission according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd./- ILLEGIBLE
Pr. Director of Audit (Central)
Mumbai

Place : Mumbai
Date : 4.12.1998

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION, showing the position as on 31st March, 1998

RECEIPTS

क्रमांक	विवरण	अधशेष	प्राप्तियाँ	भुगतान	इतिशेष	कुल
Sr. No.	Particulars	₹. Opening Balance Rs.	₹. Receipts Rs.	₹. Payments Rs.	₹. Closing Balance Rs.	₹. Total Rs.
अनुलप्रक ANNEXURE	'ए' 'A'					
	I. सरकार से प्राप्त ऋण Loans Received from Government					
	खादी Khadi	5,86,42,33,757	1,22,73,46,000	₹ 92,81,75,000	6,16,34,04,757	
	ग्रामोद्योग Village Industries	7,59,28,23,099	1,52,11,25,000	+ 1,43,04,25,000	7,68,35,23,099	
	अग्रिम के लिए मकान निर्माण ऋण (योजनेतर) House Building Loans for Advances (Non-plan)	2,17,85,427	30,00,000	25,50,016	2,22,35,411	
	योग TOTAL :	13,47,88,42,283	2,75,14,71,000	2,36,11,50,016	13,86,91,63,267	
	भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त कन्सोर्टियम बैंक उधारी Consortium Bank Credit Received from State Bank of India	4,49,82,14,000	60,00,00,000	28,03,56,000	4,81,78,58,000	
	महा योग GRAND TOTAL :	17,97,70,56,283	3,35,14,71,000	2,64,15,06,016	18,68,70,21,267	18,68,70,21,267
	II. सरकार से प्राप्त अग्रिम Advances Received from Government		निकाल दिया गया नौचे मद संख्या-III में अंतर्गत Deleted-Since Transferred to Item No. III below			
	III. व्यापारिक गतिविधियाँ हेतु सरकार से प्राप्तियाँ Receipts from Government for Trading Operations					
	खादी Khadi	93,27,29,845	—	A 8,93,71,000	84,33,58,845	
	ग्रामोद्योग Village Industries	6,81,80,384	—	B 7,00,00,000	6,74,80,384	
	योग TOTAL :	1,00,09,10,229	—	9,00,71,000	91,08,39,229	91,08,39,229
	IV. अनुदान तथा सम्बद्ध प्राप्तियाँ Grants and Connected Receipts					
	a) राज्य मण्डलों तथा संस्थाओं को दिये गए अग्रिमों सहित अधशेष Opening Balance including advances to State Boards and Institutions	2,47,89,16,987	54,21,71,293	3,02,10,88,280		
	b) सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Government	C 2,20,55,00,000	D 84,00,00,000	3,04,55,00,000		
	c) सरकार से योजनेतर प्रशासन के लिए अनुदान Grants Received from Government for non-plan administration	24,00,00,000	—	24,00,00,000		
	d) आर.इ.जी.पी. हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Government for REGP	1,05,00,00,000	—	1,05,00,00,000		
	e) वि. एच. प्रौ. हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान Grants Received from Govt. for S&T	30,00,000	95,00,000	1,25,00,000		
	f) एनपीबीडी/एनपीआईसी हेतु एमएसईएस से प्राप्त अनुदान Grants Received from MNES for NPBD/NPIC	—	18,82,18,991	18,82,18,991		
अनुलप्रक ANNEXURE	'बी' 'B'					
	राज्य मंडलों और संस्थाओं से वापसी रकम (अप्रयुक्त अनुदान इत्यादि) Refunds Received from State Boards and Institutions (Unutilised Grants etc.)	52,73,218	5,83,49,685	6,36,22,901		
	योग TOTAL :	5,98,26,90,203	1,63,82,39,969	7,62,09,30,172		7,62,09,30,172

MUMBAI-56

Statement of Account for the year 1997-98

PAYMENTS

क्रमिक Sr. No.	विवरण Particulars	अबरोबर ₹. Opening Balance Rs.	भुगतान ₹. Payments Rs.	प्राप्ति ₹. Receipts Rs.	इतिरेक ₹. Closing Balance Rs.	कुल ₹. Total Rs.
अनुलग्नक 'जी' ANNEXURE 'G'	I. राज्य मंडलों और संस्थाओं को प्रदत्त ऋण Loans paid to the State Boards and Institutions खादी Khadi ग्रामोद्योग Village Industries अग्रिम के लिए मकान निर्माण (नोन-प्लान) House Building Loans for Advances (Non-plan)	5,11,65,90,279 7,08,22,28,868 1,80,98,416	4,77,44,533 8,51,32,805 18,95,240	15,14,83,980 24,21,38,921 26,69,758	5,01,28,50,832 6,90,52,20,752 1,53,23,898	
	योग TOTAL :	12,21,49,18,563	11,47,72,578	39,62,82,659	11,93,33,95,482	
	राज्य मंडलों और संस्थाओं को अग्रदाय अग्रिम Imprest Advances to the State Boards and Institutions खादी Khadi ग्रामोद्योग Village Industries	59,46,27,461 9,71,70,007	7,24,375 13,75,300	75,35,810 5,75,00,473	57,78,16,026 4,10,38,834	
	योग TOTAL :	68,17,97,468	20,99,675	6,50,42,283	61,88,54,860	
	कन्सोर्टियम बैंक क्रेडिट में से राज्य मंडलों, संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रदत्त ऋण Consortium Bank Credit paid to the State Boards, Institutions & Individuals खादी Khadi ग्रामोद्योग Village Industries	2,58,05,80,855 1,85,55,65,396	— 71,14,94,310	2,10,26,305 7,29,25,486	2,55,95,54,550 2,49,40,44,221	
	योग TOTAL :	4,43,61,46,251	71,14,04,310	9,39,51,790	5,05,35,86,771	
	महा योग GRAND TOTAL :	17,33,28,59,282	82,82,76,563	55,52,86,732	17,60,58,49,113	17,60,58,49,113
	II. अग्रिम Advances					
अनुलग्नक 'के' ANNEXURE 'K'	III. व्यापारिक गतिविधियों में निवेश Investment in Trading Operations खादी Khadi ग्रामोद्योग Village Industries	95,96,01,052 7,93,41,867	31,00,29,808 25,40,037	40,42,45,648 50,01,790	86,53,84,012 7,68,79,914	
	योग TOTAL	1,03,89,42,719	31,25,68,645	40,92,47,438	94,22,63,926	94,22,63,926
अनुलग्नक 'एम' ANNEXURE 'M'	IV. अनुदान और विविध भुगतान Grants and Miscellaneous Payment		खादी Khadi	ग्रामोद्योग V.I.	योग Total	
	(i) राज्य मंडलों, संस्थाओं एवं अन्य को सवितरण Disbursements to State Boards, Institutions and others	87,80,08,435		2,49,22,60,516	3,36,82,68,951	
	(ii) राज्य मंडलों, संस्थाओं तथा अन्य के पास अग्रदाय अग्रिम Imprest Advances with the State Boards, Institutions and others	67,23,14,981		51,79,95,879	1,19,03,18,860	
	(iii) संस्थाओं के पास बुनाई उपदान Weaving Subsidy with institutions	5,19,857		—	5,19,857	
अनुलग्नक 'एन' ANNEXURE 'N'	प्रशासनिक और विविध खर्च Administrative and Miscellaneous Expenditure	44,89,26,875		—	44,89,26,875	
अनुलग्नक 'आर' ANNEXURE 'R'	वसूली योग्य अग्रिम Recoverable Advances					
	अबरोबर Opening Balance	39,61,353				
	जोड़ : भुगतान Add : Payments	4,36,30,93				
	योग TOTAL :	82,64,446				
	घटाना : वापसी Less : Refunds	35,30,296				
	शुद्ध शेष Net Balance	47,34,150	47,34,150	—	47,34,150	

अनुलग्नक 'सी'	V. विविध प्राप्ति				
ANNEXURE 'C'	Miscellaneous Receipts	34,33,64,817	18,94,50,269	53,28,15,086	53,28,15,086
अनुलग्नक 'डी'	VI. जमा				
ANNEXURE 'D'	Deposits				
	अधरोप Opening Balance	9,25,998	—	9,75,998	
	प्राप्तियाँ Receipts	8,91,479	—	8,91,479	
	घटाया: वापसियाँ Less: Refunds	5,02,044	—	5,02,044	
	शुद्ध गेज NET BALANCE:	13,65,433	—	13,65,433	13,65,433
अनुलग्नक 'ई'	VII. उधन				
ANNEXURE 'E'	Suspense				
	अधरोप Opening Balance	—	1,32,62,420	1,32,62,420	
	प्राप्तियाँ Receipts	—	30,28,130	30,28,130	
	योग TOTAL:	—	1,62,90,550	1,62,90,550	1,62,90,550
अनुलग्नक 'एफ'	VIII. व्यापारिक परिणाम				
ANNEXURE 'F'	Trading Results				
	खादी Khadi	2,68,73,089	77,56,496	1,25,48,237	2,20,81,348
	ग्रामोद्योग Village Industries	1,12,24,932	22,15,038	39,99,582	94,40,398
	योग TOTAL:	3,80,98,021	99,71,534	1,65,47,819	3,15,21,736
अनुलग्नक 'क्यू'	IX. अंशदायी/सामान्य भविष्य निधि				
ANNEXURE 'Q'	Contributory/General Provident Fund	12,30,84,530	5,65,27,249	3,83,80,998	14,12,30,781

वर्ष : 1995-96 तक संवितरित निधियों के संबंध में राज्य मंडलों, संस्थाओं आदि से प्राप्त किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति का विवरण।

Statement showing the position about Utilisation Certificates to be received from the State Boards, Institutions etc. in respect of funds disbursed upto the year 1995-96.

(लाख रुपये में Rs. in lakhs)

तह पर सांगि जिसके लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र	शेष
Amount for which Utilisation Certificates were required to be furnished	सरकार/लेखा परीक्षा को सूचित कर दिया गया Utilisation Certificate Received Advised to Govt. / Audit	प्रक्रियानर्गत Under Process Balance
49,468.82	11,075.81	2,953.20
		35,439.81

टिप्पणी/Notes:

- * (ए) सम्मिलित है 92,81,75,000 रुपये ऋण नवीकृत तथा खादी व्यापारिक निधि से अंतरित 8,91,71,00 रुपये.
- (a) Includes Rs.92,81,75,000 loans renewed and Rs.8,91,71,000 transferred from Khadi Trading Fund.
- £ दर्शाता है ऋण नवीकरण के
- Represents loans renewed
- ⊙ (ए) ऋण नवीकरण 1,43,04,25,000 रु. तथा ग्रामोद्योग व्यापारिक निधि से अंतरित 7,00,000 रुपये।
- (a) Includes Rs.1,43,04,25,000 loans renewed and Rs. 7,00,000 transferred from Village Industries Trading Fund.
- + दर्शाता है ऋण नवीकृत
- Represents loans renewed.
- A खादी ऋण निधि को अंतरित रकम
- Represents amounts transferred to Khadi Loan Fund.
- B ग्रामोद्योग ऋण निधि को अंतरित रकम
- Represents amounts transferred to Village Industries Loan Fund.
- C सम्मिलित : योजनात्मक प्रशासनिक खर्च निधि के लिए 11,75,00,000 रु.
- Includes Rs. 11,75,00,000 for Non Plan Administrative Expenditure Fund.
- D सम्मिलित : सामान्य एवं विविध अनुदान निधि हेतु 5,34,00,000 रु.
- Includes Rs. 5,34,00,000 for General and Miscellaneous Grant Fund.

सरकारी ऋण पर प्रभारित व्यय

Interest Charged on Government Loans

खादी

ग्रामोद्योग

Khadi

V.I.

(a) आयोग द्वारा दि. 31.3.97 तक प्राप्त ऋण पर
On Loans received by Commission
upto 31.3.97

92,97,70,865

95,79,52,135

(b) व्याज प्रेषित

Interest Remitted

—

4,75,77,980

(c) रोच-विसर्गके लिए उपदान प्राप्त किया जाना है
Balance for which
subsidy receivable

92,97,70,865

91,03,74,155

(d) प्राप्त उपदान

Subsidy Received

42,00,00,000

16,00,00,000

(e) रोच प्राप्य / Balance Receivable

50,97,70,865

75,03,74,155

(f) व्याज भुगतान / Interest Paid

—

4,75,77,980

4,75,77,980

महा योग GRAND TOTAL :

2,00,25,04,098

3,05,78,34,375

5,06,03,38,473

5,06,03,38,473

अनुलग्नक 'पी'
ANNEXURE 'P'

V.

उर्ध्व

Suspense

—

1,32,62,420

1,32,62,420

1,32,62,420

VI.

बैंक / Bank

खादी निधि Khadi Fund

2,13,06,12,537

ग्रामोद्योग निधि Village Industries Fund

1,63,16,31,795

कंसोर्टियम बैंक उपादी Consortium Bank Credit

3,21,14,230

योग TOTAL :

3,79,43,58,562

3,79,43,58,562

VII.

नकद अग्रदाय Imprest Cash

खादी निधि Khadi Fund

38,47,10,979

ग्रामोद्योग निधि Village Industries Fund

—

योग TOTAL :

38,47,10,979

38,47,10,979

अनुलग्नक 'क्यू'
ANNEXURE 'Q'

VIII.

अंशदायी/साधारण्य प्रविण्य निधि

Contributory/General Provident Fund

बाण्डों, प्रमाणपत्रों तथा भारतीय

स्टेट बैंक में निवेश

13,63,89,493

Investment in Bonds, Certificate
and S.B.I.

बैंक Bank

48,41,288

योग TOTAL :

14,12,30,781

14,12,30,781

महा योग GRAND TOTAL Rs.

27,94,20,14,254

भारत सरकार के दिनांक 31.3.1998 की स्वीकृति पत्र सं.जी-21013/2/98 के जी.आई (11)
के अनुसार ब्याज उपदान के शेष को वर्ष 1998-99 में समायोजित करने के लिए आगे लाया गया
Balance of interest subsidy carried forward to be adjusted later on in 1998-99 vide
Govt. Sanction letter No.G-21013/2/98-KVI(II) dt. 31.3.1998. खादी /Khadi
Rs. 221,35,39,786 ग्रामोद्योग /V.I. Rs. 429,76,23,538. कुल /Total Rs. 651,11,63,324

महा योग GRAND TOTAL Rs. :

27,94,20,14,254

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र AUDIT CERTIFICATE

मैंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के समेकित उत्पादन एवं व्यापारिक लेखा एवं समेकित लाभ-हानी लेखा तथा 31 मार्च 1998 के खादी ग्रामोद्योगी व्यापारिक निधि के समेकित तुलन-पत्र और मार्च 31, 1998 के लेखा विवरण की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त करने लिए है और संतुष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में दी गयी अभ्युक्तियों के अध्ययन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उद्घेख के अनुसार वे लेखे और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कामकाज का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

I have examined the Consolidated Production and Trading Account and Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1998 and the Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 1998 of Khadi and Village Industries Trading Funds and the Statement of Accounts as on 31st March, 1998 of the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify as result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Khadi and Village Industries Commission according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

F. Sd/-

(बी.आर. मंडल)

(B.R. Mandal)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय)

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)

स्थान/Place: मुम्बई/Mumbai


दिनांक / Date: 4/12/1998


प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित धनराशि, जो कि संस्थाओं से प्राप्त किये जाने हैं, जो परिसमापन के अधीन हैं अथवा जिनके विरुद्ध ऋणों की बसूली हेतु कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिसे पूरी तरह बसूल नहीं किया जा सकता है, को छोड़कर 31.3.98 तक दर्शाए अनुसार बकाया ऋण उगाही योग्य हैं।


Certified that the loans shown as outstanding on 31.03.1998 are realisable except the following amounts which are due from institutions, which are under liquidation or against which legal action have been taken for the recovery of the loans which may not be recovered in full.


खादी Khadi : Rs.2,95,33,124


ग्रामोद्योग Village Industries : Rs.2,27,25,571


निदेशक लेखा
Director Accounts
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi and V. I. Commission
मुम्बई Mumbai-400 056.


उप मु. का. पद. (वित्त)
Dy. CEO (Finance)
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi and V. I. Commission
मुम्बई Mumbai-400 056.


वित्त सलाहकार
Financial Advisor
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi and V. I. Commission
मुम्बई Mumbai-400 056.


मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Chief Executive Officer
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi and V. I. Commission
मुम्बई Mumbai-400 056.


अध्यक्ष
Chairman
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
Khadi and V. I. Commission
मुम्बई Mumbai-400 056.